



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2011 (चैत्र 12, 1933)

No.14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2011 (CHAITRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. डीपी/पर्स.-1/2011/793/3/9/2011-पर्स 1--राष्ट्रपति, तमिलनाडु पुलिस के श्री आर. चिनराम को जो कि वर्तमान में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्र.नि. शाखा, चैन्नई में निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 09.02.2011 (अपराह) से पांच वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 10 मार्च 2011

सं. डीपी/पर्स.(एम)/2011/554/3/3/2009--श्री जगन्नाथ साहू ने अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 28.02.2011 के अपराह से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. डीपी/पर्स-1/2011/05/11/18/2009--राष्ट्रपति, निम्नोक्त अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ. ब्यूरो को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों से तथा अगले आदेशों तक के.अ. ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नति पर तैनाती का स्थान	कार्यभार ग्रहण की तारीख
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	रंजन बिसवास	पुलिस अधीक्षक, एसीबी, शिलांग	03.12.2010 (अपराह)
2.	एन.एस. खरयात	पुलिस अधीक्षक, एसीबी, नई दिल्ली	06.12.2010
3.	ए.के. बैंनर्जी	पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, कोलकाता	06.12.2010
4.	डी.सी. द्विवेदी	पुलिस अधीक्षक, एसयू, कोलकाता	09.02.2011
5.	टी. दास	पुलिस अधीक्षक, एससीबी, कोलकाता	06.12.2010
6.	पी.के. मंकड	पुलिस अधीक्षक, एसीबी, पोर्ट-ब्लेयर	09.12.2010

1	2	3	4
7. एस.सी. गुप्ता	पुलिस अधीक्षक, एससी.III, दिल्ली	07.12.2010	
8. जोगिन्द्र नायक	एआईजी (पी)-II, के.अ.ब्यूरो नई दिल्ली	03.12.2010 (अपराह)	
9. पी.एल. मीणा	पुलिस अधीक्षक, एससी.I, नई दिल्ली	07.12.2010	

एस.जे.एम. गिलानी
उप-निदेशक (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. पी.सात-2/2011-मंत्रालयिक--सूबेदार मेजर/स्टेनो के पद से वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप महानिदेशालय, के.रि.पु. बल, नई दिल्ली के श्री अरविन्द निगम (ईरला-8626) ने दिनांक 25.02.2011 (पूर्वाह्न) को विशेष महानिदेशक, उत्तरांचल, जम्मू के वरिष्ठ निजी सचिव का कार्यभार महानिदेशालय, के.रि.पु. बल, नई दिल्ली में ग्रहण कर लिया है।

जी.बी.एच. गिरी प्रसाद
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. ओ.दो. 3867/11-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डा. कमल किशोर ठक को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (दंत चिकित्सक) (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 07.03.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें कम्पोजिट अस्पताल, के.रि.पु. बल, बैलासपुर, में तैनात किया जाता है।

आर.एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जनवरी 2011

सं. ई-16016/लेखा अधिकारी/2010/कार्मिक/1/02--श्री एन. श्रीधरन को के.ओ.सु.ब. में लेखा अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष के लिए रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/- ग्रेड वेतन (पी.बी.-2) के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है तथा अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महानिदेशक/के.ओ.सु.ब. की अनुमति से इसको आगे 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी द्वारा दिनांक

23.09.2010 (अपराह्न) से के.ओ.सु.ब. मुख्यालय, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी पद पर पदभार ग्रहण किया गया है।

राजीव पंत
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 14 मार्च 2011

सं. ई-15014/4/2004-कार्मिक. II/वोल्यूम.II/269--माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी के आदेश दिनांक 15.03.2010 के अनुसरण में श्री सरोज कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेंट/कार्य., वर्तमान में के.ओ.सु.ब. इकाई 2वीं आरक्षित वाहिनी राँची में तैनात, का परिवीक्षा अवधि दिनांक 29.02.2004 को संतोषजनक ढंग से पूर्ण एवं दिनांक 01.03.2004 से स्थायीकरण की घोषणा इस महानिदेशालय के आदेश संख्या ई-15014/4/2004/कार्मिक-II दिनांक 04.05.2010 के तहत किया जाता है।

राजीव पंत
सहायक महानिरीक्षक/कार्मिक

नई दिल्ली-03, दिनांक 3 जनवरी 2011

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक 1/03--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कमाण्डेंटों को रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में के.ओ.सु.ब. में वरिष्ठ कमाण्डेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	वरिष्ठ कमाण्डेंट कार्य में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री/श्रीमति		
1. मो. साकिब नकी	एफजीयूपीपी, उँचाहार	15.12.2010 (अपराह्न)
2. एस.आर. रामास्वामी	समुह मुख्यालय, चैन्नई	16.12.2010 (पूर्वाह्न)
3. के. गोपीनाथन	दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चैन्नई	18.12.2010 (पूर्वाह्न)
4. जयती घोष	एएसजी, कोलकाता	15.12.2010 (अपराह्न)
5. रविन्द्र कुमार	5वीं रिजर्व बटालियन, गाजियाबाद	15.12.2010 (अपराह्न)
6. एस.एम. शरीफ	केआरटीसी, मुन्डाली	28.12.2010 (अपराह्न)
7. एच.के. दत्ता	पीएण्डएचसीएस, चण्डीगढ़	17.12.2010 (अपराह्न)
8. बन माली तान्डी	आईओसी, जीआर, बडोदा	15.12.2010 (अपराह्न)
9. एच. हनुमनथप्पा	बीडीएल, कंचनबाग	16.12.2010 (पूर्वाह्न)
10. श्याम लाल	एटीपीपी, अनपारा	30.12.2010 (अपराह्न)
11. आर.बी. भटनागर	लाल किला, दिल्ली	15.12.2010 (अपराह्न)
12. जे. डब्ल्यू. खान	एएसजी, गुवाहाटी	16.12.2010 (पूर्वाह्न)
13. श्रीकान्त किशोर	एएसजी, चैन्नई	15.12.2010 (अपराह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक 1/04--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ कमाण्डेंटों को रु. 37,400--67,100/- (पी.बी.-4) + ग्रेड वेतन रु. 8,900/- के वेतनमान में के.औ.सु.ब. में उप महानिरीक्षक के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:--

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर उप महानिरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि
1. श्री हेम राज गुप्ता	उ.म.नि./कल्याण, बल मुख्यालय, नई दिल्ली	22.10.2010 (पूर्वाह)
2. श्री सुधीर कुमार	ऑयल, दुलियाजान	22.11.2010 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक 1/05--इस महानिदेशालय के पत्र सं. ई-16015(2)/32/2009/कार्मिक. 1/174 दिनांक 29.09.2010 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में। 1 क्रम सं. 7 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के स्थान पर

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहा. कमाण्डेंट (अग्नि) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
श्री परशु कुमार सिन्हा	एनएफएल, भटिंडा	02.02.2010 (पूर्वाह)

पढ़ा जाये

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहा. कमाण्डेंट (अग्नि) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
1. श्री परशु कुमार सिन्हा	एनएफएल, भटिंडा	07.01.2010 (पूर्वाह)

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब

उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कमाण्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री/श्रीमती		
1. एस.बी. भाई	बीएचईएल, हरिद्वार	04.10.2010 (अपराह)
2. आनन्द सक्सेना	पटना एयरपोर्ट	28.09.2010 (अपराह)
3. बाम देव शर्मा	आरटीसी, बड़वाह	15.10.2010 (पूर्वाह)
4. एन. श्रीधर	निसा, हैदराबाद	21.08.2010 (पूर्वाह)
5. टी.एस. कोहली	समुह मुख्यालय, नई दिल्ली	21.08.2010 (पूर्वाह)
6. एम.आर. भाले	ओएनजीसी, जोरहाट	20.08.2010 (अपराह)
7. हरि ओम गाँधी	7वीं रिजर्व बटालियन, किशतवाड़	04.10.2010 (पूर्वाह)
8. अरूण सिंह	डीएमआरसी, नई दिल्ली	10.09.2010 (पूर्वाह)
9. पी.जे. राज कुमार	डीईई हेडक्वार्टर, हैदराबाद	17.09.2010 (पूर्वाह)
10. पी.बी. पाटिल	एनटीपीसी, दादरी	29.09.2010 (पूर्वाह)
11. दिव्या शुक्ला	एसजी, चैनई (एसजी मुम्बई की पोस्टेड नफरी में)	06.10.2010 (पूर्वाह)
12. जोगिन्दर सिंह	बीएनपी, देवास	09.11.2010 (अपराह)
13. कुमार प्रताप सिंह	समुह मुख्यालय, मुम्बई	06.11.2010 (पूर्वाह)
14. बी.आर. रॉय	उत्तरी खण्ड मुख्यालय, नई दिल्ली	06.12.2010 (अपराह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक 1/07--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंट (कार्य)/जेएओ को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उप कमाण्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
1	2	3
सर्वश्री/श्रीमती		
1. रघुबीर नारैन	एनएचपीसीएल, सुबनसिरी	08.09.2010 (पूर्वाह)
2. मनीष कुमार गौतम	ईसीएल, सीतलपुर	20.09.2010 (पूर्वाह)
3. मनीष सिंह	आरएसटीपीपी, रामागुन्डम	21.08.2010 (पूर्वाह)
4. मिथिलेश कुमार	एसजेएम, हैदराबाद	23.08.2010 (अपराह)
5. वैभव कुमार दुबे	बीआईओपी, डीईपी-05	27.09.2010 (पूर्वाह)
6. आलोक कुमार	बीएसपी, भिलाई	04.09.2010 (अपराह)
7. जय प्रकाश आजाद	गुआ, माईन्स	24.08.2010 (पूर्वाह)
8. आर.एन. रनमूंग	एमआईओपी, मेघातरुबरू	21.08.2010 (पूर्वाह)

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक 1/06--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित उप कमाण्डेंट (कार्य) को

1	2	3	4
9.	मो. उमर खान	केआईओसीएल, कुद्रेमुख	18.09.2010 (अपराह)
10.	अंजनी कुमार वर्मा	एमटीपीएस, मुजफ्फरपुर	20.09.2010 (पूर्वाह)
11.	गणेश सिंह पटवाल	ओएनजीसी, महसाणा	21.08.2010 (पूर्वाह)
12.	बाबू राम राणा	आरसीएफएल, थल	21.08.2010 (पूर्वाह)
13.	अनिल किशोर	एचपीसीएल (बीपी) वैजाग	11.09.2010 (पूर्वाह)
14.	के. कोरप्पन	बीपीसीएल, कोची	27.08.2010 (अपराह)
15.	तुषार डी. शाकरे	दिमापुर एयरपोर्ट	16.09.2010 (अपराह)
16.	हरजिन्दर सिंह उप्पल	एनएलसी, एमटीपीपी, बारसिंगसर	20.08.2010 (अपराह)
17.	नगेन्द्र शर्मा	ओएनजीसी, नजीरा	23.08.2010 (पूर्वाह)
18.	राजेश	रायपुर एयरपोर्ट	13.09.2010 (पूर्वाह)
19.	यतेन्द्र नेगी	आरटीसी, बड़वाह	21.08.2010 (अपराह)
20.	एस. जयाकुमार	आरटीसी, अराकोणम	25.08.2010 (पूर्वाह)
21.	निलेश कुमार	इलैक्ट्रॉनिक सिटी, बैंगलौर	21.08.2010 (पूर्वाह)
22.	एल.के. हार्किप	8वीं रिजर्व बटालियन जयपुर (पे परपस)	03.09.2010 (पूर्वाह)
23.	सुनित शर्मा	एनआरएल, नुमालीगढ़	29.10.2010 (पूर्वाह)
24.	पी. कृष्णन नायर	जीबीएस, नई दिल्ली	04.12.2010 (पूर्वाह)
25.	लिंग राज पाथी	एनएफएल, नांगल	12.11.2010 (पूर्वाह)
26.	शंकर कुमार झा	बीआईओपी-14	06.12.2010 (पूर्वाह)
27.	एल.के. गुप्ता	पश्चिमी खण्ड मुख्यालय, मुम्बई	20.10.2010 (पूर्वाह)
28.	एन. किन्द	डीएमआरसी, नई दिल्ली	29.11.2010 (पूर्वाह)
29.	रामेन्द्र तालुकदार	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	07.12.2010 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/08--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु. बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य)/(अनु) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (कार्य)/(जेएओ) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
----------------	----------------------------------	---

श्री के. एन. आचार्य	एएसजी, हैदराबाद	07.06.2010 (पूर्वाह)
---------------------	-----------------	----------------------

पत्र सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/199 दिनांक 12.10.2010 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में--क्रम सं. 6 श्री के. एन. आचार्य एवम् क्रम सं. 23 श्री ए. नारायणास्वामी से संबंधित ब्यौरे को रद्द माना जाए।

2.	संतोष राज भारद्वाज	डीएमआरसी, नई दिल्ली	11.10.2010 (पूर्वाह)
3.	सुनील कुमार सिंह	एएसजी, लखनऊ	27.09.2010 (पूर्वाह)

1	2	3	4
4.	स्वपन रजक	एसएसजी, ग्रेटर नोएडा	29.09.2010 (पूर्वाह)
5.	जी. गोपालकृष्णन नायर	निसा, हैदराबाद	05.10.2010 (पूर्वाह)
6.	सी. नारायणा	आरटीसी, मुन्डाली	11.10.2010 (पूर्वाह)
7.	के. राजेन्द्रन पिल्लई	सीसीआईएल, तुगलकाबाद	01.10.2010 (पूर्वाह)
8.	शान्त रक्षित	एसवीपी/एनपीए, हैदराबाद	08.11.2010 (पूर्वाह)
9.	अशोक रंजन दास	आरटीसी, भिलाई	01.10.2010 (पूर्वाह)
10.	कृष्णाकान्त श्रीवास्तव	एएसजी, बैंगलोर	13.10.2010 (पूर्वाह)
11.	पी. पी. सिंह	गेल, वधोड़िया	19.11.2010 (पूर्वाह)
12.	एस. एस. महन्ती	आईओसीएल (पीआरपी), पारादीप	09.11.2010 (पूर्वाह)
13.	महेन्द्र प्रताप	डीएम-2 बटालियन, अराकोनम	28.10.2010 (पूर्वाह)
14.	पिरीचारला सम्बसिवा राव	मुम्बई, पोर्ट ट्रस्ट	12.10.2010 (पूर्वाह)
15.	एम. डी. भाटी	पूर्वी खण्ड मुख्यालय, पटना	11.10.2010 (पूर्वाह)
16.	ओम प्रकाश चौहान	डीवीसी, मैथन	19.10.2010 (पूर्वाह)
17.	रवि पूनिया	आईओसी, मथुरा	30.10.2010 (पूर्वाह)
18.	देवेन्द्र कुमार	एएसजी, अहमदाबाद	26.10.2010 (पूर्वाह)
19.	रविभूषण नौटियाल	एएसजी, कोचीन	04.10.2010 (पूर्वाह)
20.	विवेन्द्र कुमार माथुर	सीपीटी, कोचीन	16.11.2010 (पूर्वाह)
21.	पी. के. एल. दास	वीटीपीपी वेल्लूर, चैन्नई	20.10.2010 (पूर्वाह)
22.	सजेन्द्र सिंह	एएसजी, हैदराबाद	04.10.2010 (पूर्वाह)
23.	देवी नारायण मीणा	आरएपीएस, कोटा	04.10.2010 (पूर्वाह)
24.	पी. सूवर्णा राजू	ओएनजीसी, हजोरा	04.10.2010 (पूर्वाह)
25.	पी. अंगानन	निसा, हैदराबाद	05.10.2010 (पूर्वाह)
26.	बेनु धर गिरि	दक्षिण खण्ड मुख्यालय, चैन्नई	20.10.2010 (पूर्वाह)
27.	एस. के. वर्मा	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	09.12.2010 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. ई-16016/1/एडी(आ)/2010/कार्मिक-1/42--गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, के प्रधान लेखा कार्यालय, (प्रशासन) के वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री सुदेश कुमार जैन ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय, नई दिल्ली, में तीन वर्ष के लिए, प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 1.2.2011 (पूर्वाह) से रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- ग्रेड पे के वेतनमान में सहायक निदेशक (लेखा), के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 4 मार्च 2011

संशोधन

सं. ई-38015/(4)/3/वीए/2010/कार्मिक-1/70--इस महानिदेशालय की दिनांक 18.10.2010 की अधिसूचना संख्या ई-38015/(4)/3/वीए/2010/कार्मिक-1/205 के संदर्भ में जिसके तहत श्री वरूण अहलुवालिया, सहायक कमान्डेंट (परिवीक्षा), के.ओ.सु.ब. का तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार किया गया था।

2. उपरोक्त अधिसूचना का संशोधित रूप निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाये :--

के लिये

तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत करने की तिथि 26.08.2010 (अपराह) को

पढ़ा जाये

तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत करने की तिथि 29.08.2010 (पूर्वाह)

3. उपरोक्त अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16013(1)/डीआईजी-डिपा./2008/कार्मिक-II/72--साईंटिस्ट--'एफ' के पद पर प्रोन्नत होने पर श्री विनोद कुमार शर्मा, उप-महानिरीक्षक (अग्निशमन), के.ओ.सु.ब. मुख्यालय, नई दिल्ली को उनके अनुरोध पर उनके मूल कॉडर डी.आर.डी.ओ., दिल्ली को समय से पूर्व संप्रवर्तित कर दिया गया है। श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 28.02.2011 के अपराह से के.ओ.सु.ब. से उप-महानिरीक्षक (अग्निशमन) का पदभार छोड़ दिया है।

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

दिनांक 14 मार्च 2011

सं. ई-16015/15/प्रतिनियुक्ति/रा.म.आ/69/कार्मिक-1/76--श्री योगेश मेहता, कमान्डेंट, के.ओ.सु.ब. को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से के.ओ.सु.ब. की नफरी में ले लिया गया है :--

अधिकारी का नाम	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	के.ओ.सु.ब. की नफरी के लिए जाने की तारीख/इकाई में पदभार ग्रहण करने की तिथि
श्री योगेश मेहता	कमान्डेंट	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	04.11.2011 (पू.) ओ.आई.एल. दुलियाजान

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/78--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु. बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित सहायक कमान्डेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उप कमान्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/ईकाई जहां पद ग्रहण किया	उप कमान्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	धीरज कुमार शुक्ला	एमटीपीएस, मिर्ज़िया	14.11.2010 (पूर्वाह)
2.	नासेर अली	एसजी, कोलकाता	06.12.2010 (पूर्वाह)
3.	पी. के. जॉय	एसएसपी, सेलम	18.12.2010 (पूर्वाह)
4.	विजय कुमार	एसजी, दिल्ली	03.01.2011 (पूर्वाह)
5.	अरविन्द चौहान	एसजी, त्रिची	23.12.2010 (पूर्वाह)
6.	गोकल चन्द	बीबीएफसीएल, नामरूप	03.12.2010 (पूर्वाह)
7.	मोहन सिंह बिष्ट	गेल, पाट	03.01.2011 (पूर्वाह)
8.	अखिलेश कुमार	बीटीपीपी, बोंगईगाँव	13.12.2010 (पूर्वाह)
9.	मुकेश कुमार	टीएचडीसी, टिहरी	11.12.2010 (पूर्वाह)
10.	एम. के. तमिल सेल्वम	डीएमआरसी, दिल्ली	21.02.2011 (पूर्वाह)
11.	यशवन्त सिंह	एसजी, जोधपुर	16.02.2011 (पूर्वाह)
12.	सुनिल शर्मा	एसवीपी/एनपीए, हैदराबाद	23.12.2010 (पूर्वाह)
13.	सतेन्द्र नाथ शुक्ला	एसएसपी, चम्बा	14.02.2011 (पूर्वाह)
14.	के. एस. टी. नायर	केजीपीपी, कवास	30.11.2010 (पूर्वाह)
15.	धर्मवीर यादव	एसजी, मुम्बई	15.11.2010 (पूर्वाह)
16.	पी. के. कुशालाप्पा	एनएलसी, नैवेली	18.11.2010 (पूर्वाह)
17.	इन्द्राज सिंह बोयान्ला	एसजी, दिल्ली	13.11.2010 (अपराह)
18.	हराधन दास	ऑयल, दुलियाजान	15.11.2010 (पूर्वाह)
19.	इन्द्र सिंह नाबियाल	सीपीटी, कोचीन	10.01.2011 (पूर्वाह)
20.	हेमेन्द्र सिंह	एसजी, कालीकट	29.01.2011 (पूर्वाह)
21.	मन्दीश सिंह साही	एसजी, अग्रतला	24.01.2011 (पूर्वाह)
22.	के. पी. रामास्वामी	सीएसवाई, कोचीन	06.01.2011 (पूर्वाह)
23.	माखन सिंह	आईओसी, बरौनी	14.02.2011 (पूर्वाह)
24.	अखिलेश कुमार द्विवेदी	एसजी, अमृतसर	28.01.2011 (पूर्वाह)
25.	एस. पी. एस. तोमर	सीएचपीटी, चैन्नई	02.12.2010 (पूर्वाह)
26.	अजय कुमार झा	डीएम-2, अराकोणम	01.12.2011 (पूर्वाह)
27.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	एनएफएल, गुना विजयपुर	17.02.2011 (पूर्वाह)
28.	संदीप कुमार श्रीवास्तव	डीई, कलपक्कम	23.02.2011 (पूर्वाह)

1	2	3	4
सर्वश्री			
29.	लाल मोहन ठाकुर	जेएनपीटी, शेवा	13.01.2011 (पूर्वाह्न)
30.	निलोत्पल मृणाल	एएसजी, कोलकाता	07.01.2011 (पूर्वाह्न)
31.	विशाल दुबे	एएसजी, दिल्ली	06.12.2010 (पूर्वाह्न)
32.	प्रताप बाहुसाहेब पुन्डे	एएसजी, उदयपुर	21.02.2011 (पूर्वाह्न)
33.	वेद प्रकाश तूर	एनटीपीसी, कानिहा	03.01.2011 (पूर्वाह्न)
34.	योगेश प्रकाश सिंह	एएसजी, भुवनेश्वर	17.01.2011 (पूर्वाह्न)
35.	जी. एन. पुरुकायस्था	ऑयल, दलियाजान	15.01.2011 (पूर्वाह्न)
36.	के. गोपालाकृष्णन	एएसजी, मदुरई	03.02.2011 (पूर्वाह्न)
37.	माकू राम भगत	बीएआरसी/टीएपीएस, तारापुर	18.01.2011 (पूर्वाह्न)
38.	पी. कालियामुरथी	डीएसपी, दुर्गापुर	07.02.2011 (पूर्वाह्न)
39.	कैलाश चन्द्र पात्रा	डीएसपी, दुर्गापुर	18.12.2010 (पूर्वाह्न)
40.	मो. सुहेल सिद्दीकी	सीएचईपी-II, चमेरा	14.02.2011 (पूर्वाह्न)
41.	जय प्रकाश सिंह	एएसजी, वदोदरा	01.03.2011 (पूर्वाह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

नई दिल्ली-03, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/79--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य)/(अनु)/(आशुलिपिक) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (कार्य)/(जेएओ) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/ईकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	शेर सिंह	आरटीसी, भिलाई	27.01.2011 (पूर्वाह्न)
2.	रविन्द्र ब्रो. गजभिये	एएसजी, अहमदाबाद	13.01.2011 (पूर्वाह्न)
3.	अनिल कुमार सिंह	एनडीआरएफ, मुन्डाली	30.12.2010 (पूर्वाह्न)
4.	जनक सिंह	एसएसजी, ग्रेटर नोएडा	08.02.2011 (पूर्वाह्न)
5.	परमा हंस राम	एएसजी, देहरादून	04.02.2011 (पूर्वाह्न)
6.	दसारी डेविड	एनटीपीसी, दादरी	24.01.2011 (अपराह्न)

1	2	3	4
सर्वश्री			
7.	बैद्यनाथ भूरगू	सीटीपीएस, चन्द्रापुरा	20.01.2011 (पूर्वाह्न)
8.	संतोष कुमार	एमपीआरटीसी, बहरोर	04.01.2011 (पूर्वाह्न)
9.	छोटे लाल मीणा	एएसजी, मैंगलोर	18.02.2011 (पूर्वाह्न)
10.	अरविन्द कुमार उपरेती	एएसजी, नई दिल्ली	17.01.2011 (पूर्वाह्न)
11.	थोमसन थोमस	एमपीटी, गोवा	30.12.2010 (पूर्वाह्न)
12.	प्रदीप कुमार मिश्रा	नाल्को, अंगूल	04.01.2011 (अपराह्न)
13.	जय प्रकाश	केआईओसीएल, कुंद्रेमुख	31.12.2010 (पूर्वाह्न)
14.	लघु राज सिंह	नीसा, हैदराबाद	01.01.2011 (पूर्वाह्न)
15.	महेश प्रसाद	एएसजी, खजूराहो	28.01.2011 (पूर्वाह्न)
16.	पंकज कुमार	समूह मुख्यालय, हैदराबाद	05.01.2011 (पूर्वाह्न)
17.	उदय कुमार साह	एएसजी, नई दिल्ली	14.02.2011 (पूर्वाह्न)
18.	हरेन्द्र कुमार	एनएलसीएम, बारसिंगसर	17.01.2011 (पूर्वाह्न)
19.	बोनी इ.जे.	एएसजी, नई दिल्ली	28.01.2011 (पूर्वाह्न)
20.	धर्मवीर सिंह	आरएमपी, मैसूर	31.01.2011 (पूर्वाह्न)
21.	बहादुर राम	डीएमआरसी, दिल्ली	03.01.2011 (पूर्वाह्न)
22.	पी. प्रधान	समूह मुख्यालय, गुवाहाटी	04.01.2011 (पूर्वाह्न)
23.	विनय कुमार शर्मा	एएसजी भुन्डूर, हिमाचल प्रदेश	29.12.2010 (पूर्वाह्न)
24.	दलीप सिंह रावत	ओएनजीसी, नजीरा	27.01.2011 (पूर्वाह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/80--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु.ब. नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित उप कमांडेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/ईकाई जहां पद ग्रहण किया	कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	अपूर्व पाण्डे	एचडीसी, हल्द्विया	14.01.2011 (पूर्वाह्न)
2.	महेन्द्र कुमार यादव	आरटीसी, मुन्डाली	24.01.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्रीमति अराधना	पूर्वी खण्ड मुख्यालय, पटना	07.02.2011 (पूर्वाह्न)
4.	धनंजय नायक	एमपीआरटीसी, बहरोर	21.11.2010 (पूर्वाह्न)
5.	आर. एस. अग्रवाल	ओएनजीसी, नजीरा	01.02.2011 (पूर्वाह्न)

1	2	3.	4
	सर्वश्री		
6.	पी. के. पान्डा	समूह मुख्यालय, हैदराबाद	23.12.2010 (पूर्वाह)
7.	सुनिल कुमार सिन्हा	एसजी, मुम्बई	07.02.2011 (पूर्वाह)
8.	बिपिन चन्द्रा	बीएआरसी, तारापुर	23.02.2011 (पूर्वाह)
9.	एम. शशि कान्त	एसजी, मैंगलोर	10.12.2010 (पूर्वाह)
10.	विष्णु स्वरूप	आरटीसी, अराकोणम	25.02.2011 (पूर्वाह)
11.	पी. के. पाटिल	आरटीसी, भिलाई	24.01.2011 (पूर्वाह)
12.	नवाब मोहम्मद	एफबीपी, फरक्का	22.12.2010 (पूर्वाह)
13.	पशुपति प्रताप सिंह	एसजी, जयपुर	02.02.2011 (पूर्वाह)
14.	अजीत सिंह	समूह मुख्यालय, मुम्बई	21.01.2011 (पूर्वाह)
15.	ए. के. शर्मा	समूह मुख्यालय, अहमदाबाद	17.01.2011 (पूर्वाह)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 फरवरी 2011

सं. ई-16013/शि.गो./2010/कार्मिक-1/45--राष्ट्रपति, श्रीमती शिखा गोयल, भा.पु.से. (ए.पी. 1994) को दिनांक 07.02.2011 के (पूर्वाह) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक के पद पर पे बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) + ग्रेड पे रु. 8,900/- में नियुक्त करते हैं।

प्रशान्त कुमार
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), गुजरात

अहमदाबाद, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. डब्ल्यू.एम.आई./47/(3)/भाग-I-1875--महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने निम्नलिखित तीन मंडल लेखा अधिकारी-I को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी पे बैंड-III (रु. 15,600-- 39,100/-) + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी ग्रुप 'बी' राजपत्रित के रूप में पदोन्नति करने की कृपा की है :-

1.	श्री के. एस. गरासिया	वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में	01.10.2010
2.	श्री जे. ए. पटेल	वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में	01.11.2010
3.	श्री आर. सी. मीना	वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में	01.03.2011

महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने निम्नलिखित तीन मंडल लेखा अधिकारी-II को भी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी पे बैंड-II (रु. 9,300--34,800/-) + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में मंडल लेखा अधिकारी-I ग्रुप 'बी' राजपत्रित रूप में पदोन्नति करने की कृपा की है :-

1.	श्री ए. एम. तिवारी	मंडल लेखा अधिकारी-I के रूप में	01.01.2011
2.	श्री एम. सी. वर्मा	मंडल लेखा अधिकारी-I के रूप में	01.01.2011
3.	श्री एस. वी. सोलंकी	मंडल लेखा अधिकारी-I के रूप में	01.01.2011
4.	श्री आर. आर. सक्सेना	मंडल लेखा अधिकारी-I के रूप में	01.01.2011
5.	श्री एच. के. मीना	मंडल लेखा अधिकारी-I के रूप में	01.03.2011

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा एवं बी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. डब्ल्यू.एम. I/क्यू-73(जी)/खण्ड-IV/2825-27--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतन बैंड-2, रुपए 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रुपए 4,800/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

श्री समीर कुमार दत्त-I

उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(I)(क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. का. स्था. (ह. व. रो.)/ई-IV पें/162--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती सूसम्मा तोमस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	28.02.2011 अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती पी. लीला	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोषिककोड	01.02.2011 पू. (स्वैच्छिक)

के. वी. कुमारन

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. ए-11025/5/2011-डी.सी.एच./स्था.-II--राष्ट्रपति, बुनकर सेवा केन्द्र, गुवाहाटी में श्री अरुण कुमार शुक्ला को 09.03.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक पे बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए ग्रेड पे में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा

अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. ए-19012/574/2001-स्था. ए--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री संतोष कुमार अधिकारी, को भारतीय खान ब्यूरो, गोवा में दिनांक 04.03.2011 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/457/90-स्था. ए--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एम. जी. राऊत, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 22.02.2011 (अपराह्न) से उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/457/90-स्था. ए--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री वी. ए. सोनटक्के, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 22.02.2011 (अपराह्न) से उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृते महानियंत्रक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-110012, दिनांक 8 मार्च 2011

सं. 5-37/2010-स्था. (1)--श्री एस. नंद कुमार, सहायक, रक्षा मंत्रालय, जो कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में रु. 9,300--34,800/- + 4,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-II में आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जी.सी.एस., समूह 'ख' राजपत्रित के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे हैं, को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनके मूल कैडर संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं सीएओ का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, सीएओ/ए-4 (बी), 'ई' ब्लॉक, डलहौजी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 04 मार्च, 2011 के अपराह्न से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

वी. नटराजन

उपनिदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान

(पूर्व राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान)

दिल्ली-54, दिनांक 22 मार्च 2011

सं. 19-13/2010-पी.आर.सी.--निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली श्रीमती शशी तलवार, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को दिनांक 27.09.2010 से नियमित आधार पर सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर वेतनमान बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/-) पर नियुक्त करते हैं।

महिमा नन्द

प्रशासनिक अधिकारी

कृते निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. पीडी/6(1)/2010-भर्ती-III/2011/1751--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती मीना अनिल, सहायक, सी.सी.सी.एम., हैदराबाद,

को दिनांक 07.03.2011 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/6(1)/2010-भर्ती-III/2011/1752--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती सिसली जॉन, सहायक, पऊवि, मुंबई, को दिनांक 04.03.2011 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 17 मार्च 2011

शुद्धिपत्र

सं. पीडी/7(23)/2010-भर्ती-IV/एसओ/एफ/1843--सं. पीडी/7(23)/2010-भर्ती-IV/एसओ/एफ/1263 दिनांक फरवरी 22, 2011 को जारी की गई अधिसूचना के संदर्भ-I में उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 76 में दर्शाए गए डॉ. विश्वजीत झा की पदोन्नति की प्रभावी तिथि से संशोधित कर 01.07.2010 के बदले 02.08.2010 के अनुसार पढ़ा जाए।

वी. टी. राजन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-के.का/2011/293--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, बीएआरसी के सहायक श्री वेंकटकृष्ण एस. (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) को दिनांक 18 फरवरी, 2011 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- भारी पानी बोर्ड (कें.का.) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. ए-35018/1/2009-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को नागर विमानन महानिदेशालय में उड़ान प्रचालन निरीक्षक (वायुयान) के पद पर तदर्थ आधार पर (लघु अवधि संविदा के आधार

पर) पे बैंड-4, 37,400--67,000/- + ग्रेड पे 8,700/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से पुनः छः माह के लिए, या उपयुक्त उम्मीदवार की नियमित आधार पर नियुक्ति या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है :--

1. कैप्टन एच. एस. मल्होत्रा	09.01.2011
2. कैप्टन सी. एस. रंधावा	09.01.2011
3. कैप्टन राजीव यादव	09.01.2011
4. कैप्टन एन. शिवाकृष्णन	09.01.2011
5. कैप्टन निशांक राय	09.01.2011
6. कैप्टन राजीव गुप्ता	12.01.2011

मीना शर्मा
उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. ए-12018/01/2011-स्था.-I--केन्द्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि के लिए सचिव के पद को प्रशासनिक सहायक के रूप में पुनः पदनामित करती है और तत्काल प्रभाव से उक्त पद के वेतनमान सी एस 1770-30-2820 से सीएस 2000-50-3750 का अपग्रेडेशन करती है।

विजय सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. 560(5)/549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	006759	मैसर्स संयम मोटर एण्ड जनरल फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	029204	मैसर्स रिनेन्सा ड्रग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	031147	मैसर्स के. टी. एम. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	028937	मैसर्स कदलस कॉटन निटवेयर एक्सपोर्ट कंसोर्टियम लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
5.	034412	मैसर्स की स्वीचगियर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	34.	016812	मैसर्स कन्हिया फायनान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
6.	026901	मैसर्स स्पन्दन गुरुकुल प्राईवेट लिमिटेड	35.	008700	मैसर्स हिण्डन इस्पात लिमिटेड
7.	017742	मैसर्स ब्लू मून इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	36.	007102	मैसर्स अभिशा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	023097	मैसर्स जगे एलोक्युम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	37.	033160	मैसर्स ज्ञानलीला ई-सिस्टम डवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	024598	मैसर्स थर्ड मिलेनियम रीक्रियेशन्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	38.	023909	मैसर्स शिखर शुभ रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	013365	मैसर्स विची रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	39.	021606	मैसर्स चोरस इण्डिया फायनान्स एण्ड हायर परचेज लिमिटेड
11.	030863	मैसर्स न्यूमैक्स फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड	40.	022382	मैसर्स एचपीएमपी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	014931	मैसर्स मैजेस्टिक हाऊसिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड फायनान्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	41.	020029	मैसर्स पालीवाल ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
13.	027449	मैसर्स विपुल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	42.	016581	मैसर्स रुपम फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	026184	मैसर्स चिनागरी ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	022782	मैसर्स ओपेल इंजीनियर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	029227	मैसर्स शवोय हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	44.	013536	मैसर्स आकार लैमिनेटेड एण्ड कोयल स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	027938	मैसर्स ग्रेनेड सिक्वोरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	45.	003766	मैसर्स श्री गुरु नानक इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	018208	मैसर्स सम्राट म्यूचुअल बेंनेफिट्स लिमिटेड	46.	015866	मैसर्स कॉपर कोईन फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	001798	मैसर्स दा हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	47.	014898	मैसर्स जवान फार्म एण्ड लीजिंग लिमिटेड
19.	007508	मैसर्स विकसन लैबोरेटरीज इण्डिया लिमिटेड	48.	033636	मैसर्स निधी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
20.	027550	मैसर्स रस एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	49.	012963	मैसर्स वीएलएस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	013522	मैसर्स जमुना फायनान्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	50.	017002	मैसर्स अपवीट इन्वेस्टमेंट्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
22.	016927	मैसर्स वीटीएच लीजिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड	51.	020999	मैसर्स नैमिष फायनान्स कम्पनी लिमिटेड
23.	004202	मैसर्स गंगवार सेविंग्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	021028	मैसर्स मन्सा इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स लिमिटेड
24.	017067	मैसर्स मनू फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	012761	मैसर्स निबुला इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
25.	004439	मैसर्स मुरारसन्स मोटर फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	021204	मैसर्स जेएफइ प्लान्टेशन्स लिमिटेड
26.	014490	मैसर्स सुम्या मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड	55.	024699	मैसर्स हरसिंगार स्पाईस लिमिटेड
27.	020796	मैसर्स रउन एण्ड पाल एकजिम प्राईवेट लिमिटेड	56.	030611	मैसर्स रिपिल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
28.	015916	मैसर्स लाभम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	019879	मैसर्स राजेश रमन लीजिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
29.	019598	मैसर्स कविता म्यूचुअल बेंनेफिट लिमिटेड	58.	021729	मैसर्स बंदना क्रेडिट सर्विसिस लिमिटेड
30.	021777	मैसर्स टूटेजा क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	031453	मैसर्स कासमिक इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
31.	025100	मैसर्स नोएडा अंसल इन्फोटेक पार्क प्राईवेट लिमिटेड	60.	029064	मैसर्स आगरा फुटवियर इण्डस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	013733	मैसर्स मूलचन्द ओवरसीज लिमिटेड			
33.	010436	मैसर्स मूलचन्द फूड्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
61.	009226	मैसर्स पवन थर्मोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
62.	028250	मैसर्स एस. ए. एस. फिन. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	022151	मैसर्स स्कायर प्लान्टेशन्स लिमिटेड
64.	030053	मैसर्स ब्रशसिटी रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
65.	025524	मैसर्स सत्य इन्सटीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
66.	030054	मैसर्स ब्रासिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	032135	मैसर्स एस. आई. ड्वैलिंग प्राईवेट लिमिटेड
68.	031585	मैसर्स यूनिफ ड्वैलिंग प्राईवेट लिमिटेड
69.	025326	मैसर्स देनगल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	032137	मैसर्स आर. एस. ड्वैलिंग प्राईवेट लिमिटेड
71.	012139	मैसर्स देनगल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
72.	007014	मैसर्स देनगल ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	004926	मैसर्स जगन्नाथ एण्ड सन्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	028918	मैसर्स ओरविन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	012567	मैसर्स जगदम्बा सीमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
76.	015948	मैसर्स सर्वहारा कृषि कॉमर्शियल इण्डिया लिमिटेड
77.	015054	मैसर्स दा बनारस क्रेडिट कम्पनी इण्डिया लिमिटेड
78.	008888	मैसर्स बाराणसी पॉली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	021647	मैसर्स अंजली सागर हायरफिन लिमिटेड
80.	034072	मैसर्स स्फाट ऐज कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
81.	017704	मैसर्स सूब्रत कॉमर्शियल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
82.	019752	मैसर्स नीदरलैण्ड एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
83.	012799	मैसर्स हिमालयन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	020955	मैसर्स बजाज ओश पॉलीपेट प्राईवेट लिमिटेड
85.	008172	मैसर्स टेकब्राइट केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
86.	011823	मैसर्स बजाज पॉलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
87.	014564	मैसर्स श्री लोक हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
88.	010974	मैसर्स ब्योम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	010906	मैसर्स मल्होत्रा ऑडियोविज़न प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
90.	021879	मैसर्स अंकिता लीजफिन प्राईवेट लिमिटेड
91.	033199	मैसर्स राजशी एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
92.	014213	मैसर्स स्वर्णगंगा लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
93.	012204	मैसर्स सिको सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	021397	मैसर्स पगिया फायनान्स लिमिटेड
95.	034520	मैसर्स आरएनबी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	015618	मैसर्स पूरव फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	025217	मैसर्स अजय रोड लाईन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
98.	025366	मैसर्स भवानी ऑरगेनिक प्राईवेट लिमिटेड
99.	021071	मैसर्स हिमानी प्लान्टेशन्स लिमिटेड
100.	028416	मैसर्स क्वेस्ट बिजनेज सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	023637	मैसर्स संदीप फिन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	008380	मैसर्स कुमार इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	016223	मैसर्स मुकासु मैनेजमेंट सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
104.	018115	मैसर्स अर्पित एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	003023	मैसर्स इलाहाबाद लॉ जनरल पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	006820	मैसर्स मार्टन कॉमर्शियल एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	021448	मैसर्स श्रेष्ठ फायनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड
108.	014595	मैसर्स माईकैप कम्प्यूटर्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
109.	015365	मैसर्स रिस्को फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	016144	मैसर्स ब्रिजेश फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	021640	मैसर्स स्वर्ण गंगा क्रेडिट्स एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
112.	004555	मैसर्स एलकोप मैन्यूफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	013547	मैसर्स नारंग कोरुगेटेड प्राईवेट लिमिटेड
114.	025653	मैसर्स कम्प्यूटर सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	012595	मैसर्स श्री माँ विन्ध्यवासिनी राईस मिल प्राईवेट लिमिटेड
116.	020982	मैसर्स एटूजेड कम्प्यूटर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
117.	032594	मैसर्स एनकोर फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
118.	014406	मैसर्स भिरुग सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	027143	मैसर्स रिकिन नितिन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
120.	008449	मैसर्स रीना फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	018613	मैसर्स एसआरसी कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसिस लिमिटेड
121.	000634	मैसर्स दा सेन्ट्रल टॉकीज़ प्राईवेट लिमिटेड	150.	031438	मैसर्स नीलकण्ठ फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
122.	028497	मैसर्स यूनीमेड डिस्ट्रीब्यूटर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	151.	010121	मैसर्स एएए एनर्जी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
123.	031253	मैसर्स ग्लोबिन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	152.	031848	मैसर्स टोक डबलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	019771	मैसर्स सुरक्षित हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	153.	017636	मैसर्स कावेरी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	021031	मैसर्स शिखर फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड	154.	017994	मैसर्स रिम्मी फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड
126.	019955	मैसर्स श्रीकार इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	155.	029982	मैसर्स काशीपुर फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	010221	मैसर्स प्रसाद लैटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	156.	026704	मैसर्स फ्यूचर कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
128.	021866	मैसर्स शकम्बरी फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	157.	027216	मैसर्स सहारनपुर स्पिनटेक्स लिमिटेड
129.	021985	मैसर्स शैल देव इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स लिमिटेड	158.	014799	मैसर्स परम निवेशक लिमिटेड
130.	009907	मैसर्स टीएमए कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	159.	018190	मैसर्स संगम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	012388	मैसर्स मुरादाबाद होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	160.	018122	मैसर्स डैफोर्डिल्स फायनान्स लिमिटेड
132.	008194	मैसर्स सितार पॉली क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड	161.	017414	मैसर्स चित्रान्स हाऊसिंग एण्ड लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
133.	033941	मैसर्स आसकेत एजुकेशनल इन्सटीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड	162.	034518	मैसर्स श्री गिराजी इन्शोरेन्स कन्सलटेंट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
134.	012269	मैसर्स एस मीडिया एडवर्टाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड	163.	026542	मैसर्स नीलायम इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
135.	031708	मैसर्स श्री मधु सूदन सालवेन्ट एक्सट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड	164.	021637	मैसर्स महाकुशल म्यूचुअल बेंनेफिट्स लिमिटेड
136.	013159	मैसर्स समरीश इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	165.	017010	मैसर्स प्रेरणा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	020883	मैसर्स विकास रतन इनफिन प्राईवेट लिमिटेड	166.	021844	मैसर्स लखीमपुर खीरी क्रेडिट एण्ड लीजिंग लिमिटेड
138.	009548	मैसर्स जैकारा मोटर फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	167.	015295	मैसर्स एम. के. एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
139.	023421	मैसर्स ताज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	168.	010853	मैसर्स प्रेम लैमीकोट्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	032421	मैसर्स सेंचुरी हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	169.	017243	मैसर्स बरेली इण्डस्ट्रीयल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
141.	021274	मैसर्स एम. डी. एन. क्रेडिट्स लिमिटेड	170.	031179	मैसर्स प्रगति इण्डस्ट्रीयल पॉवर कम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	032422	मैसर्स कम्पीटेंट मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	171.	012014	मैसर्स कृष्णा थरमोवेयर प्राईवेट लिमिटेड
143.	032423	मैसर्स पाइनियर ब्रास प्राईवेट लिमिटेड	172.	001278	मैसर्स करतार ट्रान्सपोर्ट एण्ड जनरल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
144.	028380	मैसर्स पारश फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड	173.	022405	मैसर्स स्वाती फिनलीज लिमिटेड
145.	032451	मैसर्स मन्जरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	174.	025568	मैसर्स नोएडा अम्पूजमेंट पाक्स लिमिटेड
146.	019595	मैसर्स ब्लाक म्यूचुअल बेंनेफिट्स लिमिटेड	175.	013656	मैसर्स प्रथम इन्वेस्टमेंट्स इण्डिया लिमिटेड
147.	012481	मैसर्स एच. पी. एस. पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	019685	मैसर्स एस. एस. बी म्यूचुअल बेंनेफिट्स लिमिटेड
148.	015883	मैसर्स शंखापण्डी ऑटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड			

1	2	3
177.	014524	मैसर्स सुविधा फायनेंशियल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	016743	मैसर्स आई. एस. एम पब्लिकेशन्स लिमिटेड
179.	013574	मैसर्स शिखर म्यूचुअल बैनेफिट लिमिटेड
180.	015818	मैसर्स प्रिमियम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
181.	016143	मैसर्स नरसिंह क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स इण्डिया लिमिटेड
182.	005793	मैसर्स रस्तोगी फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
183.	032312	मैसर्स रिशभ टेक्नीकल एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
184.	018234	मैसर्स कोटयम रबर प्राईवेट लिमिटेड
185.	007719	मैसर्स मिडास टच फाइनेन्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड
186.	014171	मैसर्स बृजवासी फेरो एलॉय प्राईवेट लिमिटेड
187.	028736	मैसर्स रुमा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
188.	027755	मैसर्स आरजी शूह डिजाइन लिमिटेड
189.	005385	मैसर्स पुष्कर मोटर फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	029018	मैसर्स अलास्का मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
191.	008329	मैसर्स रवि हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
192.	019636	मैसर्स धरती धन प्लानेशन्स इण्डिया लिमिटेड
193.	027486	मैसर्स लीडा टैक्सफ्री सिगार प्राईवेट लिमिटेड
194.	016453	मैसर्स रीयल वर्थ ऑटो सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
195.	027307	मैसर्स राजकमल रिजॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	014828	मैसर्स के. के. कॉमर्शियल जनरल फाइनेन्स इण्डिया लिमिटेड
197.	024105	मैसर्स मिधा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
198.	003399	मैसर्स प्रताप फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
199.	027499	मैसर्स शिवांगी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
200.	029549	मैसर्स इन्फोबाईट सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
201.	028281	मैसर्स लाईफ आधार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
202.	009850	मैसर्स श्री आनन्देश्वर टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
203.	014473	मैसर्स टीवीएस सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
204.	026918	मैसर्स कॉमनेट इन्फोसोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	025360	मैसर्स केस्को फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	011637	मैसर्स क्लासिक पाउचेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
207.	025763	मैसर्स आर. एस. फाईन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
208.	011086	मैसर्स सनविण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	019152	मैसर्स श्री कार्तिकेय फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड
210.	020344	मैसर्स केवी इण्डिया हेल्थकेयर लिमिटेड
211.	030569	मैसर्स सुषमा एग्रो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
212.	025387	मैसर्स सिंह मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	018000	मैसर्स प्रवल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
214.	026097	मैसर्स दिव्यानन्द इन्फोटेक लिमिटेड
215.	030395	मैसर्स दिव्यस्वादेशी वस्तु भण्डार प्राईवेट लिमिटेड
216.	031477	मैसर्स संपर्क एग्रो इण्डिया लिमिटेड
217.	011983	मैसर्स के. जी. चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
218.	012790	मैसर्स मानिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	014816	मैसर्स मोहन नन्दन फाइनेंशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
220.	005993	मैसर्स केजरीवाल होल्डिंग्स लिमिटेड
221.	020831	मैसर्स रेखा मैडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
222.	019925	मैसर्स सौदागर कन्सट्रक्शन लिमिटेड
223.	017741	मैसर्स अंजलिस कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
224.	004795	मैसर्स गजन फाइनेन्स एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड
225.	012132	मैसर्स कोनिका चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
226.	012104	मैसर्स तलब टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
227.	018747	मैसर्स इलाहाबाद क्रेडिट्स लिमिटेड
228.	027671	मैसर्स डायनेमिक न्यूज एण्ड फीचर्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	019275	मैसर्स गोल्डलाईन कैपिटल एण्ड फिनलीज लिमिटेड
230.	024133	मैसर्स सिक्स स्टार साईन कम्बाईण्ड प्राईवेट लिमिटेड
231.	014686	मैसर्स शोभित फाइनेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
232.	026953	मैसर्स फ्रीडम कंज्यूमर नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
233.	031020	मैसर्स एक्सलोट स्मार्ट कार्ड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
234.	032263	मैसर्स एवी हैन्डीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	027573	मैसर्स डाकनेट हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
236.	015832	मैसर्स ए आर वी हायर परचेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
237.	011743	मैसर्स सी. एन. एफ. एजेंसीज एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
238.	016516	मैसर्स पराश जी केयर फाइनेन्स लिमिटेड	267.	028726	मैसर्स टारगेट क्लासेस प्राईवेट लिमिटेड
239.	008372	मैसर्स गोलडेन रोलिंग एण्ड फाउन्ड्री मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	268.	019430	मैसर्स गोयल टैलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
240.	017386	मैसर्स शिव म्यूचुअल बेंनेफिट लिमिटेड	269.	012228	मैसर्स मोहन ब्रदर्स ऑटोमोबाईल एण्ड जनरल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
241.	022281	मैसर्स माईग्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	270.	026263	मैसर्स टैक्नो लॉजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	009634	मैसर्स दून फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	271.	029198	मैसर्स बीजो शीतल पूर्वांचल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	002932	मैसर्स हरमंगी एलन प्राईवेट लिमिटेड	272.	018389	मैसर्स आकृति ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	025798	मैसर्स स्वपनिल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	273.	011388	मैसर्स ओ. एच. बजाज कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
245.	030632	मैसर्स विवाकुअस एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	274.	017736	मैसर्स नोएडा नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	027100	मैसर्स निटको लाईटिंग प्राईवेट लिमिटेड	275.	019141	मैसर्स महावीर फाइनैशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
247.	019113	मैसर्स अंश मनीफिन लिमिटेड	276.	029267	मैसर्स एएए प्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
248.	032511	मैसर्स देवभूमि मिनरल डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	277.	020309	मैसर्स वारसने इक्यूपमेंट्स लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
249.	031053	मैसर्स प्रितम सिक्थोरटीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	278.	025975	मैसर्स जीएसडी डायमण्ड एण्ड कोल्ड मर्चेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड
250.	026098	मैसर्स देव इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीज इन्सटीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड	279.	012794	मैसर्स प्रसाद सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	003606	मैसर्स कवैश कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	280.	012933	मैसर्स मिलाप एण्ड सन्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	018802	मैसर्स बरेली म्यूचुअल बेंनेफिट्स लिमिटेड	281.	028546	मैसर्स ओरियेंट रेव मर्केन्टाईल लिमिटेड
253.	024603	मैसर्स इलेक्ट्रो डायन प्राईवेट लिमिटेड	282.	027979	मैसर्स माश्री रिटेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
254.	018398	मैसर्स सिद्धार्थ हर्वस रिसर्च लैबोरेटरीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	283.	027638	मैसर्स बीईएचएल एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	006266	मैसर्स सर्व प्रिया जनरल फाइनेन्स लिमिटेड	284.	011103	मैसर्स जोहर कम्यूनीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
256.	030068	मैसर्स दून मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	285.	023243	मैसर्स बरेली कम्यूनीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	026587	मैसर्स आवर वे नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	286.	021065	मैसर्स मयंक हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
258.	009528	मैसर्स राधा परिधान प्राईवेट लिमिटेड	287.	025647	मैसर्स पंसारीवाला इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड
259.	009705	मैसर्स विका गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	288.	018935	मैसर्स सदाबाद फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	003002	मैसर्स मुरादाबाद इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	289.	017246	मैसर्स वरदान फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	017139	मैसर्स बहार ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	290.	010722	मैसर्स हितकारी मोटर फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
262.	000542	मैसर्स दा अलीगढ़ कॉमर्शियल एसोसियेशन लिमिटेड	291.	025854	मैसर्स एस. बी. डी. इन्फोशेल्यूशन्स इण्डिया लिमिटेड
263.	003129	मैसर्स कासमो फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	292.	011903	मैसर्स चौधरी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
264.	011629	मैसर्स खजाना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	293.	009248	मैसर्स मुस्कान चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	006831	मैसर्स ब्रिजनाथ राजा राम एजेंसीज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	294.	009071	मैसर्स समरीशी फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
266.	002830	मैसर्स ऑटोमोबाईल्स एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	295.	013414	मैसर्स महादेव बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
296.	014974	मैसर्स अनम्स टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	017317	मैसर्स सन्त कृपाल म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड
298.	005581	मैसर्स लोहिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
299.	016267	मैसर्स एकेके म्यूचुअल बेनेफिट कम्पनी लिमिटेड
300.	018416	मैसर्स अग्रवाल म्यूचुअल प्राईवेट लिमिटेड
301.	030435	मैसर्स सोनी रीयल एस्टेट एण्ड डवलपर्स लिमिटेड
302.	028473	मैसर्स तपसा स्टील्स लिमिटेड
303.	026948	मैसर्स श्रीनेत्र इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
304.	006393	मैसर्स ए. के. ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
305.	018112	मैसर्स सोलर फर्टीलिटी एण्ड स्प्रेम सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
306.	020146	मैसर्स प्रतियोगिता साहित्या पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
307.	031033	मैसर्स आर. कुरे फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
308.	018161	मैसर्स एस. एन. टी. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
309.	000010	मैसर्स दा बुरवाल शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड
310.	027477	मैसर्स गजाधर डेवलपिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
311.	008818	मैसर्स निर्मला एगो प्राईवेट लिमिटेड
312.	023745	मैसर्स राघव ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
313.	010848	मैसर्स इन्दु एसिड केम लिमिटेड
314.	027789	मैसर्स सना होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
315.	021241	मैसर्स राज कोल कमीशन एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
316.	011029	मैसर्स एम आर चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	019789	मैसर्स ए. एस. के. केमिकल्स एण्ड क्लोरेनेट प्राईवेट लिमिटेड
318.	012878	मैसर्स इलाईट सिस्टेमेटिक्स लिमिटेड
319.	008367	मैसर्स बलूजा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
320.	023000	मैसर्स डी. ए. के. यूरोकेम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
321.	025259	मैसर्स सिमबोसिस कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
322.	018531	मैसर्स वाई. के. एम. फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
323.	015317	मैसर्स दिव्या म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड
324.	021193	मैसर्स हीरक फिनसेक इण्डिया लिमिटेड

1	2	3
325.	014784	मैसर्स प्रसन्न ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
326.	017378	मैसर्स प्रसन्न सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
327.	012893	मैसर्स यश फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
328.	015963	मैसर्स एचआजी फाइनेन्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
329.	018309	मैसर्स जैनस सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
330.	017351	मैसर्स डी. जी. म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड
331.	026745	मैसर्स एच. एम. आई. एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
332.	005864	मैसर्स सारनाथ जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड
333.	021755	मैसर्स वेलग्रो म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड
334.	032505	मैसर्स रेशम रीयल टूल्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
335.	025881	मैसर्स सन क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
336.	024640	मैसर्स आईआईटीसी डिजिटल कॉम प्राईवेट लिमिटेड
337.	003207	मैसर्स शाह बूट लिमिटेड
338.	031725	मैसर्स संरचना कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड
339.	021505	मैसर्स सर्व दरसी फाइनेन्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड
340.	004401	मैसर्स धूप स्पीनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
341.	025806	मैसर्स प्रयाग इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
342.	017023	मैसर्स विमल फाइनेंशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
343.	004500	मैसर्स कुमार उलेन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
344.	033224	मैसर्स जे. लाल होटल्स एण्ड रिजॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	017518	मैसर्स कन्द्रीवाईड टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
346.	021648	मैसर्स रिधी सिधी क्रेडिट इण्डिया लिमिटेड
347.	012955	मैसर्स शिवा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
348.	032359	मैसर्स एडवांस मेडीसेफ इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
349.	020137	मैसर्स प्राईड प्लान्टेशन्स इण्डिया लिमिटेड
350.	013861	मैसर्स लखनऊ म्यूचुअल बेनेफिट प्राईवेट लिमिटेड
351.	026823	मैसर्स माइन्डशेयर कन्सल्टिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
352.	018214	मैसर्स स्पैक इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
353.	020090	मैसर्स मेगाबाईट म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड
354.	022778	मैसर्स आगरा टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
355.	019810	मैसर्स वी फिल्मको फोटो न्यूज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
356.	027951	मैसर्स जी सैट एवीएशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
357.	020303	मैसर्स अर्पणा फाइनैशियल सर्विसिस लिमिटेड
358.	012344	मैसर्स आशुतोष हाऊसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स लिमिटेड
359.	033972	मैसर्स एकलव्य ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	028981	मैसर्स राधा रानी बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
361.	008351	मैसर्स अमीन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
362.	022800	मैसर्स नाईस इण्डिया क्रेडिट एण्ड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
363.	028617	मैसर्स हिमानी हाऊसिंग एण्ड डवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
364.	019252	मैसर्स योगेश शीतग्रह प्राईवेट लिमिटेड
365.	013583	मैसर्स चन्द्र गंगा कन्सल्टेशन एण्ड कैपिटल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
366.	006086	मैसर्स पंचरोमेटिक इंक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
367.	026237	मैसर्स सिटीशॉप ऑनलाईन लिमिटेड
368.	021270	मैसर्स रिक्टर कॉमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड
369.	010685	मैसर्स तारा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
370.	021224	मैसर्स कमलेश म्यूचुअल बेंनेफिट लिमिटेड
371.	021714	मैसर्स जे. एस. आर. क्रिफिनलीज इण्डिया लिमिटेड
372.	018303	मैसर्स पूर्ण चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
373.	018430	मैसर्स बैंक ग्रुप फिनलीज इण्डिया लिमिटेड
374.	033516	मैसर्स आरपीएस लोजिस्टिक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
375.	022344	मैसर्स मन्नी प्लान्टेशन्स लिमिटेड
376.	024066	मैसर्स गोरखपुर मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
377.	011737	मैसर्स चन्दौली एग्रो डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
378.	032506	मैसर्स विची रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
379.	028342	मैसर्स ज्वायस इन्टरनेशनल फन सिटी प्राईवेट लिमिटेड
380.	028883	मैसर्स मार्व मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
381.	006403	मैसर्स श्री दुर्गा बंसल प्राईवेट लिमिटेड
382.	028592	मैसर्स कुबेर बायो-मेडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
383.	010148	मैसर्स आरपिक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
384.	023677	मैसर्स सदभावना सेल्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
385.	007999	मैसर्स पैराडाईज पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
386.	032298	मैसर्स वृन्दावन टैक्सटाईल पार्क सेज. प्राईवेट लिमिटेड
387.	030457	मैसर्स झिरवार इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
388.	013191	मैसर्स इंगल ट्रेकिंग एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
389.	025200	मैसर्स कॉस मॉस फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	008382	मैसर्स नेटप्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
391.	025111	मैसर्स अग्रवाल पेपर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 7 मार्च 2011

सं. आरओसी/जेएमयू/560(5)ईईएस-2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्रम	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1.	1390	मैसर्स जे. एस. ए. लीजिंग एण्ड फाइनैशियल सर्विसिज, जम्मू प्राईवेट लिमिटेड
2.	1731	मैसर्स पुंछ हायर प्रचेज एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	1147	मैसर्स अंतल फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
4.	1152	मैसर्स चार मिनार फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	0266	मैसर्स कोडीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	0909	मैसर्स अल्पस ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

स. कु. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू व काश्मीर

जम्मू-180012, दिनांक 10 मार्च 2011

सं. आरओसी/जेएमयू/560(5)ईईएस-2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियों राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई हैं:--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	2722	मैसर्स मलिक ट्रेवलस एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड
2.	1264	मैसर्स शिवम मिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	2060	मैसर्स नूर कोलानाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	2102	मैसर्स चिनाब एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	2857	मैसर्स सनशाईन ह्यूमन रिसोर्स सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
6.	1468	मैसर्स इन्डो सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	1412	मैसर्स जे. एण्ड के. सॉलवेक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	0588	मैसर्स जम्मू ऑटो फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
9.	0302	मैसर्स मट्टो वसंटेड स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	1473	मैसर्स केवीएस होलीडे होम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

एम. के. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू व कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पराकट ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 18 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./58364/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पराकट ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स संतराम रियल्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 18 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./31484/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संतराम रियल्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गज हालिडेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 18 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./43213/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गज हालिडेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मोनार्च लाइफ सायन्सीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 18 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./42025/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोनार्च लाइफ सायन्सीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 10 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ईईएस/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियों राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई हैं:--

क्रम सं.	नम्बर	कम्पनी नाम
1.	003682	मैसर्स चन्द्रहास एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	005817	मैसर्स आदर्स लिजिंग एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	011974	मैसर्स एक्सक्यूजेट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	011975	मैसर्स एक्सक्यूकापटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	010522	मैसर्स वैसाली आयुर्वेदिक प्राईवेट लिमिटेड
6.	008139	मैसर्स अर्जन एग्रो प्लान्टेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
7.	006608	मैसर्स अर्जन सेविंग इंडिया लिमिटेड
8.	004707	मैसर्स युनाइटेड इंडिया हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 10 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ईईएस-2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियां का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई हैं:--

क्रम सं	नम्बर	कम्पनी नाम
1	2	3
1.	009379	मैसर्स एच. टी. एल. टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	002146	मैसर्स लोहिया नगर इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
3.	012632	मैसर्स अरुनूदय कान्हा डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
4.	002330	मैसर्स कृष्णा ड्रग्स एण्ड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5.	010204	मैसर्स जयन्त इंटरनेट लिमिटेड
6.	009234	मैसर्स चोपरा रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	008584	मैसर्स नार्थ ईस्ट एग्रो फुड प्राईवेट लिमिटेड
8.	006877	मैसर्स स्टील सिटी फाइनान्स लिमिटेड
9.	008253	मैसर्स रॉय ट्रेडर्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	009580	मैसर्स हेरींग हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
11.	009634	मैसर्स मस्करा इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	011313	मैसर्स प्रभाकर स्वर्णीमा एण्ड रुना ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	0011913	मैसर्स हरीश समरुद्धी इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
14.	006762	मैसर्स प्रोफिट आई रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
15.	007893	मैसर्स स्टील सिटी ग्रीन-लैंड इंडिया लिमिटेड
16.	009570	मैसर्स अनीन्दु एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	003906	मैसर्स त्रिपुरारी कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
18.	012868	मैसर्स जीवनद्वीप लाईफ लाइन प्राईवेट लिमिटेड
19.	005670	मैसर्स क्वालिटी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	006983	मैसर्स सुहाना फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
21.	010307	मैसर्स तारा मॉ मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
22.	001685	मैसर्स त्रिवेणी पॉलीटेक्स लिमिटेड
23.	011395	मैसर्स नव्या इंटीलजेन्स एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	005536	मैसर्स गैस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड
25.	003501	मैसर्स जगन्नाथ खीयालाल कन्सट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	010632	मैसर्स रुद्रा कालनेट प्राईवेट लिमिटेड
27.	011410	मैसर्स जगत नारायण सिन्हा कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
28.	000810	मैसर्स आसानगर रीरॉलिंग मिल्स एण्ड फाउन्डरी प्राईवेट लिमिटेड
29.	010451	मैसर्स सिद्धार्थ मार्केटिंग एण्ड रिटेल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	002934	मैसर्स फैब्रिक-कैंटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
31.	009495	मैसर्स मारंगा एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	006318	मैसर्स कीन (इंडिया) फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
33.	009647	मैसर्स सीटेक हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	009960	मैसर्स झारखण्ड नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	010352	मैसर्स यूनिस्वर् मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
36.	005763	मैसर्स नीलगीरी प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	010752	मैसर्स बालाजी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	004107	मैसर्स कम्प्यूटेले कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	011727	मैसर्स सास्वत साई बिल्डर एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	011034	मैसर्स आकांक्षा मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
41.	012314	मैसर्स कृतिका सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	001984	मैसर्स मिथिला कला केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड
43.	006602	मैसर्स पुरुसोत्तम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
44.	002164	मैसर्स आर. के. एस. पालीकास्ट प्राईवेट लिमिटेड
45.	010310	मैसर्स आकाश फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	000983	मैसर्स पटना फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	006721	मैसर्स बिहायाज फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
48.	010825	मैसर्स फलेरेली टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
49.	008833	मैसर्स सागरिका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
50.	003134	मैसर्स प्रणजाल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	006135	मैसर्स बी. जी. एस. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	007441	मैसर्स श्यामद्वीप इंजीनियर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	005458	मैसर्स मोंकाली लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	006784	मैसर्स विद्यानन्द पीगमेंट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	012025	मैसर्स बाल्मीकी कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
56.	003981	मैसर्स कोसी सीमेंट कंक्रीट प्राईवेट लिमिटेड
57.	010988	मैसर्स राजकिशोर सिंह कन्सट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	007367	मैसर्स युदुवंसी मसीना बीज प्राईवेट लिमिटेड
59.	010044	मैसर्स पीरो भोजपुर कन्सट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	000336	मैसर्स हिमालय आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
61.	011208	मैसर्स गणपति सोलर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
62.	013315	मैसर्स अपना रोजगार कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
63.	006820	मैसर्स परेक्षा कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	009638	मैसर्स देवाय बिजनेस मशीन प्राईवेट लिमिटेड
65.	013305	मैसर्स मंगलम ग्रेन्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	010327	मैसर्स आमीयोस बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
67.	013330	मैसर्स बिहार सिक्युरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
68.	008661	मैसर्स हैप्पी डेज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
69.	012911	मैसर्स रीकॉन टेलिकन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
70.	004887	मैसर्स ग्री मोर ट्री प्राईवेट लिमिटेड
71.	013235	मैसर्स स्टार डील सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
72.	005285	मैसर्स स्टार सेविंग लिमिटेड
73.	010354	मैसर्स उरुजी एग्रो टेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	011186	मैसर्स आनन्द मुस्कान होटल प्राईवेट लिमिटेड
75.	010116	मैसर्स अल्टीना फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
76.	009368	मैसर्स मों जगदम्बे सिलिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
77.	001446	मैसर्स आचारी नर्सिंग क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
78.	007375	मैसर्स कोडरमा कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	012238	मैसर्स सुरेल हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
80.	011431	मैसर्स सालीमार ऑक्साइड प्राईवेट लिमिटेड
81.	009383	मैसर्स रंजन साइन्टीफिक ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	009883	मैसर्स रास मोसन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	012356	मैसर्स रिलीवेन्ट मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
84.	008047	मैसर्स द्वीप मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
पटना, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/ईईएस-2011/10676--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 30 दिन के उपरान्त यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तब निम्नलिखित कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी:--

क्रम सं.	नम्बर	कम्पनी नाम
1.	010723	मैसर्स पुष्पांजली टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	000001	मैसर्स जमालपुर आइस कम्पनी लिमिटेड
3.	002717	मैसर्स अलंकार मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	008655	मैसर्स सत्यम लुब्रीकेन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	006292	मैसर्स अजुबा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	003440	मैसर्स फ्रैन्ड्स ऑटोमोबाइल्स इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	009255	मैसर्स न्योरा गैस प्वाइंट बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	006994	मैसर्स पी आई फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड
9.	011784	मैसर्स सुरेश रॉय कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
10.	009963	मैसर्स बी के सिन्हा कन्सल्टैंट्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
पटना, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ईईएस-2011/10681--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई हैं:--

क्रम सं.	नम्बर	कम्पनी नाम
1.	011281	मैसर्स रोशनी हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	001592	मैसर्स जिंक प्रोडक्ट्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	012054	मैसर्स सुमन इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एण्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
4.	009170	मैसर्स पैराडाइज इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
5.	010893	मैसर्स शिवमंगल कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
6.	003451	मैसर्स उमा कॉम्पटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
7.	007401	मैसर्स राजन पवन लम्बोदर फाइनान्स लिमिटेड
8.	007150	मैसर्स वैसाली इन्डस्ट्रीयल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	010260	मैसर्स दामोदर कोल प्राईवेट लिमिटेड
10.	009433	मैसर्स कैलाशवती एजुकेशनल फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
11.	011468	मैसर्स क्रिक्स हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
12.	002540	मैसर्स लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	010039	मैसर्स काब्या मोटर प्राईवेट लिमिटेड
14.	013057	मैसर्स ग्लोबेल प्राजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	01035	मैसर्स ज्ञान सिक्युरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	011598	मैसर्स पद्मालय एक्सपोर्ट्स एण्ड एलायड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	012629	मैसर्स पेन्याकॉम रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	002898	मैसर्स फीडबैक रबर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	011256	मैसर्स स्टील सिटी कुरियर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
20.	012282	मैसर्स मतेस बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
21.	010975	मैसर्स मों मीरा कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
22.	012120	मैसर्स कम्बाइन्ड कम्प्यूटर एण्ड मार्केटिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
23.	007142	मैसर्स संकल्प लिजिंग एण्ड डायमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	009427	मैसर्स वैरायटी सॉफ्टवेयर एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोलकाता, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. आर ओ सी/प. बं./आईपीसी/560(एस.एम.)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 033365	मैसर्स उपकार इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2. 053019	मैसर्स एनएफ इंजीनियरिंग कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
3. 091643	मैसर्स ए. जी. सी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4. 026150	मैसर्स ए. टी. कुमार (हार्डवेयर) प्राईवेट लिमिटेड
5. 055253	मैसर्स कालडाईन टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड
6. 038533	मैसर्स मल्टीपल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
7. 080131	मैसर्स इलेक्ट्रोन कंबाइन प्राईवेट लिमिटेड
8. 019505	मैसर्स व्हीकल फाइनैस कं. लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोलकाता, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. कं. रं./प. बं./ईएस.560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 054687	मैसर्स पटेल एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2. 095336	मैसर्स विधाननगर आदो वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3. 099534	मैसर्स सेन्चुरी पेट्रो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4. 067447	मैसर्स कोलमेक पेट्रोकेम लिमिटेड
5. 093191	मैसर्स ग्रेफीकॉम इमप्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6. 095538	मैसर्स विन्टर रिकाइर्स प्राईवेट लिमिटेड
7. 025768	मैसर्स सिन्डेल्स एण्ड रोनीनॉस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
8. 103469	मैसर्स टीमवर्क सिनेप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
9. 039123	मैसर्स किला एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
10. 118760	मैसर्स ए. सी. डी. कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11. 091972	मैसर्स ए एल आर आई स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	
12. 082959	मैसर्स कम्प्यूटेक कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	
13. 080145	मैसर्स बंगाल एंटीबायोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
14. 097435	मैसर्स स्वास्तिक परफ्यूमरी प्राईवेट लिमिटेड	
15. 062979	मैसर्स मल्टी चैनल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
16. 098652	मैसर्स प्लॉन्ट डेनटिस्ट्री क्लिनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
17. 065832	मैसर्स शीलपॉम विनियम प्राईवेट लिमिटेड	
18. 052732	मैसर्स असमा लेदर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
19. 044145	मैसर्स इस्टॉन वाइर्स प्राईवेट लिमिटेड	
20. 044831	मैसर्स अलफा वाइर्स प्राईवेट लिमिटेड	
21. 114513	मैसर्स वरचुअल एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	
22. 104450	मैसर्स कामयाबी मरकेन्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	
22. 115835	मैसर्स बीकेबी फरमा फेम प्राईवेट लिमिटेड	
24. 036517	मैसर्स बॉन टॉन कमर्शियल लिमिटेड	

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. कं. रं./प. बं./इएएस.560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
	सं.	सं.
1	2	3
1.	089564	मैसर्स लूना ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	095408	मैसर्स बंगाल ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	120930	मैसर्स जोडियाक टेक्नो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
4.	120949	मैसर्स जूम रॉलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	063256	मैसर्स मून मेराइन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
6.	120947	मैसर्स जूम एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
7.	120948	मैसर्स जूम पेलेट्स एण्ड माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	091300	मैसर्स मिहोन कारपोरेट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
9.	096983	मैसर्स हाइटेक एन्गीकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	093886	मैसर्स एक्सक्यूसाइट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11. 074961	मैसर्स पंचवटी गुड्स एंड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
12. 067814	मैसर्स विज सेक्यूरिटीज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	
13. 054687	मैसर्स पटेल एक्सीम प्राईवेट लिमिटेड	
14. 095336	मैसर्स विधाननगर आयो वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	
15. 099534	मैसर्स सेन्चुरी पेट्रो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
16. 093191	मैसर्स ग्राफीकॉम इम्प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
17. 095538	मैसर्स विन्टर रिकाड्स प्राईवेट लिमिटेड	
18. 025768	मैसर्स सिन्डेक्स एण्ड रेसीनॉस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	
19. 103469	मैसर्स टीमवर्क सिनेप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड	
20. 039123	मैसर्स किला एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	
21. 118760	मैसर्स ए. सी. डी. कन्स्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	
22. 080145	मैसर्स बंगाल एन्टीबायोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
23. 097435	मैसर्स स्वास्तिक परफ्यूमर प्राईवेट लिमिटेड	
24. 062979	मैसर्स मल्टीचैनल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
25. 098652	मैसर्स प्लानेट डेनटिस्ट्री क्लीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
26. 065832	मैसर्स शीलपाम विनियम प्राईवेट लिमिटेड	
27. 044145	मैसर्स इस्टॉन वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	
28. 114513	मैसर्स वरचुअल एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	
29. 104450	मैसर्स कामयाबी मरकेन्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	
30. 115835	मैसर्स बी के बी फरमा चेम प्राईवेट लिमिटेड	
31. 036517	मैसर्स बॉन-टॉन कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	
32. 075223	मैसर्स बी डी के मरकेन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	
33. 044936	मैसर्स मुरारी लीसिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	
34. 100499	मैसर्स ब्राइटस्काइ पोल्याशन कन्ट्रोल इक्यूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
35. 104451	मैसर्स शिवपूजन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	
36. 122270	मैसर्स स्काइविंग लाजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
37. 080441	मैसर्स रूही इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	
38. 117278	मैसर्स बंधन गुड्स प्राईवेट लिमिटेड	
39. 118095	मैसर्स जगधात्री विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	
40. 103490	मैसर्स एस. एस. वाणिज्या प्राईवेट लिमिटेड	
41. 120946	मैसर्स जूम डिजाइन एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
42. 098280	मैसर्स आरनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
43. 061895	मैसर्स जी. के. बी. लेन्स (बंगलौर) प्राईवेट लिमिटेड	
44. 093802	मैसर्स सालकिया आयरन फाउन्डरी प्राईवेट लिमिटेड	
45. 117779	मैसर्स डी डी पी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
46. 124193	मैसर्स अमृत ट्रेकॉम प्राईवेट लिमिटेड	

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/2939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रमांक	कंपनी नं०	कंपनी का नाम
1	U55101MP1975PTC001353	रामलालसंस होटेल्स प्रा०लि०
2	U45202CT1983PTC002137	श्रीयंस (इण्डिया) कन्सल्टेशन कंपनी प्रा०लि०
3	U26942MP1984PLC002633	सुपर सीमेन्ट्स लि०
4	U17121MP1984PTC002652	एस०जे०जिन प्रेस ऑइल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
5	U01729MP1985PTC003186	जाजू मेटेक्स प्रा०लि०
6	U51109CT1987PTC003839	एम०पी०डीजल इंजीनियरिंग प्रा०लि०
7	U22110CT1987PTC003973	सिम्पलेक्स ओफसेट वर्क्स प्रा०लि०
8	U31200MP1987PTC004095	मॉडर्न सरक्यूट्स प्रा०लि०
9	U27106MP1988PTC004443	ओसवाल आयरन एण्ड स्टील्स प्रा०लि०
10	U52311MP1988PTC004544	जोशी एण्ड जोशी कन्सल्टेशन कंपनी प्रा०लि०
11	U31200MP1988PTC004547	राठी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाइन्सेज प्रा०लि०
12	U45201MP1988PTC004901	सुयोग होस्पिटल प्रा०लि०
13	U27320MP1989PTC005031	जॉइन मेटल्स लिन्क्स प्रा०लि०
14	U51102MP1989PTC005263	कामधेनू सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
15	U74140MP1989PTC005330	असीता टेक्नो मैनेजमेंट कन्सल्टेन्सी एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
16	U02423MP1989PTC005416	बिओम्ड फर्मासियूटीकल्स प्रा०लि०
17	U15400CT1991PTC006275	इंडोला फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
18	U65921CT1992PTC007387	निकिता लीजिंग एण्ड फायनेंस प्रा०लि०
19	U30002MP1993PLC007685	नक्छत्रिका माइक्रोसॉफ्ट लि०
20	U52520MP1993PLC007814	पोद्दार कॉल लि०
21	U31300MP1994PTC008314	गायत्री वेल्ड्स प्रा०लि०
22	U01122MP1994PTC008601	किद्योगा एग्रो प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा०लि०
23	U52520MP1994PLC008838	बी एस आई सुपर मार्केट्स एण्ड रियलटर्स लि०
24	U27104MP1995PLC009283	डियोरा ट्रांसपावर लि०
25	U22121MP1995PTC009679	श्री राम प्रकाशन प्रा०लि०
26	U40108MP1995PLC010102	सिद्धार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि०
27	U67120MP1996PTC010610	वनदित्त फिनकॉम प्रा०लि०

28	U24111MP1996PTC010683	भोपाल कयोजेनिक्स प्रा०लि०
29	U29248MP1996PLC010852	बी एण्ड ए इनोवेशन लि०
30	U31904MP1996PTC010854	खेतान इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
31	U22122MP2005PTC017234	रायजिंग सन पब्लिसिंग कंपनी प्रा०लि०
32	U31103MP1996PTC011331	ऑस्टीन डिजिट्रोनिक्स प्रा०लि०
33	U30007MP1996PTC011347	मिनर्वा कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
34	U24211MP1997PTC011536	ओर्गेनिक्स एग्रीटेक प्राइवेट लि०
35	U31102MP1997PTC011573	श्री साई श्रद्धा ट्रांसफॉर्मर्स प्रा०लि०
36	U15311CT1997PLC011783	इटारसी फ्लोर्स लि०
37	U15143CT1997PLC011784	खंडवा ऑइल्स लि०
38	U51101MP1997PLC011897	रिलायबल कार्पोरेट (इण्डिया) लि०
39	U63022MP1997PTC012156	बीके कॉल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
40	U51102MP1997PTC012298	मैकसन मार्कीटिंग प्रा०लि०
41	U27310CT1997PLC012519	एससीए केमीकल्स (इण्डिया) लि०
42	U27202MP1997PTC012543	इंडो जर्मन ब्रास प्रा०लि०
43	U01401MP1998PTC012730	रिसभ इरीगेशन प्रा०लि०
44	U23201MP1998PTC012758	मेकसन डीजल प्रा०लि०
45	U92199MP1998PTC012945	मालवा रिक्रियेशन एण्ड कन्सलटेंसी प्रा०लि०
46	U16003MP1998PTC012957	ओंकारदास महादेओदास तंबाकू प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
47	U50300MP1999PTC013426	प्रेम ऑटो एण्ड मेनेजमेंट कन्सलटेन्ट्स प्रा०लि०
48	U23209MP1999PTC013686	ओपेक पेन्ट्स एण्ड केमीकल्स प्रा०लि०
49	U21014MP2000PTC014118	यश न्यू फूड पैकेजिंग प्रा०लि०
50	U15421CT2001PTC014516	करुना सुगर मिल्स प्रा०लि०
51	U74140MP2001PTC014637	वक्रतुण्ड मार्कीटिंग एण्ड कन्सल्टेंसी प्रा०लि०
52	U70101MP2001PTC014701	जे०पी० ड्वेलिंग्स प्रा०लि०
53	U80302MP2001PTC014720	निंबल एज्युकेशन प्रा०लि०
54	U63090MP2001PTC014809	सिद्धान्ता लॉगिस्टिक्स प्रा०लि०
55	U45201MP2001PTC014834	एमपीएच देसाई कन्सल्टन्ट्स प्रा०लि०
56	U85110MP2002PTC015008	इंदौर हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा०लि०
57	U55102MP2002PTC015118	तरन तारन जैन होस्टल्स प्रा०लि०
58	U52322MP2002PTC015211	कुसबीनस मार्केटिंग प्रा०लि०
59	U01211MP2003PTC015640	मांगीलाल दूधवाला मिल्क सप्लायर्स एण्ड डेयरी प्रा०लि०
60	U80302MP2003PTC015706	पटेल स्टडी सर्किल प्रा०लि०
61	U01541MP2003PTC016298	सीलर्स बेकरी प्रा०लि०
62	U00241MP2004PTC016821	राइट केम प्रा०लि०

63	U74300MP2004PTC016848	बोनस कार्ड मार्कीटिंग प्रा०लि०
64	U74210MP2004PTC016891	ओटीएस इंजीनियरिंग प्रा०लि०
65	U28112CT2004PTC016988	श्री सीताराम मेटलक्स प्रा०लि०
66	U45203MP2004PTC017163	मिहिंदी डेवलोपर्स प्रा०लि०
67	U24117CT2005PTC017221	रस्तोगी एलुमिना प्रा०लि०
68	U24117CT2005PLC017235	एस सी ए केमीकल्स (कोयम्बतूर) लि०
69	U24117CT2005PLC017236	एस सी ए केमीकल्स (भिलाई) (इण्डिया) लि०
70	U15314MP2005PTC017476	प्राइम कन्सनट्रेट्स एण्ड फीड्स प्रा०लि०
71	U27201MP2005PTC017491	कनिष्क वायर (इन्दौर) प्रा०लि०
72	U02922MP2005PTC017518	तेहरी टूल्स प्रा०लि०
73	U27104CT2005PTC017727	अलब्राइट स्टील ट्यूब्स प्रा०लि०
74	U67120MP2005PTC017786	स्टायर सिक्यूरिटीज प्रा०लि०
75	U73100MP2005PTC017808	भोपाल क्लसटर ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन प्रा०लि०
76	U72200MP2005PTC017947	डिआस्पार्क प्रा०लि०
77	U72900MP2006PTC018380	मालवा ट्रिपल-प्ले टेक्नोलोज प्रा०लि०
78	U00172MP2006PLC018393	अहिल्या नगरी टेक्सटाइल पार्क लि०
79	U05150MP2006PTC018452	सुप्रीम सेफ्टी सोल्यूशन प्रा०लि०
80	U02692CT2006PTC018499	कोरोमण्डल रिफ्रेक्टोरीज (भिलाई) प्रा०लि०
81	U04520CT2006PTC018525	रोयल रीट्रीट बिल्डर्स प्रा०लि०
82	U74140CT2006PTC018598	स्ट्रेटजिया कन्सलटेन्सी सर्विस प्रा०लि०
83	U51103MP2006PTC018846	अवनी एग्रीटेक प्रा०लि०
84	U22121MP2006PLC018847	संध्या प्रकाश प्रिंट एन पैक इण्डिया लि०
85	U72900MP2007PTC019242	सोलीटेयर टेली इन्फ्राटेक प्रा०लि०
86	U45200MP2007PTC019370	स्टैंडर्ड बिल्डकॉन प्रा०लि०
87	U45200MP2007PTC019512	कोर्न इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लि०
88	U45202MP2007PTC019735	श्री विजन-नेट प्रा०लि०
89	U27203CT2006PTC020125	रस्तोगी रिफ्रेक्टोरीज प्रा०लि०
90	U13100QT2007PTC020456	राजकॉन मिनरल्स प्रा०लि०

मुकेश कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. कं. रजि. गोवा/560/त.स./3451 से 3461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि निम्नलिखित कम्पनियों के द्वारा प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो इन कम्पनियों के नाम इस कार्यालय द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर से इस तारीख के तीन माह के उपरान्त काट दिए जाएंगे तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी क्रमांक	कंपनी का नाम
1.	U24222GA1992PLC001797	मै. मल्टिलैक सर्फेस कोटिंग इंडिया लिमिटेड
2.	U01133GA1997PLC002431	मै. स्वर्ण प्लांटेशन लिमिटेड
3.	U55101GA2007PTC005354	मै. रॉयल हिमालय हॉलिडे क्लब प्राइवेट लिमिटेड
4.	U15520GA1998PTC002577	मै. साई वाइनरीस प्राइवेट लिमिटेड
5.	U63032GA2004PTC003425	मै. कैरिबियन शिप मनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
6.	U24118DD2004PTC003392	मै. सूर्य कैम दमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7.	U29211GA1999PTC002721	मै. ओम हाई-टैक प्राइवेट लिमिटेड
8.	U85195GA2003PTC003355	मै. बायोसफीयर टैकनॉलजी प्राइवेट लिमिटेड
9.	U25209GA1994PTC001726	मै. ब्लेयर माउलडर्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	U51311GA2005PTC004072	मै. फॉगलीप फैशनस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
11.	U85110GA2006PTC004476	मै. न्यू अवेकनिंग हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
12.	U63090GA2002PTC003161	मै. मारमागोवा मिनरल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	U72200GA2003PTC003227	मै. दृष्टि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
14.	U52208GA1995PTC001935	मै. नोबल वैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	U20299GA2006PTC004818	मै. हनुमान वुड काफटस् प्राइवेट लिमिटेड
16.	U51233DD2004PTC003461	मै. तिरुपति एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
17.	U15124DD2004PTC003440	मै. महालक्ष्मी एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
18.	U65993GA1976ULT000258	मै. डी.वाई.सी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी
19.	U33112GA2005PTC004198	मै. विजय मोल्ड इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
20.	U72200GA2004PLC003543	मै. इंटरकॉरिडोर सिस्टम्स लिमिटेड
21.	U51395GA1999PTC002755	मै. श्रीया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
22.	U26102GA2004PTC003419	मै. फाइबरकाफट टैकनॉलजीस् प्राइवेट लिमिटेड
23.	U65921GA2004PTC003707	मै. गौरी पाई पनडिकर ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
24.	U65993GA1977ULT000302	मै. बैना इन्वेस्टमेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
25.	U65993GA1981PTC002386	मै. ओट इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
26.	U65993GA1981PTC000452	मै. एरौ इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
27.	U65993GA1981PTC000459	मै. एम इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
28.	U72200GA2005PTC003848	मै. फ्लोटैक आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
29.	U25207GA1988PTC000892	मै. ऑगस्टस प्लास्टिकस् प्राइवेट लिमिटेड
30.	U02069GA1996PTC002069	मै. आग्वद रिसार्टस् प्राइवेट लिमिटेड
31.	U65993GA1990PTC001103	मै. आत्माराम पनडिकर एण्ड सन्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड

32.	U65993GA1981PTC002396	मै. रॉकवीड इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
33.	U65993GA1981PTC002405	मै. सीशाइन इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
34.	U55101GA2003PTC003230	मै. बनाना मून होटल एण्ड टूरिज्म सैन्टर प्राइवेट लिमिटेड
35.	U65993GA1980PTC002438	मै. चश्माशाही इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
36.	U65993GA1976ULT000272	मै. आई.एल.सी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी
37.	U71230GA2004PTC003576	मै. रोहन पाई पनडिकर ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
38.	U65993GA1980PTC002388	मै. सोनामार्ग इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
39.	U65993GA1977ULT000299	मै. मांगोर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी
40.	U65993GA1981PTC000460	मै. बल्क इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
41.	U65993GA1981PTC000461	मै. ढालिया इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
42.	U65993GA1981PTC000456	मै. कैन्नन इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
43.	U65993GA1981PTC000451	मै. ग्रेप इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
44.	U00069GA2006PTC004452	मै. पौली हॉलिडे होम्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड
45.	U45201GA2004PTC003725	मै. पलविंदर डेवेलपर्स एण्ड कॉन्टेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
46.	U51109GA2001PTC002995	मै. डि सूजा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
47.	U72400GA2003PTC003205	मै. डायना लिंक प्राइवेट लिमिटेड
48.	U22110GA2004PTC003453	मै. मदल बल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	U65993GA1981PTC000455	मै. स्पैरो इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
50.	U65993GA1977ULT000308	मै. कोल्वा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी
51.	U65993GA1981ULT000454	मै. लाइट इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
52.	U65993GA1981PTC002391	मै. जीब्रा इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
53.	U65993GA1981PTC000450	मै. हौप्पर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
54.	U55101GA2007PTC005302	मै. ट्रैवलर्स क्लब रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	U65993GA1981PTC002404	मै. सैक्टर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
56.	U65993GA1976ULT000254	मै. पार्वतीबाई इन्वेस्टमेंट्स कंपनी
57.	U27107GA1994PTC001629	मै. मिनीजिस होलिंग्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
58.	U65993GA1976ULT000275	मै. पी.वी.सी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी

59.	U45201GA2004PTC003663	मै. नायक् एण्ड सन्स कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
60.	U00069GA2006PTC004520	मै. पॉलिनेसियन रेस्टोरेन्टस् प्राइवेट लिमिटेड
61.	U05001GA1966PTC000066	मै. कोंकण फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
62.	U13204GA2006PTC004882	मै. एक्सेल मिनरल्स एण्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
63.	U55101GA2007PTC005518	मै. ब्लू स्काइस् लीडर रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
64.	U55101GA2007PTC005001	मै. एड्रियन हॉलिडे होम्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड
65.	U27103GA1994PTC001569	मै. नावेलिम आयर्न प्राइवेट लिमिटेड
66.	U64202GA2005PTC004108	मै. गोवा कम्युनिकेशन एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
67.	U63090GA2004PTC003613	मै. अदिति रोड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
68.	U45201GA1986PLC000689	मै. डेलियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
69.	U28112GA1995PTC001999	मै. मैस्करनहास हैवी फैब प्राइवेट लिमिटेड
70.	U15500GA2007PTC005508	मै. आल्टो मुंडो विन्होस इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
71.	U70200GA2006PTC004912	मै. क्रिस प्रापर्टी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
72.	U72900GA2005PTC004207	मै. टेक्नोरिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
73.	U61200GA2006PTC004385	मै. कोंकण शिपिंग एण्ड मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
74.	U92199GA2005PTC003799	मै. शैडो बॉक्स एन्टरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
75.	U55101GA2006PTC004825	मै. फिलिप एण्ड जेन हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	U55101GA2007PTC005156	मै. गोवन वैन्चर्स हॉलिडे विलास प्राइवेट लिमिटेड
77.	U25206GA2006PTC004355	मै. पेडणे मोल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	U74999GA2007PTC005511	मै. जय साई माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	U55101GA2007PTC005351	मै. अरेबियन सी गेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड
80.	U63090GA2005PTC004172	मै. रन्जमित हेल्थ एण्ड फिटनेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
81.	U55101GA2005PTC004092	मै. ब्रोलिन हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड
82.	U55101GA2006PTC004948	मै. आडवाणी फ्लाइट कटरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
83.	U74999GA2007PTC005178	मै. मलाबार कोस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
84.	U31200GA1995PTC001859	मै. खोपे ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
85.	U74210GA2006PTC004617	मै. डाटाट्रेंस टेक्नीकल सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
86.	U85120GA2006PTC004613	मै. प्रणविता मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
87.	U00224GA1995PLC001788	मै. बेवरेज वेन्चर्स लिमिटेड

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री शारदा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 10 मार्च 2011

सं. 3(155)/560(5)/ईईएस/1814/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री शारदा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
शिलांग-793001, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. आरओसी/एसएच/560(5)/12085--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित (24) कम्पनियों के नाम आज दिनांक के साथ अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे :--

SL NO	CIN No	COMPANY NAME
1	U01132AS1991PTC003542	निलाचल टी प्राइवेट लिमिटेड
2.	U45201AS1989PTC003304	पैरैमीड प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
3,	U15491AS1999PTC005948	गोगई टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4	U01132AS1985PTC002314	सीकूनी टी प्राइवेट लिमिटेड
5	U45202ML2003PTC007098	पाला इन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
6	U67120AS2001PTC006711	मनुसा इसटोक प्राइवेट लिमिटेड
7	U60210TR1998PTC005393	त्रीपूरा गोल्डन गूड्स करियर कम्पनी इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
8	U23209AS2002PTC006733	बहानीमान इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
9	U17112AS1989PTC003346	प्रागज्योतिस टेक्स्टायल मील्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U01132AS1983PTC002094	जेके पलानटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
11	U93010ML2001PTC006541	बाबा इन्सटनंट लौन्डरी प्राइवेट लिमिटेड
12	U26942AS1988PTC002957	कारबी येगंगो केमिकलस लिमिटेड
13	U85199AS1999PTC005757	आइएसएम इसटडीयो लिमिटेड
14	U01132AS1980PLC001838	आएसए बील लिमिटेड
15	U01012ML1995PTC004549	ऐनड्रसन मिनीरलस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
16	U20211TR1955PTC001106	त्रीपूरा पंलइहुड करप्रोशन प्राइवेट लिमिटेड
17	U51909ML2005PTC007991	सी.के. ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U72300AS2002PTC006799	अनकूर इंडोटेक प्राइवेट लिमिटेड
19	U28992ML1999PLC005972	मेधालाया सेलनडरस प्राइवेट लिमिटेड
20	U20211AS1983PTC002119	यानहू टीम्बर इनडट्रस प्राइवेट लिमिटेड
21	U51109AS1999PTC005736	रुंगता इन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
22	U51211AS2001PTC006457	कनचन ऐसोसीयट प्राइवेट लिमिटेड
23	U51109AS2000PTC006251	सूमंगल इन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
24	U74140AR2002PTC006942	पोजीटीप प्रोजेक्ट एन्ड कनशलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 18 मार्च 2011

सं. आरओसी/एसएच/560(3)/14315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित (358) कम्पनियों के नाम जब तक कारण दर्शाए न जाएं तो उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे :--

SI No	Company Name	CIN
1	ऐ.की. एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1998PTC005362
2	अभीलासा मारचेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2003PTC007036
3	ऐसी एन्ड एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U70109AS1993PTC004024
4	अछूयोत टेक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड	U18101AS1992PTC003731
5	अदितिया सॉफ्टवेयरस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1996PTC004733
6	अगरताला मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909TR2004PTC007409
7	अलीकोन मेडीसीन प्राइवेट लिमिटेड	U24232AS2005PTC007851
8	अमोन एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1981PTC001873
9	अंकित इन्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1996PTC004814
10	अकुवा नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड	U24299AS2002PTC006744
11	अरनब अनमीका आकाश ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2004PTC007457
12	अरुणाचल बूल्डरस एन्ड हैड्रो पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U45309AR2000PTC006288
13	असोम प्रगति इन्फ्रस्ट्रक्चरस लिमिटेड	U70101AS2004PLC007386
14	आसाम बेक्स एन केक्स एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U15412AS2003PTC007109
15	आसाम कमरसियलस एन्ड लीसीग(इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1985PLC002415
16	आसाम होलियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60210AS1989PTC002492
17	आसाम मणिपुर केरियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS1985PTC002456
18	आसाम मेथानोल लिमिटेड	U23201AS1994PLC004117
19	आसाम सिलीमिनेट प्राइवेट लिमिटेड	U14109AS1951PLC000990
20	आसाम इस्माट कार्ड प्राइवेट लिमिटेड	U74995AS2005PTC007911
21	आसाम भेली ट्रेडलस प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS1988PTC003043
22	आसाम जॉनकोट लिमिटेड	U55101AS1987PLC002820
23	अभीन्नदन ऐपारट्समेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1997PTC005273
24	ऐभीएम तबाकू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U16003AS1999PTC005857

25	अभोय रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2005PTC007766
26	बी डीबाकर एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1998PTC005596
27	बी.आर. इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U15204AS1995PLC003930
28	बी.आर. फीनकेप प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1995PTC004540
29	बाबा सीकूरेटीस लिमिटेड	U67120AS1995PLC004383
30	बाक्स मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2002PTC006813
31	बानजोप केनबाम प्राइवेट लिमिटेड	U20293ML1998PTC005309
32	बन्सीदीम टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS2000PTC006120
33	बारियल फायनन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1994PTC004124
34	बीडीएस फर्मा प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1997PTC005021
35	भारतीया इस्क्रेप इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U27107AS1986PTC002605
36	भायना इन्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1995PTC004484
37	बाइटग सगंताम मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड	U45201NL2005PTC007626
38	बाइटग सगंताम मेडिकल डाइगोनसटीक प्राइवेट लिमिटेड	U85110NL2005PTC007625
39	बोगाड फाइनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1995PLC004517
40	बोहरा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1988PTC003074
41	ब्राम्हापुत्र ऐगरीकलचरस मीसीनिरीस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1994PTC004327
42	ब्राम्हापुत्र कनसुमर प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1990PTC003433
43	ब्राइट इस्टोर एन्ड इन्ट्रप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1994PTC003798
44	ब्राइटकस फाइनेन्स एन्ड लिसींग लिमिटेड	U01119AS1993PLC003939
45	बोराकिया ऊदोयक प्राइवेट लिमिटेड	U27104AS1986PTC002618
46	सेन्ट्रल इन्डिया भइन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट लिमिटेड	U65929AS1988PLC003011
47	सेनचूरी प्रोपर्टीस लिमिटेड	U70101AS1996PTC004700
48	छात्रपती पान्डे कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1990PTC003456
49	चीपइसटोन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS1991PTC003540
50	कलासीक(इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U51101AS1994PTC004133
51	कंपरहेनसीप केयर एन्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर लिमिटेड	U85110AS1987PLC002653
52	डी.जे. एन्ड एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1994PTC004126

53	डी.एन इनजेरिंग एनड कनसलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1993PTC003831
54	डी.एस.के.प्राइवेट लिमिटेड	U28920AS1987PTC002832
55	डाफडील इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS1997PTC005105
56	डाइसीलेन्ड नरसींग होम एनड मेड्रनटी सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1990PTC003481
57	दास एन्ड चौधरी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U17116AS1991PTC003564
58	डेनीजन आर्थो रिसोर्ट एन्ड डेप्लोपरस(इन्डिया) लिमिटेड	U01409AS2001PLC006605
59	देवदत्त फाइनेन्स एनड इनभेस्टमेन्ट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65922AS1997PTC005079
60	दीवान एड इस्लाम डेपोलोपरस प्राइवेट लिमिटेड	U45202AS2006PTC006032
61	दनश्री कमडीटीस एन्ड एडभाइसी सर्वेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2004PTC007408
62	द्रवजोय्ती फाइनेन्स एनड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1990PTC003405
63	डायमनड इनडस्ट्रीस एन्ड ऐलाइस सर्वेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U25202AS1989PTC003174
64	दीहा बूलडरस इन्ड्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2001PTC006640
65	दीलीप प्रोपटीस प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1999PTC005683
66	दिशा मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909TR1999PTC005744
67	डीसपो इनजेकट सेलस प्राइवेट लिमिटेड	U24236AS1993PTC003880
68	डी. एनीहरबस सर्वेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U95000AS1992PTC003826
69	डोयाग ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040NL2001PTC006697
70	ड्रोना टावार प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS2005PTC007904
71	इसट एनड होटलस एनड लीसींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1985PTC002442
72	इस्ट हामालयन मेडीसिनलस एनड आरुमटीक प्लनटस प्राइवेट लिमिटेड	U01122AS2002PTC006972
73	इसट्रेन नेटवर्क कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड	U30005AS1998PTC005442
74	इसट्रन इस्टील एनड एलयस कम्पनी लिमिटेड	U27101AS1973PLC001433
75	ऐकोनोमिक ट्रान्सपोर्ट ओरगनाइजेशन (क्यूटीएस)प्राइवेट लिमिटेड	U60210AS1974PTC001552
76	इको फ्रामसिटीकुलस प्राइवेट लिमिटेड	U24239AS1992PTC003804
77	इलस इन्डिया क्रामीक प्राइवेट लिमिटेड	U26919TR2001PTC006431
78	इसकीमेस मार्केटींग एन्ड कनसलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1995PTC004519

79	एभरेसट साइकल लिमिटेड	U25112AS1962PLC001190
80	इजुग इनट्राप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51909NL1997PTC005104
81	फार इसट आगो फ्रुट प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15134TR2005PTC007700
82	फोलटेक प्रोपटीस एन्ड डेपलोरस प्राइवेट लिमिटेड	U70109AS1993PTC004031
83	फ्रेनड लेन्ड इनटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1998PTC005378
84	फ्रोनटेयरस इनजेनेरिंग (प्रासट्रेसस) कनक्रेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U26956AS1973PTC001410
85	फ्रोनटेयरस मोटोरकरस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U50101AS1974PTC001484
86	गेयानवल डोपलोरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1996PTC004699
87	गनपति अवल इनड्रस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U27106AS2006PTC008060
88	जीवो मिना सिमन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U26942AR2006PTC008152
89	गोविन्दा माहदेब प्रोपटी डिलरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2005PTC007918
90	ग्रीन अथ अग्री हेरती प्राइवेट लिमिटेड	U01122AS2006PTC008169
91	ग्रीनब्रीड इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS2003PTC007116
92	ग्रनफील्ड एपाटसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1994PTC004158
93	गूहाटी मेडिकल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1989PTC003330
94	गूहाटी ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U15314AS1999PTC005633
95	हलचेम फमा प्राइवेट लिमिटेड	U24231AS2004PTC007349
96	हारमीटेज फाइननस एन्ड इनभेस्टमेन्ट इन्डिया लिमिटेड	U65929AS1996PLC004726
97	हीलमेन इनट्रेडनेसनल प्राइवेट लिमिटेड	U11101AS1997PTC005285
98	हिमाहलया कम्प्यूटेक (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U72200AR2000PTC006381
99	हीमकोपी हाउसींग एन्ड फाइननस लिमिटेड	U70109AS1994PLC004197
100	हिन्दूसतान बुलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45203AS1948PTC000845
101	हाइक्यूस इनजेनेरींग प्राइवेट लिमिटेड	U70200AS1994PTC004064
102	हायब इन्डिया मनीफेकचींग प्राइवेट लिमिटेड	U17124AS1994PTC004269
103	होम इनटरनेटमेन्ट ऐलोकट्रनिक प्राइवेट लिमिटेड	U29308AS1984PTC002251
104	होटल परमिता प्राइवेट लिमिटेड	U55101TR2001PTC006462
105	हायपरटेक कम्युनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1999PTC005759
106	इमपेश डीसोभेन प्राइवेट लिमिटेड	U33112AS2002PTC006723

107	इनडू गल्फ ऐपारटमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U70109AS1995PTC004569
108	इनोभेटीप आगो प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U21011AS1991PTC003501
109	इनटग्रेटेड बीसनेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1982PTC001933
110	इटेक सीशटमस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1995PTC004499
111	इनट्रा विसन एलोकट्रनिक मिडिया सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2005PTC007865
112	जे.सी.जी.एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U25209AS1989PTC003199
113	जे.सी.एलोकट्रनिकस प्राइवेट लिमिटेड	U24296AS1992PTC003713
114	जय लक्ष्मी फेयननस एन्ड हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1991PTC003612
115	जाजको इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U29111AS1986PTC002496
116	जना सुरक्षा फायननस एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1997PTC005274
117	जयश्री माइनस एन्ड मिनरलस प्राइवेट लिमिटेड	U10101ML2005PTC007998
118	जीवन रीसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U55101MN1998PTC005545
119	जीवनश्री मारकेटींग सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2001PTC006648
120	जेजी एजेनसीस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AR2002PTC006891
121	जनसन इसट्रेन पावर मिनरलस एन्ड माइनस प्राइवेट लिमिटेड	U74210ML1999PTC005762
122	जूपेटर एन.इ. मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U25114AS1999PTC005956
123	कैलाश स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1990PTC003408
124	कालीचरन ट्रेड एन्ड एजेनसीस प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1992PTC003725
125	कामरूप एलमुनियम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U27203AS1987PTC002835
126	कामरूप कमख्या बिसनेस प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS1997PTC005253
127	कामरूप इस्टेप इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1984PTC002134
128	कामरूप उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U16008AS2001PTC006393
129	कन्च ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U60221AS1985PTC002407
130	कंगन कमरसियल एन्ड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U51103AS1988PTC002993
131	कांगलीपाक ऐकनमिक एन्ड फायननसेल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U65929MN1989PTC003228
132	कारेग कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS2002PTC006880
133	काटपल इंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1997PTC004953

134	केडीपी बिसनेस एन्ड फायनेन्स लिमिटेड	U65929AS1997PLC005217
135	की रिलेशन एन्ड इमेनट मेनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U92141AR2005PTC007977
136	कीवहीरा बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45201NL2003PTC007050
137	किरण इनकेलेप प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2004PTC007591
138	कण्णा पीडा कुमर एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U20293NL1952PTC001012
139	केसीतीज इनट्रायसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45201ML1994PTC004093
140	कूनडील इस्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U27101AS1987PTC002667
141	एल.जे. मिनीरलस एन्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U14107ML1995PTC004450
142	लाबेला कमरसियलस प्राइवेट लिमिटेड	U24246AS1995PTC004597
143	लाबु चोएस टा कम्पनी लिमिटेड	U01132AS2005PLC007820
144	लाहडी टी मनिफेकचरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U15491AS1997PTC005036
145	लेन्ड एन्ड प्राइम कनसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1979PTC001781
146	लंकेशवरी फायन्नेस एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1996PTC004826
147	लासकर इनफो प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2001PTC006665
148	लेपोरड मारकनटायलस प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS1995PTC004555
149	लेबरल इनसूरेन्स लीन्क प्राइवेट लिमिटेड	U67200AS2002PTC006982
150	लाइफ लाइन इस्ट इन्डिया मेडिकल रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1995PTC004363
151	लाइफलाइन मारकनटायलस एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1998PTC005371
152	लाइफसाइन नेटवर्क मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008272
153	लोहीत ग्लास प्राइवेट लिमिटेड	U26109AS1999PTC005861
154	लोहीत प्रोपटीस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1995PTC004374
155	लुहीत मेनेजमेन्ट सर्वेसीस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2007PTC008418
156	लुहीत ट्रेड एन्ड ए जेनसी प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1991PTC003590
157	लुमेनियस गैस प्राइवेट लिमिटेड	U23201NL1990PTC003412
158	लेनडानस एटबटायसींग प्राइवेट लिमिटेड	U72100ML1990PTC003464
159	लेनडानस टोरस एन्ड ट्रेभलस प्राइवेट लिमिटेड	U15143ML1990PTC003467
160	एम.एस ट्रडवींग प्राइवेट लिमिटेड	U51224AS2002PTC006778
161	मा काली ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007639
162	महाबहु ट्रडस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1999PTC005799

163	महेशवेरा कोलड इसट्रोरेज एन्ड आइस फेक्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U63022AS1999PTC005858
164	मनास इसटाबेसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45202AS2002PTC006853
165	मंगलादोय जुट मिल्स लिमिटेड	U17119AS1976PLC001662
166	मणिपूर कनसट्रक्शन एन्ड डेपलोमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45201MN1997PTC005266
167	मणिपूर इसेनसयल कम्पोजेटीस मारकेटीग सरवेसेस लिमिटेड	U74999MN2005PLC007649
168	मणिपूर फायनेस एन्ड इनभेसटमेन्ट लिमिटेड	U65929MN1987PLC002656
169	मारगंग कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AR2006PTC003166
170	मासा ओमनीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U64202AS1999PTC005867
171	मेक्शफौल फायनेनस एन्ड ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1996PTC004716
172	मेक्शवीलड फब्रीकेटरस एन्ड इनजेनिरीयग प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS2002PTC006918
173	मिनाक्षी वायर इन्डस्ट्रीस (आसाम) लिमिटेड	U31300AS1967PLC001279
174	मीयामेज चोकट थोरग लोप कमरसियल कम्पनी लिमिटेड	U51909MN2003PLC007244
175	मेघा टेक सरवेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS1988PTC002891
176	मेघालाया ऐयर प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24111ML2003PTC007010
177	मेघालाया ओटोमोबायलस एन्ड मोटरस प्राइवेट लिमिटेड	U50300ML1995PTC004398
178	मेघालाया बुसेस प्राइवेट लिमिटेड	U01132ML2001PTC006487
179	मेघालाया पेनसिनियरस लेदरस वर्क लिमिटेड	U19119ML1975PLC001640
180	मेघालाया सीटस एन्ड ट्रयबस प्राइवेट लिमिटेड	U27105ML2001PTC006516
181	मेसारा टी प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1998PTC005358
182	मेट्रोपोल ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1993PTC003912
183	एमएचए इन्टरप्रायसेस प्राइवेट लिमिटेड	U70101NL1999PTC005923
184	मीडीलटाउन अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1992PTC003763
185	मीडलेन्ड टी इसटेट प्राइवेट लिमिटेड	U01132AR1998PTC005318
186	मीतल केमीकलस प्राइवेट लिमिटेड	U24100AS1988PTC002842
187	मिजूराम ग्राण्ड होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101MZ2001PTC003593
188	मून इनभेसमेन्ट एन्ड इन्डस्ट्रीयल फायनेन्स लिमिटेड	U67120AS1989PLC003186
189	मूनलाइट होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101MZ1984PTC002211

190	मेरन ट्रेडींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2006PTC008162
191	एन इ हब सोलसन प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2003PTC007012
192	एन इ मेटालोड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U21294AS1989PTC003192
193	एनपीएस टीमंबर प्राइवेट लिमिटेड	U20101NL1985PTC002389
194	एन बी आर कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45202AS2006PTC008085
195	एन इ बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS1988PTC003007
196	एन एन रियल्टरस एन्ड कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2006PTC008208
197	नागालैंड आगो फोरेस्ट प्रोडोस मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U01111NL2005PTC007906
198	नागालैंड बूनस मिल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U19111NL1985PTC002392
199	नागालैंड आइरन अन्ड इस्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U27106NL2001PTC006545
200	नागालैंड पलासटीक इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U25209NL2001PTC006583
201	नमराता कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2007PTC008337
202	नन्दबन रीसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U23109AS2000PTC006028
203	नारायणी इस्टेसनेरीस पेकीजींग प्राइवेट लिमिटेड	U21023ML2003PTC0067124
204	नरपू कुक प्राइवेट लिमिटेड	U23101ML2005PTC007989
205	एनइ सीक्रेटी प्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2004PTC007504
206	नीड फोउनट क्रेडीट एन्ड इनभेसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1991PTC003632
207	नीड इम्पेरियल फायनेन्स एन्ड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U65929MN1989PTC003177
208	नीड ओरीयन्ट बीसन मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U50401AS2002PTC006872
209	नीड राणाजोयोति फायनेन्स एन्ड इनवेसमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1997PTC004989
210	नीडलूक फायनेन्स एन्ड इनभेसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1994PTC004251
211	नीजून इक्स एन्ड फ्रामासीटकुलस प्राइवेट लिमिटेड	U24232ML2005PTC007960
212	नीजून मोटरस प्राइवेट लिमिटेड	U50200AS2002PTC006801
213	नीजून ओनलाइन बीसनेसस प्राइवेट लिमिटेड	U64202AS2001PTC006624
214	नीजून पेन्टस लिमिटेड	U24222AS1999PLC005880
215	नीजून वाटरस एन्ड एनरजी रीसोर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45205NL2005PTC007775

216	नीलाचल इडीबलस प्राइवेट लिमिटेड	U15141AS2004PTC007497
217	नीलाचल फेब्रीकस प्राइवेट लिमिटेड	U26960AS1997PTC005002
218	नीलाचल हील्स होलडींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1996PTC004762
219	एनएलबी फाइनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1996PTC004933
220	नोरेसट लोजोसटीक प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS2006PTC008268
221	नर्थ इस्ट अबशन फाइनेन्स एन्ड पलान्नेशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1998PTC005492
222	नर्थ इस्ट हेभी मीसेनीरीस एन्ड इकोपेमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51109ML2000PTC006140
223	नर्थ इस्ट जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17125AS1998PTC005300
224	नर्थ इस्ट लाबोटीरीस प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1982PTC001947
225	नर्थ इस्ट साहारा इन्डिया पलान्नेशन लिमिटेड	U01119AS1999PLC005903
226	नर्थ इस्ट्रन एरवेस लिमिटेड	U62100AS1995PLC004638
227	नर्थ इस्ट्रेन मेचेलट सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U31101AS1988PTC003103
228	नर्थ इस्ट्रेसन पलाइड्ड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U20211AS1975PTC001616
229	नर्थ इस्ट्रेन सील्क प्राइवेट लिमिटेड	U17112AS1999PTC005840
230	नर्थ इस्ट्रेन ट्रान्सफोर्मास प्राइवेट लिमिटेड	U31101AS1984PTC002186
231	नर्थ इस्टील मारचनट प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1988PTC003121
232	ओबानरी पीकचरस प्राइवेट लिमिटेड	U92111AS1996PTC004824
233	ओम(मेधा) फूड प्राइवेट लिमिटेड	U15143ML2001PTC006579
234	ओम कारेसवर रियलस इस्टट प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2006PTC008129
235	ओरियटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1996PTC004895
236	ओसवीन सेक्रोटियन प्राइवेट लिमिटेड	U29270AS1998PTC005469
237	पदमालया बूलडरस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2004PTC007540
238	पंचरतना होलडींग प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1987PTC002756
239	पंनखी हेल्थ इंसटाबेलसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS2001PTC006716
240	प्राबरस फायन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1995PTC004520
241	पारागौन पोलीमरस प्राइवेट लिमिटेड	U25209AS1990PTC003452
242	पारामाउन्ट कमरसियलस लिमिटेड	U15421AS1988PLC002854
243	पसूपती क्रीमेरीस प्राइवेट लिमिटेड	U51222AS2000PTC006376
244	पतफिनडरस प्रेस प्राइवेट लिमिटेड	U22219ML1983PTC002078
245	पौना हुड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U20211NL1983PTC002118

246	पवन टोरस एन्ड ऐजनेसी प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS2000PTC006016
247	पाबीएसएल पेपर प्रोसेसरस लिमिटेड	U21023AS2004PLC007419
248	पेट्रोट्रेड इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1989PTC003333
249	पाइन ग्रोप नरसींग होम प्राइवेट लिमिटेड	U85110ML1984PTC002221
250	पीननेक इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1994PTC004254
251	पनार माइनस एन्ड मीनीरलस प्राइवेट लिमिटेड	U10101ML2005PTC007978
252	पोदर ट्रेड एन्ड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1987PTC002639
253	पुजा डिसट्रीब्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड	U36991AS1990PTC003423
254	पीपीटी डेपलोरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2007PTC008335
255	प्राग हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS1992PTC003662
256	प्राग टी वायरहाउस प्राइवेट लिमिटेड	U63021AS1997PTC005025
257	प्रगति एल्यूमस प्राइवेट लिमिटेड	U15421AS1998PTC005421
258	प्रागज्योतिस साइन इनटप्राइसेस लिमिटेड	U92111AS1984PLC002175
259	प्रागज्योति परफूमरस प्राइवेट लिमिटेड	U16009AS1999PTC005961
260	प्रतीसटा इनटप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS2004PTC007315
261	प्रेसीडे लीसींग एन्ड हायर परचेसस प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1994PTC004135
262	प्रायमर इस्ट्रक्ट्रल कनक्रेट इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U26956TR1985PTC002433
263	प्राइड इनटरनेशनल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U11202AS1994PTC004257
264	प्रीनटल मिडीया प्राइवेट लिमिटेड	U22122AS2001PTC006394
265	प्रोग्रेसीप अडभाइसरी सरवेसस प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1998PTC005306
266	प्रोमन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1994PTC004281
267	पूबादेश फायनन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1997PTC004978
268	पर्वअंचल कनक्रेट प्राइवेट लिमिटेड	U26960AS2001PTC006597
269	पर्वअंचल डाइगोनीसट होस्पिटल एन्ड रिसरच सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1995PTC004506
270	पर्वअंचल हाउसींग डेपोलवरस एन्ड कनसल्टेनसी सरवेसस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1994PTC004294
271	कीड.बी फायनेन्स एन्ड इनवेसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65921ML1995PTC004401
272	कूआद्रा सफ्ट टेक्नलोजीकस प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2001PTC006448
273	कूइन फील्ड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007915

274	राडीयान्ट बीसन प्राइवेट लिमिटेड	U22300AS1991PTC003537
275	राफीउला टी एन्ड इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1972PTC001390
276	राज फीस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51223AS2002PTC006739
277	रामदिया बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2006PTC008248
278	रंगापानी रर इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U01116AS1988PTC002886
279	रभी लाइम इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U26944AS1987PTC002837
280	आरडीबी रियल इस्टेट एन्ड डेपलोपरस प्राइवेट लिमिटेड	U15412AS2002PTC006875
281	रिनीया एसेनस इनसटुट अफ इतीक एन्ड मेनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U80102ML1999PTC005632
282	राइन रयलटरस एन्ड ट्रेडींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1995PTC004618
283	आरजेबी मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007899
284	एस एन्ड जे कम्पनीकेशन सर्वेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2007PTC008328
285	ऐसडी डीजिकोन सोलसन प्राइवेट लिमिटेड	U72200ML2002PTC006956
286	ऐसडी पपलीकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	U22110AS1989PTC003259
287	साइ बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45202ML1983PTC002100
288	सालाडो फूड मनिफेकचरस प्राइवेट लिमिटेड	U15134ML2002PTC006945
289	सामानोय फायनेनस एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65923AS1996PTC004688
290	सनजीवन(इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2001PTC006649
291	सपतोरसी लीसीग एन्ड फायनेनस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1995PTC004379
292	सारादा मेमोरियलस होस्पिटलस एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1990PTC003466
293	साराहा ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS1991PTC003536
294	सारायगाट इनट्रप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1995PTC004452
295	सारायगाट सीक्रेटी एन्ड इनभेस्टीकेसन सर्वेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920AS2003PTC007176
296	सरकार इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2002PTC006762
297	सरमा किलीनिक प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1983PTC002099
298	ससवाथा आग्रोफर्मस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U01119AS1997PTC005248
299	सातो होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101NL1997PTC005055
300	सत्यम पेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U24222AS2005PTC007765
301	सक्तीशिवा ट्रेड एन्ड मनिफेकचरींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U63022ML2001PTC006574

302	सानगेयान टोवरस एन्ड ट्रेभलस प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS2001PTC006644
303	साइन टी एन्ड ऐलाइडस प्राइवेट लिमिटेड	U15491AS1994PTC004283
304	शिभा पलाजा प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2005PTC007761
305	शिवम मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1993PTC003999
306	श्री प्रगति आशा आग्रो आशा आग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U05004AS2004PTC007422
307	श्रीआग्रो कटल पोलटेरी फीडिंग एन्ड रिसरच प्राइवेट लिमिटेड	U15311AS2003PTC007047
308	श्याम टल्कस प्राइवेट लिमिटेड	U92199AS1967PTC001269
309	सीबसागर फोरेसट प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U20211AS1978PTC001754
310	एसकेबी पेकरस एन्ड मूभरस आसाम प्राइवेट लिमिटेड	U50210AS1992PTC003773
311	इसकाइलार्क कमरसियल प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1995PTC004476
312	संगी एकुआ प्राइवेट लिमिटेड	U72100ML1998PTC005609
313	सोरसस टेक एडोकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900ML2002PTC006940
314	इसपेशल ग्रीन टी एक्सपोट इन्टरप्राइसस लिमिटेड	U51226AS1997PLC005061
315	श्री सुर्य कमरसीयल प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1998PTC005402
316	श्रीसटी सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U92490AS1994PTC004139
317	इस्टील इस्कील इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U28111AS1989PTC003310
318	सन रिकोडस प्राइवेट लिमिटेड	U92113AS1999PTC005821
319	सनफेल्क जुट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U17125AS1989PTC003381
320	सूप्रीम टी लिमिटेड	U01132AS1990PLC003459
321	सूरज आग्रो इन्डसट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U15143AS1988PLC002952
322	सूरमा भेली पलान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1988PTC002959
323	सवादिश ब्रीक्स एन्ड बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U26921AS1990PTC003463
324	सवागत आटो एजनसीस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1994PTC004189
325	सिवटा इस्टिलस प्राइवेट लिमिटेड	U27107AS1997PTC005090
326	सवेफ कम्प्यूटर फर्मस प्राइवेट लिमिटेड	U36991AS1999PTC005892
327	सनरजी कम्प्यूसाइटस प्राइवेट लिमिटेड	U20213ML2001PTC006718
328	सेसा हायर परचेसस एन्ड मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1995PTC004543
329	टा बी बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2002PTC006780
330	टअरस केपीटल लिमिटेड	U67120AS1995PLC004525
331	टाइमहोनर फ्रनीटक प्राइवेट लिमिटेड	U20290AS2007PTC008390

332	टाइमस कारगो केरियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60210AS1997PTC005112
333	टीरू हिल्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड	U20101NL1985PTC002299
334	ट्रान्सकनड फर्मासीट्रकलस प्राइवेट लिमिटेड	U51397AS2004PTC007506
335	ट्रीडेन्ट	U17124AS1991PTC003589
336	ट्रीमूती इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U27101AS1998PTC005517
337	त्रीपूरा एजन्ससी सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U51109TR2005PTC007814
338	ट्रीवनी पलास्टीक प्राइवेट लिमिटेड	U25201AS1991PTC003625
339	टीसार माइन्गी एन्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U14107AS2003PTC006992
340	तूलसीबारी फर्म प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1974PTC001599
341	उदैगीरी हायर परचेस एन्ड मार्केटिंगस प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1995PTC004493
342	उदैचल इनजेनिरींग प्राइवेट लिमिटेड	U45203AR2002PTC006924
343	उमानन्दा टेकनो कनसलटेसी सर्वेसस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS2005PTC007992
344	यूनाइटेड लीग(इन्डिया)प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006727
345	उपहार ही उपहार इनोभेसण प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2000PTC006139
346	अप्पर आसाम इन्डिया टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U15491AS1998PTC005355
347	भेनस हसपीटलस प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1995PTC004352
348	बरचूयल एसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900NL2003PTC007044
349	बीभेक कमुनीकेसन प्राइवेट लिमिटेड	U64202AS2002PTC006932
350	वेस्ट्रेन फाइननसीयल करपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U67120ML1988PLC003144
351	वारदी बीसनेसस प्राइवेट लिमिटेड	U74950AS2002PTC006806
352	एसटेक्स सीसिटमस प्राइवेट लिमिटेड	U30007ML2004PTC007509
353	एक्सब्रो कनसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U45203AS2005PTC007659
354	येस बोस होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS2000PTC006007
355	जीरीकोन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS1994PTC004203
356	जीरीकोन पलजा प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2004PTC007308
357	जोरम आग्रीकलचरल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U01111MZ1999PLC005713
358	जोरम आग्रोफर्म इन्डस्ट्रीस लिमिटेड	U51109MZ1998PLC005310

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पान बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कटक, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/6819--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पान बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. महान्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कटक-753001, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. आर.ओ.सी./560(3)/6029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-008520	मैसर्स अल राईट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-006947	मैसर्स पिनावल सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-009153	मैसर्स उत्कल फार्मा कन्सोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-010003	मैसर्स बसन्ती सिक्कुरिटी प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-003351	मैसर्स पिरामिड इक्युपमेन्ट्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

वी. महान्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयंबतूर — 641005, दिनांक 31 आगस्ट 2010

सं. धारा/560(3)/एमसिए/आरओसि-कोयंबतूर/धारा 560/2010

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित कम्पनीयों का नाम जब तक कारण दर्शाए न जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे:-

क्रमांक	आर.जि.एन	कम्पनी का नाम
001	6510	ए एस डी टेक्सटईलस प्रइवेट लिमिटेड
002	6658	ए वि के कन्सटरकसनस प्रइवेट लिमिटेड
003	6054	आनूर फईनानस अन्ड ईनवेस्टमेन्टस प्रइवेट लिमिटेड
004	10272	अबय चकरा कनसलटनसी सरवीसस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
005	4461	आदेसवर चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
006	13814	एरलाजिकस नियुमेटिक प्रइवेट लिमिटेड
007	4705	आकाष मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
008	6105	अकशयदिप चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
009	2078	आलपस कामाक्षी मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
010	13234	एपेक्स फ्लेट प्रमोर्टस (कोवै) प्रइवेट लिमिटेड
011	12851	आप्ली क्लात्तींग प्रइवेट लिमिटेड
012	12143	अरुलजोती टेक्सटईल कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
013	8356	आसपिरेसन कम्प्युटर फार्म प्रइवेट लिमिटेड
014	13600	आस्ट्रान गारमेन्टस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
015	8024	ए टि एल सेलिना इन्वरवेर प्रइवेट लिमिटेड
016	12115	अटटैयर फाषन इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
017	6801	भी आर इन्गाटस इन्डिया लिमिटेड
018	12319	भी पि आर एन्टरप्राइस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
019	3976	भालाजी केमिकल इन्डसट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
020	11088	भालाविन अग्रो प्राससिंग अनड एकसपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
021	5432	भवानीयम्न स्पिन्नरस प्रइवेट लिमिटेड
022	4395	ब्लू हिल हालीडे रिसार्टस प्रइवेट लिमिटेड
023	6214	ब्लूमउनट कम्युनिकेशन्स प्रइवेट लिमिटेड

024	7118	भोम्मीडी भेनिफिट फनड लिमिटेड
025	7780	मिसी भाय कनसलटनटस प्रइवेट लिमिटेड
026	9509	कालप टेकनालजीस इन्डय प्रइवेट लिमिटेड
027	12098	कसविन कनसलटनसी प्रइवेट लिमिटेड
028	5988	चिन्नमाल स्पिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
029	6220	कोबला चिटस प्रइवेट लिमिटेड
030	293	कोयम्बतूर एवियेशन टरैर्यनिंग अकडमी प्रइवेट लिमिटेड
031	4352	कोयम्बतूर नरसिमहा फईनांस प्रइवेट लिमिटेड
032	13834	कोयम्बतूर वालवस प्रइवेट लिमिटेड
033	10418	कायर अन्ड अलैड कामपोसिट प्राडकटस तमिलनाडू प्रइवेट लिमिटेड
034	7283	सिठिके हास्पिटलस लिमिटेड
035	2790	देयवम स्पिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
036	11348	छरमसास्ता हल्लर मेसिन्स प्रइवेट लिमिटेड
037	10367	दिवयार रोसिल्ला प्रिन्टस इन्डया प्रइवेट लिमिटेड
038	13729	ई फलेमस साफटवेर प्रइवेट लिमिटेड
039	14187	ईएफकयू टेकनालजी सोल्युसन्स (इन्डया) प्रइवेट लिमिटेड
040	12395	एमपरर निट एकसिम प्रइवेट लिमिटेड
041	9355	फाबसोना फउनडेशन प्रइवेट लिमिटेड
042	7543	फमको एनटरप्राइसस इन्डया प्रइवेट लिमिटेड
043	6791	फारचुनवोन साफटेक सरवीस्स प्रइवेट लिमिटेड
044	12224	जि.के.वी ईन्फोटेक इन्डया प्रइवेट लिमिटेड
045	13157	गाल ऐठी - सोल्युसन्स प्रइवेट लिमिटेड
046	1498	गिरीसन अपलैयनसस प्रइवेट लिमिटेड
047	7614	गोलड कोसट साफटवेर प्रइवेट लिमिटेड
048	2382	गेपीकषणा श्रीरक र्वकस प्रइवेट लिमिटेड
049	11657	गरेस ईन्टरनेशनल प्रइवेट लिमिटेड
050	5472	गुरु अकवा फार्म प्रइवेट लिमिटेड
051	4758	ह एम सी फाब्रिकस प्रइवेट लिमिटेड
052	12474	हयग्रीवा मेनेजमेन्ट सिस्टमस प्रइवेट लिमिटेड
053	14284	हेकसगान स्टीलस प्रइवेट लिमिटेड
054	9436	होठल विगनेष विहार प्रइवेट लिमिटेड
055	10778	हैड्रो फिलठर प्रइवेट लिमिटेड
056	10477	हैड्रोमेगस एन्जीनयरिंग इन्डया प्रइवेट लिमिटेड
057	6688	ऐडिल स्टोस प्रइवेट लिमिटेड

058	11045	इनजेनिया इनफर्मेशन टेकनसलजी प्रइवेट लिमिटेड
059	13510	इनसिक्वेन्स कन्सलटन्ट इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
060	6180	इन्टर ब्रैठ अपलैयन्स प्रइवेट लिमिटेड
061	12674	ऐलेन्ड टेक्स्टैल इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
062	3133	ज्वाजोती स्पिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
063	7144	ज्जबदरता चिटस कोयमबत्तूर प्रइवेट लिमिटेड
064	12226	ज्यशंखर अन्ड कम्पनी भिलडिंग प्रमोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
065	12556	जेड टेक्स्टैल इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
066	1309	जीटस स्पिन प्रइवेट लिमिटेड
-67	14307	जोसनारो रियलठारस प्रइवेट लिमिटेड
068	6248	के पी एस टेक्स्टैल मिलस प्रइवेट लिमिटेड
069	11386	के एस आर सन्स विन्ड फार्म प्रइवेट लिमिटेड
070	13693	के.आर.सी. हउसिंग अन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
071	2007	का वी एकयूपमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
072	10621	कदिरवन काटटन स्पिन्नींग मिल प्रइवेट लिमिटेड
073	12899	कैसर टेक्स्टैल मेसिनस प्रइवेट लिमिटेड
074	12245	कोनडालम्पन ईमपेकस प्रइवेट लिमिटेड
075	3468	कोंगू ग्रानैटस प्रइवेट लिमिटेड
076	7157	कोंगू पलान्टेसन्स लिमिटेड
077	12034	केएसडी टेक्स्टैलस प्रइवेट लिमिटेड
078	3017	कूमार पलान्टेसन्स प्रइवेट लिमिटेड
079	12639	लक्ष्मी एको रेसिन्स इन्डिया लिमिटेड
080	7443	लारल एकस्पोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
081	2612	लांगभीच टेक्स्टैल प्रास्सरस प्रइवेट लिमिटेड
082	11799	एम पी क्रियेसन्स प्रइवेट लिमिटेड
083	10480	माफीन कन्सलटन्सी शर्वीस्स इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
084	7732	मनजूनाता बेनिफिट फन्डस लिमिटेड
085	11487	मरुदम ईनवेस्टमेन्टस प्रइवेट लिमिटेड
086	12027	मेहला डामै टेकनालजीस प्रइवेट लिमिटेड
087	11379	मिन्सु सट्टाठजी सोल्यूसन्स प्रइवेट लिमिटेड
088	488	मार्डन सहायनिध कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
089	12952	मून होमस प्रइवेट लिमिटेड
090	5809	मूरुगवेल फईनान्स प्रइवेट लिमिटेड
091	6523	मूत्तूरुअरुन चिटस प्रइवेट लिमिटेड

092	14336	मूत्तसामी होलडिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
093	10316	मैला इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
094	9103	नागम्मा देवी चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
095	8934	नगप्रकाश कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
096	3324	नामक्कल पान्डियन चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
097	2784	नामक्कल पान्डियन फर्नान्स प्रइवेट लिमिटेड
098	2594	नरेश चन्द्र टेकस्टैलस मिलस प्रइवेट लिमिटेड
099	1198	नोवा एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
100	5372	वोड्डनचत्तिरम बेनिफिट फन्ड लिमिटेड
101	11377	ओरियन्टलेक एक्सिम इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
102	8175	पि एल ए चिटस प्रइवेट लिमिटेड
103	9705	पि पि के एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
104	7095	पि आर एस स्वेता फर्नान्स प्रइवेट लिमिटेड
105	10227	पि एस वी इन्फोकामसिस प्रइवेट लिमिटेड
106	3817	पि वि के सालवेन्ट एक्स्ट्राकशन्स प्रइवेट लिमिटेड
107	6277	पदमगिरी बेनिफिट फन्ड लिमिटेड
108	11532	पान केस्टीगस अन्ड अलायस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
109	1593	पंकजम पालिकेम इन्डयट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
110	7689	पारेक अम्युसमेन्ट्स लिमिटेड
111	13822	पियर इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
112	11291	पेलस प्लेसमेन्ट सर्विसस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
113	13036	पिजिसि मेनपवर इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
114	10076	पिनाकि सिस्टमस अन्ड सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
115	6131	पोनमारी इन्वेस्टमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
116	8318	पुरनिमा काटस अन्ड ड्रेवस प्रइवेट लिमिटेड
117	9204	प्रगि अकवा मिनरलस प्रइवेट लिमिटेड
118	12301	प्रगि एलक्ट्रॉनिक्स प्रइवेट लिमिटेड
119	9362	प्रसनना एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
120	6184	प्रिया जवल्लरस प्रइवेट लिमिटेड
121	12473	पिरमीड भिलडिंग प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
122	12158	क्यु टेक एन्जिनियर्स प्रइवेट लिमिटेड
123	1433	आर भालकृष्णन असोसियेट्स इन्जिनियरिंग प्रइवेट लिमिटेड
124	2181	आर इन्वेस्टमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
125	11608	आर एस एम टेकस्टैलस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड

126	9497	साधकणा यान्स प्रइवेट लिमिटेड
127	9174	श्राजशाला कनसलटनसी प्रइवेट लिमिटेड
128	13316	राजयश्री री - रोलिंग मिलस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
129	11950	राम के7 सेयरस अन्ड सेक्युरिटीस प्रइवेट लिमिटेड
130	7148	रमसाल मोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
131	12405	रेनडास टेकनालजिस प्रइवेट लिमिटेड
132	12669	रंगाचारी क्लात स्टोर प्रइवेट लिमिटेड
133	1534	रानसी फिटटिस प्रइवेट लिमिटेड
134	10564	रियल ठैम लागिसटिक्स कोयंबत्तूर प्रइवेट लिमिटेड
135	12164	रिच टेक्सकाट इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
136	10560	रिचफीलड काप सोल्युसन्स इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
137	8423	रैडान रब्स प्रइवेट लिमिटेड
138	6141	रिष्यश्रीगा फईनान्स प्रइवेट लिमिटेड
139	11473	रिवरबेड शोलयुसनस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
140	8624	आरकेएन कास्मेटिकस प्रइवेट लिमिटेड
141	13198	रोसमिडोस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
142	11009	रोवाक फार्मा इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
143	10002	रायल केलिडोनियन क्लब्स अन्ड रिसार्टस प्रइवेट लिमिटेड
144	12156	रुदरन मेडिकल ट्रान्सक्रिपसन्स प्रइवेट लिमिटेड
145	9419	रुत टेकनालजी इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
146	6370	एसएफ फलापस प्रइवेट लिमिटेड
147	6435	एस एम पि एक्वा मिनरलस प्रइवेट लिमिटेड
148	10733	एस एस वी एकसपोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
149	13066	एस टी इसमाइल कनसलटनसी सरवीसस प्रइवेट लिमिटेड
150	12058	एस6टीन टेकनालजीस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
151	8106	शकतीमुरुगन फईनान्स लिमिटेड
152	13736	सेलम डिजिटामेड कन्सलटन्सी सरवीसस प्रइवेट लिमिटेड
153	10501	सैगुन्नी गारमेनट एक्सपोर्ट इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
154	6375	संखर रियलठार्स अन्ड प्रापरटीस प्रइवेट लिमिटेड
155	5612	सिरंगम्माल भेनफिट फन्ड लिमिटेड
156	13446	सेलवन ट्रावलस प्रइवेट लिमिटेड
157	13550	सेनदूर ट्रेडिंग प्रइवेट लिमिटेड
158	5608	शैक एसोसियेटेड कन्सल्टेशन प्रइवेट लिमिटेड
159	12099	शैनी इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड

160	4819	श्री नरसिमहा मारुती चिटस प्रइवेट लिमिटेड
161	3841	सिपकाट होसूर इनफ्रासट्रक्चर लिमिटेड
162	8846	सिरवानी हासपिटलस प्रइवेट लिमिटेड
163	8612	सिवकारतिक कमरसियल फाइनेन्स लिमिटेड
164	6527	समार्टलईन एपलैयन्स प्रइवेट लिमिटेड
165	5953	सोलो गारमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
166	12990	सोमु पोर्टल्स प्रइवेट लिमिटेड
167	11991	सूर्या वेल्त क्रियेटेड प्रइवेट लिमिटेड
168	13583	सउत इन्डिया क्लसटर कन्सलटन्सी सर्वीसस प्रइवेट लिमिटेड
169	9576	सदरन कानलैफ कन्सयुमर सर्वीसस प्रइवेट लिमिटेड
170	12602	श्रीदेवी सैडम्न स्पिन्नरस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
171	6818	श्री ललितामबिगा भेनिफिट फन्ड लिमिटेड
172	1741	श्री मूकामबिगा सुगरस प्रइवेट लिमिटेड
173	9089	श्री रामसुनदरम शेयर्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
174	3465	श्री वी के टेकस्टैलस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
175	7971	श्री ब्रेखटभालाजी पेप्पर मिलस प्रइवेट लिमिटेड
176	2610	श्री विगनेस्वरा एग्रीकलचर अन्ड रिसर्च प्रइवेट लिमिटेड
177	10210	श्रीनिदि टेकस्टैलस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
178	12220	सम्मर इन्डिया अयरन अन्ड ओर एक्स्पॉर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
179	11804	सम्मर इन्डिया सन्टेक्स प्रइवेट लिमिटेड
180	12670	टी. राजगोपाल ऐयंगर एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
181	9515	टाकिटो प्राइवेट्स इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
182	4848	टलेमा मेगनाटिक्स इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
183	3017	टक्स्पसयर सोल्युसनस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
184	11061	टेनाक्स डेनटल इम्प्लान्ट इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
185	13730	टेक्स – इन टेक्स प्रासस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
186	1852	टेक्स्पो कमपनी प्रइवेट लिमिटेड
187	5587	तंगमनी चिट फन्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
188	9374	त्री स्टार आठो इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
189	13278	त्री वें मारकेटिंग सर्वीसस (टीएन) प्रइवेट लिमिटेड
190	4702	उडुमलपेट भेनिफिट फन्ड लिमिटेड
191	8227	यूएमएस एलक्ट्रॉनिक्स प्रइवेट लिमिटेड
192	12840	युनिक्युर अन्ड केर (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
193	10737	वी फलेक्स टेक्नालजीस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड

194	11788Z	वी सेट इम्पेक्स तिरुप्पुर प्राइवेट लिमिटेड
195	13296	वी पी एन एक्स्पॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
196	11111	वीवी कोरोसियान मैनेजमेन्ट सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
197	11934	वरना विशन कोवै प्राइवेट लिमिटेड
198	2726	वेंखट गंगा फाइनेन्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
199	4858	वेंखटा सुब्बास टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
200	4246	वेंखटराम जेनरल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
201	14335	वेनुगोपाल कनसल्टेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
202	12791	वेडनट सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
203	12242	विहान क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
204	5227	विजय राधा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	6342	विजयवानी टेक्स्टिल्स प्राइवेट लिमिटेड
206	6142	विक्रम एपेरलस प्राइवेट लिमिटेड
207	10633	विसवा डेवलपमेन्ट बेनिफिट फन्ड लिमिटेड
208	7201	विन्टेक पेप्पर अन्ड बॉड्स प्राइवेट लिमिटेड
209	12772	विसडम विर्जाड्स प्राइवेट लिमिटेड
210	3571	यूत्स आईल एक्स्ट्रकसन्स प्राइवेट लिमिटेड

डार. एम. मनूनीधिलोचन
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चिन्दा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 1 मार्च 2011

सं. एसएम/560(3)/एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2011/00417--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चिन्दा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं. रजिस्ट्रेशन सं.	कंपनी का नाम
1. 4119	वयलकल्ट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2. 4316	काञ्चनूर स्टील इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
3. 4886	रापसूव अइस इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
4. 4958	ट्रिस्ट इण्डिया प्रिन्ट्स एण्ड प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
5. 5516	चालियार होस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
6. 6005	चरिश्मा चिट्स एण्ड कुरीस प्राइवेट लिमिटेड
7. 6160	कोर्डिनेट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
8. 6392	अषोमा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
9. 6669	इन्टेक कंट्रोल एण्ड यूनिस्काफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
10. 7980	हिल्लारियोस इंस्टिट्यूट ऑफ क्लिनिकल टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
11. 8925	इण्डियन ओशियन ट्रावल ट्रेड एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
12. 9370	एब्बी इन्वेस्टमेन्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
13. 9869	ए एन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
14. 10430	श्री राजराजेश्वरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
15. 10836	मिथुनम कुरीस प्राइवेट लिमिटेड
16. 11573	मार्क रब्लर कॉपनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
17. 11653	पवरसील सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
18. 13155	श्रीस्टार कंबाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
19. 13246	ब्लाककाट ओक्साइड्स एण्ड पेइन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20. 13366	नेस्सो इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
21. 14081	मेगाट्रेन्ड सेइल्स एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
22. 14536	राम एन रोम ऑफसेट प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
23. 15559	एलिसिटा मार्केटिंग सोलुषन्स प्राइवेट लिमिटेड
24. 16113	हेलिकण रिसोर्ट्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
25. 16255	सीएस इन्फोर्मेशन सिस्टम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
26. 16267	सल्मान इन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
27. 16314	ब्रह्मास होलिडेय्स एण्ड एसोसियेटेड सर्वीसस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
28. 16789	सानिया टोक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
29. 16801	होम क्लब सूपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड
30. 16823	कासरगोड ओटोमोटीव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
31. 16829	राजात्ती ट्रेड एंपोरियम प्राइवेट लिमिटेड
32. 16928	आलोक इन्फोर्मेशन टेक्नोलजी एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
33. 16955	आप्टविशन कंप्यूटर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
34. 16973	तलपुल्ली हेर्बेल्स प्राइवेट लिमिटेड
35. 17127	रीगल प्रिन्सेस जुवर्लेस कालिकट प्राइवेट लिमिटेड
36. 17139	अहम्मद स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

37.	17429	पीबीओए लूब्स एण्ड स्पेयेर्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	17442	ब्रह्मा इन्फोर्माटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	17562	ग्रेटबे मीडिया पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
40.	17833	वी फोर बिल्डेर्स प्राइवेट लिमिटेड
41.	18015	पेरियार लागून्स दूरस प्राइवेट लिमिटेड
42.	18100	ओफिर टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
43.	18132	ओपुलेन्ट लेथेर्स प्राइवेट लिमिटेड
44.	18207	अष्टमी लबोरटरीस एण्ड फार्मस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
45.	18273	नव जीवन हेल्थ केअर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
46.	18411	पिचेम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
47.	18424	ली रिसोर्दस प्राइवेट लिमिटेड
48.	18440	अन्चेरिल बयो टी प्राइवेट लिमिटेड
49.	18442	कनकधारा कोमोडीटीस एण्ड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
50.	18614	प्रोफिशनट मेनेजमेन्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
51.	18688	प्लार्डस डाटा सोलुषन्स प्राइवेट लिमिटेड
52.	18705	अल हब्बी कणसेलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	18731	ई-वालिन्ट फिनान्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
54.	18830	पेपो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
55.	19063	एक्को बिसवारे प्राइवेट लिमिटेड
56.	19200	षार्पफोकस टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
57.	19377	फुचुरो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
58.	19428	किंगस्लाइन बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड
59.	19472	एनरिच डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
60.	19680	टीमसीस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
61.	20215	गेट्स सेकुरिटी एण्ड सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
62.	20679	माइग्रेट टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
63.	21012	अरुविककरा डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
64.	21043	मणिमुरियल ट्रेडिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
65.	21212	पी के आर प्रीडम वयरलेस नेट प्राइवेट लिमिटेड
66.	21333	सियम चन्द्रा सीफुड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
67.	21417	ओटोमाटिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
68.	21549	कूकाबुरा मैनपवर सोलुषन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
69.	21771	माइक्रो जेनरल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं. रजिस्ट्रेशन सं.	कंपनी का नाम
1. 2834	केरला स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. 3633	वेस्टएन्ड टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
3. 5756	पेट इलेक्ट्रो ट्रेड्स ब्रिचूर प्राइवेट लिमिटेड
4. 6724	एम जे इन्वेस्टमेंट एण्ड कपिटल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
5. 8134	कैपरम्ब कुरीस एण्ड लोणस प्राइवेट लिमिटेड
6. 8956	क्रिस्टफर कुरीस एण्ड लोणस प्राइवेट लिमिटेड
7. 9652	पोलारिस प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
8. 9769	ट्रावनकोर सेइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
9. 12177	बस ओणेर्स इन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
10. 12730	श्री बालाजी इडिबिल ओयल प्राइवेट लिमिटेड
11. 12827	होली फेइथ कुरीस प्राइवेट लिमिटेड
12. 13145	सरोजा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
13. 13781	आयुरशक्ति हेर्बेल्स प्राइवेट लिमिटेड
14. 14021	जोयनेर्स ट्रेड लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
15. 14355	एन ऐ सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
16. 15140	एक्सेलेन्ट सोफ्टवेयर सोलुषन्स प्राइवेट लिमिटेड
17. 16088	डी पोइन्ट लाइफ साइन्सस प्राइवेट लिमिटेड
18. 16104	अनन्ता टूरस प्राइवेट लिमिटेड
19. 16239	फोर रेस्ट ट्रावलेर्स प्राइवेट लिमिटेड
20. 16272	मंजु जुवल्स एण्ड हाई वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
21. 16410	कोच्ची एअर टूरस एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
22. 16718	पाटमार्क एफ एस प्राइवेट लिमिटेड
23. 16751	हेर्ब्स वाली प्राइवेट लिमिटेड
24. 16788	रोयल करी पाउडर एण्ड फुड्स स्टाफ प्राइवेट लिमिटेड
25. 16869	क्रिसवरे डिजाइनर होम्स प्राइवेट लिमिटेड
26. 16954	सण एडुकेशन एण्ड मेनेजमेंट कणसल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
27. 17208	यूनाइटड 4 ऐटी सोलुषन्स प्राइवेट लिमिटेड
28. 17241	दीदी डिजिटल डिजाइनिंग एण्ड प्रिन्टेर्स प्राइवेट लिमिटेड
29. 17321	तेक्कुमवेलिल कणसल्टन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
30. 17416	स्वामि इन्वोवेटिव नेट मार्केटिंग कणसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31. 17644	ए एम लाइट अकादमिक प्राइवेट लिमिटेड
32. 17822	काब वेन्चुवेर्स प्राइवेट लिमिटेड
33. 17998	ऐ एमटीइजेड टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
34. 18359	कान्डजी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
35. 18538	ओणलान्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36. 18946	टोप स्टार कणस्ट्रक्शन एण्ड मेइन्टेनेन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
37. 19024	मुक्कादुक्करा गोल्ड मानुफाक्चरेर्स कणसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
38. 19110	प्लानवेल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
39. 19111	एऐएन टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
40. 19478	जेम गोल्ड मानुफाक्चरेर्स कणसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
41. 20324	टेकनियम सोलुषन्स प्राइवेट लिमिटेड
42. 20349	आर्षधारा हेर्बेल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
43. 20799	पंतलूक्कारन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

(के जी जोसफ जाक्सन)
कंपनी पंजीयक, केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं. रजिस्ट्रेशन सं.	कंपनी का नाम
1. 4847	मास्टर मराइन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2. 4885	तंत्री ठ्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
3. 5427	पेरफेक्ट सेर्वी लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
4. 5885	मेकेल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
5. 5936	वेल्लानी फोर्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6. 5976	हेरा कंप्यूटर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
7. 6015	यूनिग्रूप रब्लर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8. 6286	अलात्तूर मेटेरिटी एण्ड चिल्ड्रन्स होस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
9. 6296	पेन्टा पैक प्राइवेट लिमिटेड
10. 6313	एफिशेन्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
11. 7664	कुञ्जमकुलम पेपर मिल्स लिमिटेड
12. 8485	वसुधा आयुर्वेदिक्स प्राइवेट लिमिटेड
13. 8971	तट्टाकुमेल नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
14. 9004	फोर स्क्वयर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
15. 9546	वेलमेन ट्रावलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
16. 9904	इडुक्की फिनान्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
17. 9925	ममता अक्वा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
18. 10116	मास्टर वील्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
19. 10153	कल्पा रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
20. 10238	पंकज वराइटी हॉल प्राइवेट लिमिटेड
21. 10590	षबाब्ना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
22. 10680	सूपरब्ल प्राइवेट लिमिटेड
23. 10774	सिग्नेट लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24. 11044	मनास फौण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
25. 11056	धनवर्धिनी कुरीस एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
26. 11318	गुरुपावना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
27. 12118	जेटीस सेकुरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
28. 12429	स्टुडियो क्वाट्रो सोफ्टवेयर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
29. 12511	क्रोणो अप्लाइन्सस प्राइवेट लिमिटेड
30. 12985	सलाइन्ट सेकुरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
31. 13243	फेस्टिवल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
32. 13950	रश्मि लोकेर्स प्राइवेट लिमिटेड
33. 13976	सण्णिषाइन कोन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
34. 13986	दीरा-मिखाइल टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
35. 14219	आत्रेया रिसर्च सोन्टर ऑफ इम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड
36. 14669	ग्रीन पार्क टी प्राइवेट लिमिटेड
37. 14763	ऐबीएल टेक्नोलजीस प्राइवेट लिमिटेड
38. 14863	नियो कारियर अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
39. 16262	वेल्थी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड
40. 16824	ग्लोनिक्स सेलफोन टेक्नोलजीस एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
41. 17452	अरीस सोफ्टवेयर कणसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
42. 18000	विन वर्थ ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
43. 18421	एअरपोर्ट प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
44. 18489	टोमजो एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
45. 19633	नोनागोण डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
46. 19695	ऐजेन फ्रान्जाइसी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
47. 20265	माषमिका डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
48. 16625	ईटीएल टेक्नोलजीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

(के जी जोसफ जाक्सन)
कंपनी पंजीयक, केरल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 9th March 2011

No. DPPERS.I/2011/793/3/9/2011-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri R. Chinram of Tamil Nadu Police presently working as Inspector in CBI, ACB Chennai as Deputy Supdt. of Police in CBI on deputation basis with effect from 09.02.2011 (AN) for a period of 5 years or till further orders whichever is earlier.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

The 10th March 2011

No. DPPERS.(M)/2011/554/3/3/2009—Shri Jagannath Sahoo, relinquished the charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 28.02.2011 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

The 17th March 2011

No. DP/PERS.I/2011/05/11/18/2009—The President is pleased to appoint the following Addl. SSP, CBI to the post of Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from the dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Place of Posting on promotion as SP	Date of Joining
	S/Shri		
1.	Ranjan Biswas	SP, ACB, Shillong	3.12.2010AN
2.	N. S. Kharayat	SP, ACB, New Delhi	6.12.2010
3.	A. K. Banerjee	SP, EOW, Kolkata	6.12.2010
4.	D. C. Dwivedi	SP, SU, Kolkata	9.02.2010
5.	T. DAS	SP, SCB, Kolkata	6.12.2010
6.	P. K. Mankar	SP, ACB, Port Blair	9.12.2010
7.	S. C. Gupta	SP, AC.III, Delhi	7.12.2010
8.	Joginder Nayak	AIG(P)-II, CBI, Delhi	3.12.2010AN
9.	P. L. Meena	SP, SC.I, New Delhi	7.12.2010

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 17th March 2011

No. P-VII-2/2011-MIN—Consequent on his promotion to the post of Senior Private Secretary, Shri Arvind Nigam,

(IRLA: 8626), SM/Steno of Directorate General, CRPF, New Delhi has taken over charge as Senior Private Secretary to Special DG, Northern Zone, CRPF, Jammu at Directorate General, CRPF, New Delhi on 25.02.2011(FN).

G. V. H. GIRI PRASAD
DIGP (Organisation)

New Delhi-110003, the 14th March 2011

No. O.II.3867/11-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Kamal Kishore Tak as Medical Officer (Dental Surgeon) (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 07.03.2011 till further orders. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Bilaspur (Chattisgarh).

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 3rd January 2011

No. E-16016/AO.2010/Pers-I/02—Consequent upon appointment of Shri N. Sritharan as Accounts officer in CISF on transfer on deputation basis for a period of one year and extension for two years would be allowed with the permission of DG if his work is found satisfactory. The officer has assumed the charge of Accounts Officer on 23.09.2010 (AN) at CISF HQrs., New Delhi in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,600/- Grade Pay.

RAJEEV PANT
Asstt. Inspector General/Pers

The 14th March 2011

No. E-15014/4/2004/Pers.II/Vol.II/612—In pursuance of Hon'ble High Court of Guwahati order dated 15.03.2010 Shri Saroj Kumar Singh, Assistant Commandant/Exe, presently posted at CISF Unit, 2nd Res. Bn. Ranchi has been declared to have completed his probation period satisfactorily on 29.02.2004 and confirmed in the rank w.e.f. 01.03.2004 vide this Directorate order No. E-15014/4/2004/Pers.II/1107 dated 04/06.05.2010.

RAJEEV PANT
Asstt. Inspector General (Pers)

New Delhi-110003, the 3rd January 2011

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/03—The President is pleased to appoint the following Commandants on regular promotion to the rank of Sr. Commandant, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption charge as Sr. Commandant on regular basis
	(Shri/Miss)		
1.	Md. Saqib Naqi	FGUTPP, Unchahar	15.12.2010 (AN)
2.	S. R. Ramaswamy	Group Hqrs, Chennai	16.12.2010 (FN)
3.	K. Gopinathan	South Zone Hqrs, Chennai	18.12.2010 (FN)
4.	Jayati Ghosh	ASG Kolkata	15.12.2010 (AN)
5.	Ravindra Kumar	5th Res Bn, Ghaziabad	15.12.2010 (AN)
6.	S. M. Shareef	KRTC, Mundali	28.12.2010 (AN)
7.	H. K. Dutta	P&HCS, Chandigarh	17.12.2010 (AN)
8.	Ban Mali Tandi	IOC (GR), Baroda	15.12.2010 (AN)
9.	H. Hanumanthappa	BDL, Kanchanbagh	16.12.2010 (FN)
10.	Shyam Lal	AI'PP, Anpara	30.12.2010 (AN)
11.	R. B. Bhatnagar	Red Fort, New Delhi	15.12.2010 (AN)
12.	J. W. Khan	ASG, Guwahati	16.12.2010 (FN)
13.	Shreekant Kishore	ASG, Chennai	15.12.2010 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/04—The President is pleased to appoint the following Senior Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,900/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption charge as Deputy Inspector General on regular basis
	(Shri)		
1.	Hem Raj Gupta	DIG/Welfare, FHQrs New Delhi	22.10.2010 (FN)
2.	Sudhir Kumar	Oil Duliajan	22.11.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/05—Reference Notification issued vide letter No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/99, dated 04.06.2010. The following amendment is made in respect of Sl. No. 7 :

For :

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption charge as AC (Fire) on regular basis
	(Shri)		
07.	Prasuh Kumar Sinha	NFL Bhatinda	02.02.2010 (FN)

Read :

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption charge as AC (Fire) on regular basis
	(Shri)		
07.	Prasuh Kumar Sinha	NFL Bhatinda	07.01.2010 (FN)

Other contents of the notification under reference remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/06—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Commandant (Exe) to the following Dy Commandants (Exe) of CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Commandant (Local Rank)
1	2	3	4
	(Shri)		
1.	S. V. Bhai	BHEL Haridwar	04.10.2010 (AN)
2.	Anand Saxena	Patna Airport	28.09.2010 (AN)
3.	Bam Dev Sharma	RTC Barwaha	15.10.2010 (FN)
4.	N. Sridhar	Nisa Hyderabad	21.08.2010 (FN)
5.	T. S. Kohli	Group Hqrs New Delhi	21.08.2010 (FN)
6.	M. R. Bhale	ONGC Jorhat	20.08.2010 (AN)

1	2	3	4
7.	Hari Om Gandhi	7th Res. Bn. Kistwar	04.10.2010(FN)
8.	Arun Singh	DMRC New Delhi	10.09.2010(FN)
9.	P. J. Raj Kumar	DAE Hqrs Hyderabad	17.09.2010(FN)
10.	P. B. Patil	NTPC Dadri	29.09.2010(FN)
11.	Divya Shukla	ASG Chennai (On the Posted Strength of ASG Mumbai)	06.10.2010(FN)
12.	Joginder Singh	BNP Dewas	09.11.2010(AN)
13.	Kumar Pratap Singh	GP Hqrs Mumbai	06.11.2010(FN)
14.	B. R. Roy	North Sector Hqrs New Delhi	06.12.2010(AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers-I/07—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Dy. Commandant (Exe) to the following Assistant Commandants (Exe)/(JAO) of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as DC (Local Rank)
1	2	3	4
	(Shri/Smt.)		
1.	Raghubir Narain	NHPCL, Subansiri	08.09.2010 (FN)
2.	Manish Kumar Gautam	ECL Seetalpur	20.09.2010 (FN)
3.	Manish Singh	Rstpp, Ramagundam	21.08.2010 (FN)
4.	Mithlesh Kumar	SJM, Hyderabad	23.08.2010 (AN)
5.	Vaibhav Kumar Dubey	Biop, Dep-05	27.09.2010 (FN)
6.	Alok Kumar	BSP, Bhilai	04.09.2010 (AN)
7.	Jai Prakash Azad	Gua, Mines	24.08.2010 (FN)
8.	R.N. Rannung	Miop, Meghatrubru	21.08.2010 (FN)
9.	Md. Umar Khan	Kiocl, Kudermukh	18.09.2010 (AN)
10.	Anjani Kumar Verma	MTPS, Muzaffarpur	20.09.2010 (FN)
11.	Ganesh Singh Patwal	ONGC, Mehsana	21.08.2010 (FN)
12.	Babu Ram Rana	RCFL, Thal	21.08.2010 (FN)
13.	Anil Kishore	HPCL (BP), Vizag	11.09.2010 (FN)
14.	K. Korappan	BPCL, Kochi	27.08.2010 (AN)
15.	Thushar D. Shakare	Dimapur Airport	16.09.2010 (AN)
16.	Harjinder Singh Uppal	NLC MTPP, Barsingsar	20.08.2010(AN)
17.	Nagendra Sharma	ONGC, Nazira	23.08.2010 (FN)

1	2	3	4
18.	Rajesh	Raipur Airport	13.09.2010 (FN)
19.	Vatendra Negi	RTC, Barwaha	21.08.2010 (FN)
20.	S. Jayakumar	RTC, Arakkonam	25.08.2010 (FN)
21.	Nilesh Kumar	Electronic City B'lore	21.08.2010 (FN)
22.	L.K. Haokip	8th Res Bn Jaipur (Pay Purpose)	03.09.2010 (FN)
23.	Sunit Sharma	NRL, Numaligarh	29.10.2010 (FN)
24.	P. Krishnan Nair	GBS, New Delhi	04.12.2010 (FN)
25.	Linga Raj Padhy	NFL, Nangal	12.11.2010 (FN)
26.	Sankar Kumar Jha	Biop Dep-14	06.12.2010 (FN)
27.	L.K. Gupta	WS Hqrs, Mumbai	20.10.2010 (FN)
28.	N. Kindo	DMRC, New Delhi	29.11.2010 (FN)
29.	Ramendra Talukdar	FHQRS, New Delhi	07.12.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/08—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Exe)/(JAO) to the following Inspectors (Exe)/Min of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC (Local Rank)
1	2	3	4
	(Shri)		
1.	K.N. Acharya	ASG, Hyderabad	07.06.2010 (FN)
Reference Notification issued vide letter No. E-16015/(2)/32/2009/Pers. I/199, dated 12.10.2010-The particulars in respect of Sl. No. 6, Shri K.N. Acharya and Sl. No. 23, Shri A. Narayanaswamy, may be treated as cancelled.			
2.	Santosh Raj Bhardwaj	DMRC, New Delhi	11.10.2010 (FN)
3.	Sunil Kumar Singh	ASG, Lucknow	27.09.2010 (FN)
4.	Swapan Rajak	SSG, Greater Noida	29.09.2010 (FN)
5.	G. Gopala Krishnan Nair	NISA, Hyderabad	05.10.2010 (FN)
6.	C. Narayana	RTC, Mundali	11.10.2010 (FN)
7.	K. Rajendran Pillai	CCIL, Tuglakhabad	01.10.2010 (FN)
8.	Shant Raxit	SVP/NPA, Hyderabad	08.11.2010 (FN)
9.	Ashok Ranjan Das	RTC, Bhilai	01.10.2010 (FN)
10.	Krishana Kant Srivastava	ASG, Bangalore,	13.10.2010 (FN)
11.	P.P. Singh	Gail, Vaghodia	19.11.2010 (FN)
12.	S.S. Mahanty	IOCL (PRP), Paradip	09.11.2010 (FN)

1	2	3	4
13.	Mahendra Pratap	DM-2 BN, Arakkonam	28.10.2010 (FN)
14.	Perecharla Sambasiva Rao	Mumbai, Port Trust	12.10.2010 (FN)
15.	M.D. Bhati	ES HQRS, Patna	11.10.2010 (FN)
16.	Om Prakash Chouhan	DVC Maithan	19.10.2010 (FN)
17.	Ravi Punia	IOC, Mathura	30.10.2010 (FN)
18.	Devender Kumar	ASG, Ahmedabad	26.10.2010 (FN)
19.	Ravibhushan Nautiyal	ASG, Cochin	04.10.2010 (FN)
20.	Virender Kumar Mathur	CPT, Cochin	16.11.2010 (FN)
21.	P.K.L. Das	VTPP Vallur Chennai	20.10.2010 (FN)
22.	Sajendra Singh	ASG, Hyderabad	04.10.2010 (FN)
23.	Devi Narayan Meena	RAPS, Kota	04.10.2010 (FN)
24.	P. Suvarna Raju	ONGC, Hazira	04.10.2010 (FN)
25.	P. Angannan	NISA, Hyderabad	05.10.2010 (FN)
26.	Benu Dhar Giri	SS HQRS, Chennai	20.10.2010 (FN)
27.	S.K. Verma	FHQRS, New Delhi	09.12.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 7th February 2011

No. E-16016/1/AD(ACCTS)/2010/Pers.I/42—Shri Sudesh Kumar Jain, Senior Accounts Officer, Principal Accounts Office (Admn), MHA, New Delhi has assumed the charge of the post of Assistant Director (Accounts), CISF Hqrs., New Delhi-03, on 01.02.2011 (FN) on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 6,600/- Grade Pay for a period of three (03) years.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 4th March 2011

AMENDMENT

No. E-38015(4)/3/VA/2010/Pers.I/70—Reference this Directorate Notification No. E-38015(4)/3/VA/2010/Pers.I/205 dated 18.10.2010 regarding acceptance of technical resignation of Shri Varun Ahluwalia, Assistant Commandant (Prob), CISF.

2. The above Notification may be amended to read as under:—

For

Date of acceptance of technical resignation w.e.f. 26.08.2010 (AN).

Read

Date of acceptance of technical resignation w.e.f. 29.08.2010 (FN).

3. Other contents of the above referred notification shall remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16013(1)/DIG-Dep/2008/Pers-II/72—On promotion to the rank of Scientist-'F', Shri Vinod Kumar Sharma, DIG/Fire, CISF Hqrs has prematurely been repatriated to his parent cadre i.e. DRDO, Delhi on his request. Shri Vinod Kumar Sharma has relinquished the charge of the post of DIG/Fire/CISF, in the afternoon of 28.02.2011.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 14th March 2011

No. E-16015/1/NCW/69/Pers-I/76—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has been taken on the strength of CISF/unit with effect from the date as shown against his name:—

Name of the Officer	Rank	Name of Department where officer was on deputation	The officer taken on the strength of CISF unit
Shri Yogesh Mehta	COMDT	NCW, New Delhi	Oil Duliajan 04.11.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/78—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Dy. Commandant to the following Assistant Commandants (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Commandant (Local Rank)
1	2	3	4
	(Shri)		
1.	Dhiraj Kumar Shukla	MTPS, Mejia	14.11.2010 (FN)
2.	Naser Ali	ASG, Kolkata	06.12.2010 (FN)

1	2	3	4
3.	P.K. Joy	SSP, Salem	18.12.2010 (FN)
4.	Vijay Kumar	ASG, Delhi	03.01.2011 (FN)
5.	Arvind Chauhan	ASG, Trichy	23.12.2010 (FN)
6.	Gokal Chand	BVFCL, Namrup	03.12.2010 (FN)
7.	Mohan Singh Bisht	GAIL, Pata	03.01.2011 (FN)
8.	Akhilesh Kumar	BTPP, Bongaigaon	13.12.2010 (FN)
9.	Mukesh Kumar	THDC, Tehri	11.12.2010 (FN)
10.	M.K. Tamil Selvam	DMRC, Delhi	21.02.2011 (FN)
11.	Yashwant Singh	ASG, Jodhpur	16.02.2011 (FN)
12.	Sunil Sharma	SVP/NPA, Hyderabad	23.12.2010 (FN)
13.	Satyendra Nath Shukla	BSP, Chamba	14.02.2011 (FN)
14.	K.S.T. Nair	KGPP, Kawas	30.11.2010 (FN)
15.	Dharamveer Yadav	ASG, Mumbai	15.11.2010 (FN)
16.	P.K. Kushalappa	NLC, Neyveli	18.11.2010 (FN)
17.	Indraj Singh Boyanla	ASG, Delhi	13.11.2010 (AN)
18.	Haradhan Das	Oil, Duliajan	15.11.2010 (FN)
19.	Indra Singh Nabiyal	CPT, Cochin	10.01.2011 (FN)
20.	Hemendra Singh	ASG, Calicut	29.01.2011 (FN)
21.	Mandish Singh Sahi	ASG, Agartala	24.01.2011 (FN)
22.	K.P. Ramaswamy	CSY, Cochin	06.01.2011 (FN)
23.	Makhan Singh	IOC, Barauni	14.02.2011 (FN)
24.	Akhilesh Kumar Dwivedi	ASG, Amritsar	28.01.2011 (FN)
25.	S.P.S. Tomer	ChPT, Chennai	02.12.2010 (FN)
26.	Ajay Kumar Jha	DM-2, Arakkonam	01.12.2010 (FN)
27.	Devender Kumar Sharma	NFL, Guna, Vijaipur	17.02.2011 (FN)
28.	Sandeep Kumar Srivastav	DAE, Kalpakkam	23.02.2011 (FN)
29.	Lal Mohan Thakur	JNPT, Sheva	13.01.2011 (FN)
30.	Nilotpal Mrinal	ASG, Kolkata	07.01.2011 (FN)
31.	Vishal Dubey	ASG, Delhi	06.12.2010 (FN)
32.	Pratap Bahausaheb Punde	ASG, Udaipur	21.02.2011 (FN)
33.	Ved Prakash Toor	NTPC, Kaniha	03.01.2011 (FN)
34.	Yogesh Prakash Singh	ASG, Bhubaneswar	17.01.2011 (FN)
35.	G.N. Purukayastha	Oil, Duliajan	15.01.2011 (FN)
36.	K. Gopalakrishnan	ASG, Madurai	03.02.2011 (FN)
37.	Maku Ram Bhagat	BARC/TAPS, Tarapur	18.01.2011 (FN)
38.	P. Kaliamoorthy	DSP, Durgapur	07.02.2011 (FN)
39.	Kailash Chandra Patra	DSP, Durgapur	18.12.2010 (FN)
40.	Md. Suhail Siddique	Chep-II, Chamera	14.02.2011 (FN)
41.	Jai Prakash Singh	ASG, Vadodra	01.03.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009-Pers.I/79—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Exe)/(JAO) to the following Inspectors (Exe)/(Min)/(Steno) of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Officer/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Assistant Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	Sher Singh	RTC, Bhilai	27.01.2011 (FN)
2.	Ravindra B. Gajbhiye	ASG, Ahmedabad	13.01.2011 (FN)
3.	Anil Kumar Singh	NDRF, Mundali	30.12.2010 (FN)
4.	Janak Singh	SSG, Greater Noida	08.02.2011 (FN)
5.	Parama Hans Ram	ASG, Dehradun	04.02.2011 (FN)
6.	Dasari David	NTPC, Dadri	24.01.2011 (AN)
7.	Baidyanath Murmu	CTPC, Chandrapura	20.01.2011 (FN)
8.	Santosh Kumar	MPRTC, Behror	04.01.2011 (FN)
9.	Chhote Lal Meena	ASG, Mangalore	18.02.2011 (FN)
10.	Arvind Kumar Upreti	ASG, New Delhi	17.01.2011 (FN)
11.	Thomson Thomas	MPT, Goa	30.12.2010 (FN)
12.	Pradeep Kumar Mishra	NALCO, Angul	04.01.2011 (FN)
13.	Jai Prakash	KIOCL, Kudermukh	31.12.2010 (FN)
14.	Laghu Raj Singh	NISA, Hyderabad	01.01.2011 (FN)
15.	Mahesh Prasad	ASG, Khajuraho	28.01.2011 (FN)
16.	Pankaj Kumar	Gp. HQrs, Hyderabad	05.01.2011 (FN)
17.	Uday Kumar Sah	ASG, New Delhi	14.02.2011 (FN)
18.	Harendra Kumar	NLC, Barsingsar	17.01.2011 (FN)
19.	Boney E. J.	ASG, New Delhi	28.01.2011 (FN)
20.	Dharam Vir Singh	RMP, Mysore	31.01.2011 (FN)
21.	Bahadur Ram	DMRC, Delhi	03.01.2011 (FN)
22.	P. Pradhan	Gp. HQrs., Guwahati	04.01.2011 (FN)
23.	Vinay Kumar Sharma	ASG, Bhuntur, H.P.	29.12.2010 (FN)
24.	Dalip Singh Rawat	ONGC, Nazira	27.01.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009-Pers.I/80—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Commandant to the following Deputy Commandants to CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Officer/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	Apoorv Pandey	HDC, Haldia	14.01.2011 (FN)
2.	Mahendra Kumar Yadav	RTC, Mundali	24.01.2011 (FN)
3.	Smt. Aradhana	ES HQrs, Patna	07.02.2011 (FN)
4.	Dhananjay Naik	MPRTC, Behror	21.11.2010 (FN)
5.	R. S. Agrawal	ONGC, Nazira	01.02.2011 (FN)
6.	P. K. Panda	Gp. HQrs, Hyderabad	23.12.2010 (FN)
7.	Sumil Kumar Sinha	ASG, Mumbai	07.02.2011 (FN)
8.	Bipin Chandra	BARC, Tarapur	23.02.2011 (FN)
9.	M. Shashi Kanth	ASG, Mangalore	10.12.2010 (FN)
10.	Vishnu Swarup	RTC, Arakkonam	25.02.2011 (FN)
11.	P. K. Patil	RTC, Bhilai	24.01.2011 (FN)
12.	Nawab Mohammad	FBP, Farakka	22.12.2010 (FN)
13.	Pasupati Pratap Singh	ASG, Jaipur	02.02.2011 (FN)
14.	Ajit Singh	Gp. HQrs, Mumbai	21.01.2011 (FN)
15.	A. K. Sharma	Gp. HQrs, Ahmedabad	17.01.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

New Delhi-03, the 8th February 2011

No. E-16013/SG/2010/Pers-I/45—The President is pleased to appoint Smt. Shikha Goel, IPS (AP : 1994) as Deputy Inspector General, in Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the forenoon of 07.02.2011 in the Pay Band PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,900/-.

PRASHANT KUMAR
Dy. Inspector General (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
GUJARAT

Ahmedabad, the 16th March 2011

No. WMI/47/(3)/Vol-I-1875—The Accountant General (A&E), Gujarat is pleased to promote following three DAO-I

official as Sr. Divisional Accounts Officer, Gr. 'B' (Gazetted) and five DAO-II official as DAO-I Gr. 'B' (Gazetted) in revised pay scale PB-III, Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/- and PB-II Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,800/- respectively w.e.f. the date shown against their names :—

Promoted as Sr. DAO

1. Shri K. S. Garasia 01.10.2010
2. Shri J. A. Patel 01.11.2010
3. Shri R. C. Meena 01.03.2011

Promoted as DAO-I

1. Shri A. M. Tiwari 01.01.2011
2. Shri M. C. Varma 01.01.2011
3. Shri S. V. Solanki 01.01.2011
4. Shri R. R. Saxena 01.01.2011
5. Shri H. K. Meena 01.03.2011

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A&V)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENAGAL

Kolkata-700001, the 14th March 2011

No. WM-I/Q-73 (G)/Vol. IV/2825-2827—Under the orders of the Pr. Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr. II is hereby promoted as Divisional Accounts Officer Gr. I in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,800/- in temporary and officiating capacity with effect from the date of assumption of charges as D.A.O. Gr. I in the present Division till further orders. He will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service :—

Shri Samir Kumar Datta-I

The above named Officer may submit his option under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Divisional Accounts Officer Gr. I for fixation of pay on promotion.

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant General (A/cs. & VLC)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 11th March 2011

No. O.E./E&C/EIVP/162—The following officials of
IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Susamma Thomas	Senior Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	28.02.2011 AN (Superannuation)
2.	Smt. P. Leela	Asstt. Accounts Officer Branch Office, Kozhikode	01.02.2011 FN (Voluntary)

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 16th March 2011

No. A-11025/5/2009-DCHL/E.II—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Shukla as Director in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- (Pre-revised) and now in the corresponding Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Weavers' Service Centre, Guwahati w.e.f. 09.03.2011 (Forenoon) until further orders.

SOHAN KUMAR JHA
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 9th March 2011

No. A-19011/574/01-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Adhikari to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Goa w.e.f. 4.3.2011 (F.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

No. A-19011/526/96-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri M. G. Raut, Asstt. Ore Dressing Officer is promoted to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 22.02.2011 (A.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

No. A-19011/526/96-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri V. A. Sontakke, Asstt. Ore Dressing Officer is promoted to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 22.02.2011 (A.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-110012, the 4th March 2011

No. 5-37/2010-Estt.(I)—With the approval of the Competent Authority, Shri S. Nanda Kumar, Assistant of Ministry of Defence who is holding the post of Drawing & Disbursing Officer, G.C.S. Group 'B' Gazetted in the Pay Band-II of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,600/- (Grade Pay) in the Directorate of Extension, Deptt. of Agri. & Coopn. on deputation basis, is repatriated to his parent cadre in O/o the Joint Secretary (Trg.) & CAO, Ministry of Defence, CAO/A-4(B), 'E' Block, Dalhousie Road, New Delhi w.e.f. the afternoon of 4th March, 2011.

V. NATARAJAN
Dy. Director (Admn.)

NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL

(FORMERLY NATIONAL INSTITUTE OF
COMMUNICABLE DISEASES)

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

Delhi-110054, the 22nd March 2011

No. 19-13/2010-PRC—The Director, National Centre for Disease Control, Delhi appoints Smt. Shashi Talwar, Library & Information Assistant to the post of Assistant Library & Information Officer (Group 'B' Gazetted) in Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- w.e.f. 27.09.2010 on regular basis.

MAHIMANAND
Administrative Officer
For Dir.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 11th March 2011

No. PD/6(1)/2010-R-III/2011/1751—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Meena Anil, Assistant, CCCM, Hyderabad to officiate as Assistant

Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 07.03.2011 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

No. PD/6(1)/2010-R-III/2011/1752—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Cicily John, Assistant, DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 04.03.2011 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 17th March 2011

CORRIGENDUM

No. PD/7(23)/2010-R-IV/SO/F/1843—Reference Notification No. PD/7(23)/2010-R-IV/SO/F/1263 dated February 22, 2011. The effective date of promotion of Dr. Vishwajeet Jha shown at Sr. No. 76 of the above mentioned Gazette Notification may be corrected to read as "02.08.2010" instead of "01.07.2010"

V. T. RAJAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400094, the 15th March 2011

No. HWB/R/1(8)-CO/2011/293—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Venkitakrishnan, S., Assistant, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,200/- BARC, Mumabi to officiate as Assistant Personnel Officer in Heavy Water Board (CO) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- from the forenoon of 18th February, 2011 until further orders.

K. V. PILLAI
Administrative Officer-III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 15th March 2011

No. A-35018/1/2009-E.II.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment on deputation basis of the following Flight Operations Inspectors (Aeroplane) in the Pay Scale of PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- for a further period of six months,

beyond the dates mentioned against each or until suitable candidates are appointed on regular basis or until further orders, whichever is earlierst :—

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Capt. H. S. Malhotra | 09.01.2011 |
| 2. Capt. C. S. Randhawa | 09.01.2011 |
| 3. Capt. Rajiv Yadav | 09.01.2011 |
| 4. Capt. N. Sivaramakrishnan | 09.01.2011 |
| 5. Capt. Nishank Roy | 09.01.2011 |
| 6. Capt. Rajeev Gupta | 12.01.2011 |

MEENA SHARMA
Dy. Dir. of Admn.

New Delhi-110003, the 15th March 2011

No. A-12018/01/2011-E-I.—The Central Government is pleased to re-designate the post of Secretary to the Representative of India (ROI) in the Council of International Civil Aviation Organization (ICAO) to Administrative Assistant and upgradation of the Pay Scale of the post from CS 1770-30-2820 to CS 2000-50-3750 with immediate effect.

VIJAY SINGH
Dy. Dir. of Administration

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

O/o REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Kanpur-208001, the 17th March 2011

No. LC/560(5)/3004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	006759	M/s. Sanyam Motor and General Finance Private Limited
2.	029204	M/s. Renaissance Drug Company Private Limited
3.	031147	M/s. K.T.M. Builders Private Limited
4.	028937	M/s. Kadls Cotton Knitwear Export Consortium Limited
5.	034412	M/s. KE Switchgear India Private Limited
6.	026901	M/s. Spandan Gurukul Private Limited

1	2	3	1	2	3
7.	017742	M/s. Blue Moon Enterprises Private Limited	36.	007102	M/s. Abhisha Electronics Private Limited
8.	023097	M/s. Jage Alloychem (India) Private Limited	37.	033160	M/s. Gyanlila E-System Development & Marketing Private Limited
9.	024598	M/s. Third Millenium Recreation Services Private Limited	38.	023909	M/s. Shikhar Shubh Restaurants Private Limited
10.	013365	M/s. Amarnath Bishwanath Traders Private Limited	39.	021606	M/s. Chorus (India) Finance and Hire Purchase Limited
11.	030863	M/s. Numax Pharmaceutical Private Limited	40.	022382	M/s. HPMP Finlease Private Limited
12.	014931	M/s. Majestic Housing Construction and Finance (India) Limited	41.	020029	M/s. Paliwal Auto Private Limited
13.	027449	M/s. Vipul Infotech Private Limited	42.	016581	M/s. Roopam Fabrics Private Limited
14.	026184	M/s. Chingari Jewellers Private Limited	43.	022782	M/s. Opel Engineers and Fabricators Private Limited
15.	029227	M/s. Shivoy Healthcare Private Limited	44.	013536	M/s. Aakaar Laminated and Coil Springs Private Limited
16.	027938	M/s. Grenade Security Services Private Limited	45.	003766	M/s. Shri Guru Nanak Engineering Company Private Limited
17.	018208	M/s. Samrat Mutual Benefits Limited	46.	015866	M/s. Copper Coin Finance Private Limited
18.	001798	M/s. The Hindustan Industries Management Private Limited	47.	014898	M/s. Jawaan Farm and Leasing Limited
19.	007508	M/s. Wicksan Laboratories (India) Limited	48.	033636	M/s. Nidhi Network Distribution Company Private Limited
20.	027550	M/s. Rush Agro Farms Private Limited	49.	12963	M/s. VLS Investments Private Limited
21.	013522	M/s. Jamuna Finance Services Private Limited	50.	017002	M/s. Upbeat Investments and Properties Private Limited
22.	016927	M/s. Vth Leasing and Finance Limited	51.	020999	M/s. Naimish Finance Company Limited
23.	004202	M/s. Gangwar Savings and Finance Private Limited	52.	021028	M/s. Mansa Investment and Finance Limited
24.	017067	M/s. Manu Finance and Investments Private Limited	53.	012761	M/s. Nebula Engineering Private Limited
25.	004439	M/s. Murarson Motor Finance Private Limited	54.	021204	M/s. GFE Horticulture Private Limited
26.	014490	M/s. Soumya Medicare Private Limited	55.	024699	M/s. Harsingar Spices Limited
27.	020796	M/s. Raun and Paul Exim Private Limited	56.	030611	M/s. Ripple Software Private Limited
28.	015916	M/s. Labham Traders Private Limited	57.	019879	M/s. Rajesh Raman Leasing and Finance Limited
29.	019598	M/s. Kayita Mutual Benefit Limited	58.	021729	M/s. Vandana Credit Services Limited
30.	021777	M/s. Tuteja Credit and Investments Private Limited	59.	031453	M/s. Cosmic Enterprises Private Limited
31.	025100	M/s. Noida Ansal Infotech Park Limited	60.	029064	M/s. Agra Footwear Industry Infrastructure Development Company Limited
32.	013733	M/s. Mool Chand Overseas Limited	61.	009226	M/s. Pawan Thermoplast Private Limited
33.	010436	M/s. Mool Chand Foods Private Limited	62.	028250	M/s. S.A.S. Fin. Solutions Private Limited
34.	016812	M/s. Kanhaiya Finance and Leasing Company Limited	63.	022151	M/s. Square Plantations Limited
35.	008700	M/s. Hindon Ispat Limited	64.	030053	M/s. Brasscity Real Estate Private Limited

1	2	3
65.	025524	M/s. Satya Institute of Information Technology Private Limited
66.	030054	M/s. Brasscity Developers Private Limited
67.	032135	M/s. S.I. Dwelling Private Limited
68.	031585	M/s. Unique Dwelling Private Limited
69.	025326	M/s. Dengla and Sons Private Limited
70.	032137	M/s. R.S. Dwelling Private Limited
71.	012139	M/s. Dengla Agencies Private Limited
72.	007014	M/s. Dengla Brothers Private Limited
73.	004926	M/s. Jagannath and Sons Traders Private Limited
74.	028918	M/s. Orawin Pharmaceuticals Private Limited
75.	012567	M/s. Jagdamba Cement Company Private Limited
76.	015948	M/s. Sarvahara Krishi Commercial (India) Limited
77.	015054	M/s. The Banaras Credit Company India Limited
78.	008888	M/s. Varanasi Poly Products Private Limited
79.	021647	M/s. Anjalisagar Hirefin Limited
80.	034072	M/s. Soft Edge Consulting & Services Private Limited
81.	017704	M/s. Subrat Commercial and Investments Limited
82.	019752	M/s. Netherland Ind Trading Private Limited
83.	012799	M/s. Himalayan Computers Private Limited
84.	020955	M/s. Bajaj Osho Polypet Private Limited
85.	008172	M/s. Tecbright Chemical Industries Private Limited
86.	011823	M/s. Bajaj Polyplast Private Limited
87.	014564	M/s. Shree Lok Housing and Investment Private Limited
88.	010974	M/s. Vyom Builders Private Limited
89.	010906	M/s. Malhotra Audiovision Private Limited
90.	021879	M/s. Ankita Leasefin Private Limited
91.	033199	M/s. Rajshi Agritech Private Limited
92.	014213	M/s. Swarnanga Leasing Private Limited
93.	012204	M/s. Seiko Sales Private Limited

1	2	3
94.	021397	M/s. Pagia Finance Limited
95.	034520	M/s. RNB Impex Private Limited
96.	015618	M/s. Poorva Foods Private Limited
97.	025217	M/s. Ajay Road Lines India Private Limited
98.	025366	M/s. Bhawani Organic Private Limited
99.	021071	M/s. Heemani Plantations Limited
100.	028416	M/s. Quest Business Solutions Private Limited
101.	023637	M/s. Sudeep Fine Chemicals Private Limited
102.	008380	M/s. Kumar Electrodes Private Limited
103.	016223	M/s. Mukasu Maintenance System Private Limited
104.	018115	M/s. Arpit Exports Private Limited
105.	003023	M/s. Allahabad Law Journal Publishers Private Limited
106.	006820	M/s. Modern Commerce and Traders Limited
107.	021448	M/s. Sreshtha Finance and Leasing Limited
108.	014595	M/s. Mykap Computer Services Private Limited
109.	015365	M/s. Risco Pharmaceuticals Private Limited
110.	016144	M/s. Brijesh Finance and Investment Private Limited
111.	021640	M/s. Swarn Ganga Credits and Exports Private Limited
112.	004555	M/s. Alcop Manufacturers Private Limited
113.	013547	M/s. Narang Corrugated Private Limited
114.	025653	M/s. Computer Systems and Solutions Private Limited
115.	012595	M/s. Sri Maa Vindhyavasini Rice Mill Private Limited
116.	020982	M/s. A to Z Computers India Private Limited
117.	032594	M/s. Encore Pharma Private Limited
118.	014406	M/s. Bhrigu Sales Private Limited
119.	027143	M/s. Rikin Nitin Foods Private Limited
120.	008449	M/s. Reena Finance Private Limited
121.	000634	M/s. The Central Talkies Private Limited
122.	028497	M/s. Unimed Distributors (India) Private Limited

1	2	3	1	2	3
123.	031253	M/s. Globin Biotech Private Limited	155.	029982	M/s. Kashipur Finance and Investments Private Limited
124.	019771	M/s. Surakshit Hire Purchase Private Limited	156.	026704	M/s. Future Computech Private Limited
125.	021031	M/s. Shrikar Finlease Private Limited	157.	027216	M/s. Saharanpur Spintex Limited
126.	019955	M/s. Shrikar Investments Private Limited	158.	014799	M/s. Parm Niveshak Limited
127.	010221	M/s. Prasad Latex Private Limited	159.	018190	M/s. Sangam Sales Private Limited
128.	021866	M/s. Shakambri Finance Private Limited	160.	018122	M/s. Daffordills Finance Limited
129.	021985	M/s. Shail Dev Investment and Finance Limited	161.	017414	M/s. Chitransh Housing Finance and Leasing Company Limited
130.	009907	M/s. TMA Consultants Private Limited	162.	034518	M/s. Shri Girrajji Insurance Consultants and Marketing Private Limited
131.	012388	M/s. Moradabad Hotels Private Limited	163.	026542	M/s. Neelayam Enterprises (India) Private Limited
132.	008194	M/s. Sitara Poly Clinic Private Limited	164.	021637	M/s. Mahakaushal Mutual Benefits Limited
133.	033941	M/s. Asket Educational Institute Private Limited	165.	017010	M/s. Prerna Investments Private Limited
134.	012269	M/s. ACE Media Advertisers Private Limited	166.	021844	M/s. Lakhimpur Kheri Credit and Leasing Limited
135.	031708	M/s. Shree Madhu Sudhan Solvent Extraction Private Limited	167.	015295	M/s. M. K. Agencies Private Limited
136.	013159	M/s. Samresh Investments Private Limited	168.	010853	M/s. Prem Lamicoats Private Limited
137.	020883	M/s. Vikas Ratan Infin India Limited	169.	017243	M/s. Bareilly Industrial Gases Private Limited
138.	009548	M/s. Jaikara Motor Finance Private Limited	170.	031179	M/s. Pragati Industrial Power Controls Private Limited
139.	023421	M/s. Taj Hospital and Research Centre Private Limited	171.	012014	M/s. Krishna Thermowares Private Limited
140.	032421	M/s. Century Handicrafts Private Limited	172.	001278	M/s. Kartar Transport and General Company Private Limited
141.	021274	M/s. M. D. N. Credits Limited	173.	022405	M/s. Swati Finlease Limited
142.	032422	M/s. Competent Metals Private Limited	174.	025568	M/s. Noida Amusement Parks Limited
143.	032423	M/s. Pioneer Brass Private Limited	175.	013656	M/s. Prathama Investments (India) Limited
144.	028380	M/s. Paras Furniture Private Limited	176.	019685	M/s. S. S. B. Mutual Benefits Limited
145.	032451	M/s. Manjari Foods Private Limited	177.	014524	M/s. Suwidha Financial Consultants Private Limited
146.	019595	M/s. Bloc Mutual Benefits Limited	178.	016743	M/s. I S M (Publications) Limited
147.	012481	M/s. H. P. S Publications Private Limited	179.	013574	M/s. Shikhar Mutual Benefit Company Limited
148.	015883	M/s. Shankhpandi Auto Commercials Limited	180.	015818	M/s. Premium Chits Private Limited
149.	018613	M/s. SRC Capital Management Services Limited	181.	016143	M/s. Narshingh Credit and Investment India Limited
150.	031438	M/s. Neelkanth Farms Private Limited	182.	005793	M/s. Rastogi Finance Company Private Limited
151.	010121	M/s. AAA Energy Services Private Limited	183.	032312	M/s. Rishabh Technical Education Private Limited
152.	031848	M/s. Tok Developers Private Limited			
153.	017636	M/s. Kaveri Textiles Private Limited			
154.	017994	M/s. Rimmi Finance and Investment Company Limited			

1	2	3
184.	018234	M/s. Kottayam Rubber Private Limited
185.	007719	M/s. Midas Touch Finance and Leasing Limited
186.	014171	M/s. Brijwasi Ferro Alloys Private Limited
187.	028736	M/s. Rooma Trading Company Private Limited
188.	027755	M/s. RG Schuh Design Private Limited
189.	005385	M/s. Pushkar Motor Finance Private Limited
190.	029018	M/s. Alaska Marketing Private Limited
191.	008329	M/s. Ravi Hire Purchase Private Limited
192.	019636	M/s. Dharti Dhan Plantations India Limited
193.	027486	M/s. Lida Taxfree Cigar Private Limited
194.	016453	M/s. Real Worth Auto Solution Private Limited
195.	027307	M/s. Rajkamal Resorts Private Limited
196.	014828	M/s. K. K. Commercial General Finance India Limited
197.	024105	M/s. Midha Marketing Private Limited
198.	003399	M/s. Pratap Pharma Private Limited
199.	027499	M/s. Shivang Infrastructures Private Limited
200.	029549	M/s. Infobyte Solar Power Private Limited
201.	028281	M/s. Life Aadhar Marketing Private Limited
202.	009850	M/s. Shri Anandeswar Textiles Private Limited
203.	014473	M/s. TVS Securities and Finance Co. Private Limited
204.	026918	M/s. Comnet Infosolutions Private Limited
205.	025360	M/s. Kasco Pharmaceuticals Private Limited
206.	011637	M/s. Classic Pouches Private Limited
207.	025763	M/s. R. S. Fine Trade Private Limited
208.	011086	M/s. Sunwind Chemicals Private Limited
209.	019152	M/s. Shri Kartikai Financial Services Limited
210.	020344	M/s. KV India Healthcare Limited
211.	030569	M/s. Sushma Agro Services Private Limited
212.	025387	M/s. Singh Movers Private Limited

1	2	3
213.	018000	M/s. Praval Investment and Finance Limited
214.	026097	M/s. Divyanand Infotech Limited
215.	030395	M/s. Divyaswadeshi Vastu Bhandar Private Limited
216.	031477	M/s. Sampark Agro India Limited
217.	011983	M/s. K. G. Chits Private Limited
218.	012790	M/s. Manik Plastic Products Private Limited
219.	014816	M/s. Mohan-Nandan Financial Services Private Limited
220.	005993	M/s. Kejriwal Holdings Limited
221.	020831	M/s. Rekha Medical and Research Center Private Limited
222.	019925	M/s. Saudagar Construction Limited
223.	017741	M/s. Anjalias Chemicals Private Limited
224.	004795	M/s. Gajna Financiers and Traders Limited
225.	012132	M/s. Konica Chit Fund Private Limited
226.	012104	M/s. Talab Tea Company Private Limited
227.	018747	M/s. Allahabad Credits Limited
228.	027671	M/s. Dynamic News and Features Private Limited
229.	019275	M/s. Goldline Capital and Finlease Limited
230.	024133	M/s. Six Stars Cine Combines Private Limited
231.	014686	M/s. Shobhit Finance (India) Private Limited
232.	026953	M/s. Freedom Consumers Network Marketing Private Limited
233.	031020	M/s. Axalto Smart Cards India Private Limited
234.	032263	M/s. AV Handicrafts Private Limited
235.	027573	M/s. Docnet Health Care Private Limited
236.	015832	M/s. A. R. V. Hire Purchase India Private Limited
237.	011743	M/s. C. N. F. Agencies and Marketing Private Limited
238.	016516	M/s. Paras Ji (Kr) Finance Limited
239.	008372	M/s. Golden Rolling and Foundry Mills Private Limited
240.	017386	M/s. Shiv Mutual Benefits Limited
241.	022281	M/s. Migra Electronics Private Limited

1	2	3	1	2	3
242.	009634	M/s. Doon Fabrics Private Limited	272.	018389	M/s. Aakrati Trading and Finance Private Limited
243.	002932	M/s. Harmangee Alan Private Limited	273.	011388	M/s. O. H. Bajaj Constructions and Finance Private Limited
244.	025798	M/s. Swapnil Communications Private Limited	274.	017736	M/s. Noida Network Systems Private Limited
245.	030632	M/s. Vivacious Agencies Private Limited	275.	019141	M/s. Mahaveer Financial Services Private Limited
246.	027100	M/s. Nitco Lighting Private Limited	276.	029267	M/s. AAA Protech Private Limited
247.	019113	M/s. Ansh Moneyfin Limited	277.	020309	M/s. Varshney Equipments Leasing Private Limited
248.	032511	M/s. Devbhoomi Mineral Development Private Limited	278.	025975	M/s. GSD Diamond and Gold Merchants India Limited
249.	031053	M/s. Pritam Securities (I) Private Limited	279.	012794	M/s. Prashad Syntex Private Limited
250.	026098	M/s. Dev Information Technology Institute Private Limited	280.	012933	M/s. Milap and Sons Drugs Pharmaceuticals Private Limited
251.	003606	M/s. Kavisa Conductors Private Limited	281.	028546	M/s. Orient Rave Mercantile Limited
252.	018802	M/s. Bareilly Mutual Benefits Limited	282.	027979	M/s. Maashree Realtors Private Limited
253.	024603	M/s. Electro Dyne Private Limited	283.	027638	M/s. BEHL and Associates Private Limited
254.	018398	M/s. Siddhartha Herbs Research Laboratories (India) Private Limited	284.	011103	M/s. Johar Builders and Investments Private Limited
255.	006266	M/s. Sarva Priya General Finance Limited	285.	023243	M/s. Bareilly Communications Private Limited
256.	030068	M/s. Doon Media Private Limited	286.	021065	M/s. Mayank Hire Purchase Private Limited
257.	026587	M/s. Our Way Network Private Limited	287.	025647	M/s. Pansariwala Infotech Private Limited
258.	009528	M/s. Radha Paridhan Private Limited	288.	018935	M/s. Sadabad Finance Private Limited
259.	009705	M/s. Vika Garments Private Limited	289.	017246	M/s. Vardan Food Products Private Limited
260.	003002	M/s. Moradabad Investment Company Private Limited	290.	010722	M/s. Hitkari Motor Finance Company Private Limited
261.	017139	M/s. Bhar Trading and Finance Company Private Limited	291.	025854	M/s. SBD Infosolutions India Limited
262.	000542	M/s. The Aligarh Commercial Association Limited	292.	011903	M/s. Chaudhary Minerals Private Limited
263.	003129	M/s. Cosmo Pharmaceuticals Private Limited	293.	009248	M/s. Muskan Chits Private Limited
264.	011629	M/s. Khazana Builders Private Limited	294.	009071	M/s. Samresh Finance Company Private Limited
265.	006831	M/s. Baij Nath Raja Ram Agencies Company Private Limited	295.	013414	M/s. Mahadeva Builders Private Limited
266.	002830	M/s. Automobile and General Finance Private Limited	296.	014974	M/s. Anam S Textiles Private Limited
267.	028726	M/s. Target Classes Private Limited	297.	017317	M/s. Sant Kripal Mutual Benefits Limited
268.	019430	M/s. Goyal Telesystem Private Limited	298.	005581	M/s. Lohia Engineering Works Private Limited
269.	012228	M/s. Mohan Brothers Automobiles and General Finance Company Private Limited	299.	016267	M/s. AKK Mutuals Benefit Company Limited
270.	026263	M/s. Techno Logistics Private Limited			
271.	029198	M/s. Bejo Sheetal Purvanchal Seeds Private Limited			

1	2	3
300.	018416	M/s. Agarwal Mutuals Benefit Private Limited
301.	030435	M/s. Soni Real Estate and Developers Limited
302.	028473	M/s. Tapsa Steels Limited
303.	026948	M/s. Shrinetra Enterprises Private Limited
304.	006393	M/s. A. K. Tronics Private Limited
305.	018112	M/s. Solar Fertility and Sperm Centre Private Limited
306.	020146	M/s. Pratiyogita Sahitya Publication Private Limited
307.	031033	M/s. R. Kure Pharmaceuticals Private Limited
308.	018161	M/s. S. N. T. Finance and Investment Private Limited
309.	000010	M/s. The Burhwal Sugar Mills Company Limited
310.	027477	M/s. Gajadhar Dwellings Private Limited
311.	008818	M/s. Nirmala Agro Private Limited
312.	023745	M/s. Raghav Jewellers Private Limited
313.	010848	M/s. Indu Acid Chem Limited
314.	027789	M/s. Sana Hotels Private Limited
315.	021241	M/s. Raj Coal Commission and Finance Private Limited
316.	011029	M/s. Emm Aar Chit Funds Private Limited
317.	019789	M/s. A. S. K. Chemicals and Chlorinators Limited
318.	012878	M/s. Elite Synthetics Limited
319.	008367	M/s. Baluja Chit Fund Private Limited
320.	023000	M/s. D. A. K. Naturochem (India) Private Limited
321.	025259	M/s. Symbiosis Computers Private Limited
322.	018531	M/s. Y. K. M. Finance and Leasing Private Limited
323.	015317	M/s. Divya Mutuals Benefits Limited
324.	021193	M/s. Heerak Finsec India Limited
325.	014784	M/s. Prasan Jewellers Private Limited
326.	017378	M/s. Prasan Securities Private Limited
327.	012893	M/s. Yash Fuels Private Limited
328.	015963	M/s. HRG Finance and Properties Private Limited

1	2	3
329.	018309	M/s. Janus Securities Private Limited
330.	017351	M/s. Dee Gee Mutual Benefit Limited
331.	026745	M/s. H. M. I. Exim Private Limited
332.	005864	M/s. Sarnath General Finance and Investments Company Limited
333.	021755	M/s. Wellgrow Mutual Benefits Limited
334.	032505	M/s. Resham Relators & Builders Private Limited
335.	025881	M/s. Sun Creations Private Limited
336.	024640	M/s. IITC Digital Com Private Limited
337.	003207	M/s. Shah Boots Limited
338.	031725	M/s. Sanrachana Constructions Limited
339.	021505	M/s. Sarw Darshi Finance and Leasing Limited
340.	004401	M/s. Dhoop Spinning Mills Private Limited
341.	025806	M/s. Pragya Infotech Private Limited
342.	017023	M/s. Vimal Financial Services Private Limited
343.	004500	M/s. Kumar Woollen Mills Private Limited
344.	033224	M/s. J. Lal Hotels & Resorts Private Limited
345.	017518	M/s. Countrywide Tours and Travels Private Limited
346.	021648	M/s. Ridhi Sidhi Credit India Limited
347.	012955	M/s. Shiva Distributors Private Limited
348.	032359	M/s. Advance Medisafe Equipments Private Limited
349.	020137	M/s. Pride Plantations (India) Limited
350.	013861	M/s. Lucknow Mutuals Benefits Private Limited
351.	026823	M/s. Mindshare Consulting Group Private Limited
352.	018214	M/s. Spack Investment and Financial Services Private Limited
353.	020090	M/s. Megabyte Mutuals Benefits Limited
354.	022778	M/s. Agra Telecom Private Limited
355.	019810	M/s. Vee Filmco Photo News Private Limited
356.	027951	M/s. G-Sat Aviation Services Private Limited
357.	020303	M/s. Aparna Financial Services Limited

1	2	3
358.	012344	M/s. Ashutosh Housing Development and Finance Limited
359.	033972	M/s. Eklavya Transport Solutions Private Limited
360.	028981	M/s. Radha Rani Buildwell Private Limited
361.	008351	M/s. Ameen Consultants Private Limited
362.	022800	M/s. Nice India Credit and Finvest Private Limited
363.	028617	M/s. Himani Housing and Developent Private Limited
364.	019252	M/s. Yogesh Sheetgraph Private Limited
365.	013583	M/s. Chandra Ganga Constructions and Capital Services Private Limited
366.	006086	M/s. Panchromatic Ink Manufacturing Company Private Limited
367.	026237	M/s. Citishop Online Private Limited
368.	021270	M/s. Reactor Commercial Credit Limited
369.	010685	M/s. Tara Pharmaceuticals Limited
370.	021224	M/s. Kamlesh Mutual Benefit Limited
371.	021714	M/s. J. S. R. Crefinlease India Limited
372.	018303	M/s. Purna Chit Fund Private Limited
373.	018430	M/s. Backgroup Finlease (India) Limited
374.	033516	M/s. RPS Logistics Solutions Private Limited
375.	022344	M/s. Manni Plantations Limited
376.	024066	M/s. Gorakhpur Medical Centre Private Limited
377.	011737	M/s. Chandauli Agro Dairy Products Private Limited
378.	032506	M/s. Vechie Retail Private Limited
379.	028342	M/s. Joyce International Fun City Private Limited
380.	028883	M/s. Marva Motors Private Limited
381.	006403	M/s. Sri Durga Bansal Private Limited
382.	028592	M/s. Kuber Bio-Medicals Private Limited
383.	010148	M/s. Orphic Investments Private Limited
384.	023677	M/s. Sadbhavana Sales and Services Private Limited
385.	007999	M/s. Paradise Paints Private Limited
386.	032298	M/s. Vrindavan Textile Park Sez. Private Limited

1	2	3
387.	030457	M/s. Jhirwar Infotech Private Limited
388.	013191	M/s. Eagle Trekking and Tours Private Limited
389.	025200	M/s. Kas Mas Food Products Private Limited
390.	008382	M/s. Netprinters Private Limited
391.	025111	M/s. Agarwal paper Tradiing Co. Private Limited

M. P. Shah
Company Registrar
Uttar Pradesh and uttrakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Jammu-180012, the 7th March 2011

No. ROC/JMU/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of the following Companies have been struck off the Register of Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	Registration No.	Name of the Company
1.	1390	M/s. J.S.A. Leasing & Financial Services Jammu Private Limited
2.	1731	M/s. Poonch Hire Hire Purchase and Leasing Private Limited
3.	1147	M/s. Antal Finance & Investment Company (India) Limited
4.	1152	M/s. Chaar Chinar Finance Private Limited
5.	0266	M/s. Kaydees Private Limited
6.	0909	M/s. Alps Travels Private Limited

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Jammu-180012, the 10th March 2011

No. ROC/JMU/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of the following Companies have

been struck off the Register of Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	Registration No.	Name of the Company
1.	2722	M/s. Malik Travels Xchange Private Limited
2.	1264	M/s. Shivam Milks Private Limited
3.	2060	M/s. Noor Colonisers Private Limited
4.	2102	M/s. Chenab Advertising Private Limited
5.	2857	M/s. Sunshine Human Resource Services Private Limited
6.	1468	M/s. Indo Cements Private Limited
7.	1412	M/s. J & K Solvex Private Limited
8.	0588	M/s. Jammu Auto Finance Private Limited
9.	0302	M/s. Matto Worsted Spinning and Weaving Mills Private Limited
10.	1473	M/s. KVS Holiday Homes (India) Private Limited.

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paract Trade Link Private Limited

Ahmedabad-380013, the 18th March 2011

No. ROC/129/37—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paract Trade Link Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santram Realities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 18th March 2011

No. ROC/129/140/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Santram Realities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaj Holidays Private Limited

Ahmedabad-380013, the 18th March 2011

No. ROC/129/143—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gaj Holidays Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Life Sciences Private Limited

Ahmedabad-380013, the 18th March 2011

No. ROC/129/146/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monarch Life Sciences Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies :

Patna, the 10th March 2011

No. ROC/PAT/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of the following Companies have been struck off the Register of Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	003682	M/s. Chandrahas Associates Private Limited
2.	005817	M/s. Adarsh Leasing & Sales Private Limited
3.	011974	M/s. Execujets Private Limited
4.	011975	M/s. Execucopters Private Limited
5.	010522	M/s. Vaishali Ayurvedic Private Limited
6.	008139	M/s. Arjan Agro Plantation India Limited
7.	006608	M/s. Arjan Saving India Limited
8.	004707	M/s. United India Housing Development & Finance Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Patna, the 10th March 2011

No. ROC/PAT/560/(5) EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	009379	M/s. HTL Technologies Private Limited
2.	002146	M/s. Lohia Nagar Investment Private Limited
3.	012632	M/s. Arunudai Kanha Dairy Private Limited
4.	002330	M/s. Krishna Drugs and Agencies Private Limited
5.	010204	M/s. Jayant Internet Private Limited
6.	009234	M/s. Chopra Real Estate Private Limited
7.	008584	M/s. North East Agro Food Private Limited
8.	006877	M/s. Steel City Finance Limited
9.	08253	M/s. Roy Traders Exports Private Limited
10.	009580	M/s. Herring Health Care Private Limited
11.	09634	M/s. Maskara Informatics Private Limited
12.	011313	M/s. Prabhakar Swarnima and Runa Traders Private Limited
13.	011913	M/s. Harish Samruddhi Infocom Private Limited
14.	006762	M/s. Profit Eye Research Private Limited
15.	007893	M/s. Steel City Green-Land India Limited
16.	009570	M/s. Anindu Export Private Limited
17.	003906	M/s. Tripurari Construction Private Limited
18.	012868	M/s. Jeevandeep Life Line Private Limited
19.	005670	M/s. Kwaliti Projects Private Limited
20.	006983	M/s. Suhana Finance & Investment Private Limited
21.	010307	M/s. Tara Maa Marketing Services Private Limited
22.	001685	M/s. Triveni Polytex Limited
23.	011395	M/s. Navya Intelligence and Securities Private Limited
24.	005536	M/s. Gas Corporation India Limited

1	2	3
25.	003501	M/s. Jagannath Khiyalal Constructions Private Limited
26.	010632	M/s. Rudra Callnet Private Limited
27.	011410	M/s. Jagat Narayan Sinha Construction Private Limited
28.	000810	M/s. Assanagar Rerolling Mills and Foundry Private Limited
29.	010451	M/s. Siddarth Marketing and Retail Trading Private Limited
30.	002934	M/s. Fabric-Caters (India) Private Limited
31.	009495	M/s. Maranga Agro Products Private Limited
32.	006318	M/s. Kin India Finance & Investment Limited
33.	009647	M/s. Seatech Healthcare Private Limited
34.	009960	M/s. Jharkhand Network Marketing Private Limited
35.	010352	M/s. Uniserve Medicare Private Limited
36.	005763	M/s. Neelgiri promoters & Builders Private Limited
37.	010752	M/s. Balaji Works Private Limited
38.	004107	M/s. Computele consultants Private Limited
39.	011727	M/s. Shashwat Sai Builder And Developers Private Limited
40.	011034	M/s. Akanksha Marketing and Services Private Limited
41.	012314	M/s. Kritika Sales Private Limited
42.	001984	M/s. Mithila Kala Kendra Private Limited
43.	006602	M/s. Purusottam Enterprises Private Limited
44.	002164	M/s. R. K. S. Polycast Private Limited
45.	010310	M/s. Akash Pharmaceuticals Private Limited
46.	000983	M/s. Patna Forgings Private Limited
47.	006721	M/s. Bihayas Finance & Investment Limited
48.	010825	M/s. Flairalley Technologies Private Limited
49.	008833	M/s. Saagarika Developers Private Limited
50.	003134	M/s. Pranjal Engineers Private Limited
51.	006135	M/s. B. G. S. Steels Private Limited
52.	007441	M/s. Shyamdeep Engineers and Developers Private Limited

1	2	3
53.	005458	M/s. Makali Leasing & Finance Private Limited
54.	006784	M/s. Bidyanand Pigments Marketing Private Limited
55.	012025	M/s. Balmiki Construction Private Limited
56.	003981	M/s. Kosi Cement Concrete Private Limited
57.	010988	M/s. Raj Kishore Singh Constructions Private Limited
58.	007367	M/s. Yadubanshi Masina Beej Private Limited
59.	010044	M/s. Piro Bhojpur Constructions Private Limited
60.	000336	M/s. Himalaya Ice & Cold Storage Private Limited
61.	011208	M/s. Ganpati Solar Marketing Private Limited
62.	013315	M/s. Apna Rojgar Concept Marketing Private Limited
63.	006820	M/s. Preksha Computers Private Limited
64.	009638	M/s. Devay Business Machine Private Limited
65.	013305	M/s. Mangalam Grains Private Limited
66.	010327	M/s. Amios Biotech Private Limited
67.	013330	M/s. Bihar Security Services Private Limited
68.	008661	M/s. Happy Days Marketing Private Limited
69.	012911	M/s. Reckon Teleconstruction Private Limited
70.	004887	M/s. Grow More Tree Private Limited
71.	013235	M/s. Star Deal Services Private Limited
72.	005285	M/s. Star Saving Limited
73.	010354	M/s. Uruji Agro Trading and Exports Private Limited
74.	011186	M/s. Anand Muskan Hotel Private Limited
75.	010116	M/s. Altina Pharmaceuticals Marketing Private Limited
76.	009368	M/s. Maa Jagdambe Cylinders Private Limited
77.	001446	M/s. Achari Nursing Clinic Private Limited
78.	007375	M/s. Koderma Carriers Private Limited
79.	012238	M/s. Surrel Health Care Private Limited
80.	011431	M/s. Shalimar Oxide Private Limited
81.	009383	M/s. Ranjan Scientific Traders Private Limited

1	2	3
82.	009867	M/s. Ras Motions Private Limited
83.	012356	M/s. Relevant Media Private Limited
84.	008047	M/s. Deep Medicare Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 14th March 2011

No. ROC/PAT/560/(3) EES-2011/10676—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of thirty days from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	010723	M/s. Puspanjali Teknosoft Private Limited
2.	000001	M/s. Jamalpur Ice Company Limited
3.	002717	M/s. Alankar Motors Private Limited
4.	008655	M/s. Satyam Lubricants Private Limited
5.	006292	M/s. Ajuba Finance Private Limited
6.	003440	M/s. Friends Automobile Engineers Private Limited
7.	009255	M/s. Neora Gas Point Bottling Private Limited
8.	006994	M/s. P. I. Financial Services Limited
9.	011784	M/s. Suresh Roy Construction Private Limited
10.	009963	M/s. B. K. Sinha Consultants Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Patna, the 15th March 2011

No. ROC/PAT/560/(5) EES-2011/10681—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following

Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	011281	M/s. Roshani Herbals Private Limited
2.	001592	M/s. Zinc Products & Company Private Limited
3.	012054	M/s. Suman Institute of Computer & Technology Private Limited
4.	009170	M/s. Paradise Institute Private Limited
5.	010893	M/s. Shivmangal Construction Private Limited
6.	003451	M/s. UMA Comptek (India) Private Limited
7.	007401	M/s. Rajan Pawan Lambodar Finance Limited
8.	007150	M/s. Vaishali Industrial Export Private Limited
9.	010260	M/s. Damodar Coal Private Limited
10.	009433	M/s. Kailashwati Educational Foundation Private Limited
11.	011468	M/s. Kribs Healthcare Private Limited
12.	002540	M/s. Laxmi Cold Storage Private Limited
13.	010039	M/s. Kavva Motor Private Limited
14.	013057	M/s. Glowell Projects Private Limited
15.	001035	M/s. Gyan Security Services Private Limited
16.	011598	M/s. Padmalya Exports and Allied Marketing Private Limited
17.	012629	M/s. Pentacom Research and Training Private Limited
18.	002898	M/s. Feedback Rubber Industries Private Limited
19.	011256	M/s. Steel City Courier Service Private Limited
20.	012282	M/s. Matesh Biotech Private Limited
21.	010975	M/s. Maa Meera Construction Private Limited
22.	012120	M/s. Combind Computer & Marketing System Private Limited
23.	007142	M/s. Sankalp Leasing & Datamatics Private Limited
24.	009427	M/s. Variety Software & Consultancy Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Kolkata-700 020, the 16th March 2011

No. ROC/WB/EES-560-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	033365	M/s. Upkar Investments Limited
2.	053019	M/s. Enenef Engineering Consultancy Private Limited
3.	091643	M/s. AGC Marketing Private Limited
4.	026150	M/s. A T Coomar (Hardware) Private Limited
5.	0055253	M/s. Caldylne Techno Private Limited
6.	038533	M/s. Multiple Construction Co. Private Limited
7.	080131	M/s. Electron Combine Private Limited
8.	019505	M/s. Vehicle Finance Co. Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Kolkata-700 020, the 16th March 2011

No. ROC/WB/EES-560-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	054687	M/s. Patel Exim Private Limited
2.	095336	M/s. Bidhannagar Auto Works Private Limited
3.	099534	M/s. Century Petro Services Private Limited
4.	067447	M/s. Kolmak Petrochem Limited
5.	093191	M/s. Graficom Imprints Private Limited

1	2	3
6.	095538	M/s. Winter Records Private Limited
7.	025768	M/s. Syndets & Resinous Chemicals Private Limited
8.	103469	M/s. Teamwork Cineplex Private Limited
9.	039123	M/s. Killa Associates Private Limited
10.	118760	M/s. A.C.D. Consultancy Private Limited
11.	091972	M/s. Alri Steels Private Limited
12.	082959	M/s. Computech Commercial Private Limited
13.	080145	M/s. Bengal Antibiotics Private Limited
14.	097435	M/s. Swastik Perfumary Private Limited
15.	062979	M/s. Multichannel Exports Private Limited
16.	098652	M/s. Planet Dentistry Clinics Private Limited
17.	065832	M/s. Shilpam Vinimay Private Limited
18.	052732	M/s. Asma Leather Products Private Limited
19.	044145	M/s. Easton Wires Private Limited
20.	044831	M/s. Alpha Wires Private Limited
21.	114513	M/s. Virtual Agencies Private Limited
22.	104450	M/s. Kamyabi Mercantiles Private Limited
23.	115835	M/s. BKB Pharma-Chem Private Limited
24.	036517	M/s. Bon-Ton Commercial Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Kolkata-700 020, the 16th March 2011

No. ROC/WB/560/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	089564	M/s. Luna Tubes Private Limited
2.	095408	M/s. Bengal Tractors Private Limited

1	2	3
3.	120930	M/s. Zodiac Techno Services Private Limited
4.	120949	M/s. Zoom Rolling Mills Private Limited
5.	063256	M/s. Moon Marine India Private Limited
6.	120947	M/s. Zoom Energy Private Limited
7.	120948	M/s. Zoom Pellets & Mining Private Limited
8.	091300	M/s. Mihon Corporate Services Private Limited
9.	096983	M/s. Hytech Engicons Private Limited
10.	093886	M/s. Exquisite Consultants Private Limited
11.	074961	M/s. Panchvati Goods & Services Private Limited
12.	067814	M/s. Whiz Securities Company Private Limited
13.	054687	M/s. Patel Exim Private Limited
14.	095336	M/s. Bidhannagar Auto Works Private Limited
15.	099534	M/s. Century Petro Services Private Limited
16.	093191	M/s. Graficom Imprints Private Limited
17.	095538	M/s. Winter Records Private Limited
18.	025768	M/s. Syndets & Resinous Chemicals Private Limited
19.	103469	M/s. Teamwork Cineplex Private Limited
20.	039123	M/s. Killa Associates Private Limited
21.	118760	M/s. A.C.D. Consultancy Private Limited
22.	080145	M/s. Bengal Antibiotics Private Limited
23.	097435	M/s. Swastik Perfumary Private Limited
24.	062979	M/s. Multichannel Exports Private Limited
25.	098652	M/s. Planet Dentistry Clinics Private Limited
26.	065832	M/s. Shilpam Vinimay Private Limited
27.	044145	M/s. Easton Wires Private Limited
28.	114513	M/s. Virtual Agencies Private Limited
29.	104450	M/s. Kamyabi Mercantiles Private Limited
30.	115835	M/s. BKB Pharma-Chem Private Limited
31.	036517	M/s. Bon-Ton Commercial Limited
32.	075223	M/s. BDK Mercantile Private Limited

1	2	3
33.	044936	M/s. Murari Leasing and Finance Private Limited
34.	100499	M/s. Brightsky Pollution Control Equipments Private Limited
35.	104451	M/s. Shivpujan Tradelink Private Limited
36.	122270	M/s. Skywing Logistics Private Limited
37.	080441	M/s. Roohi International Private Limited
38.	117278	M/s. Bandhan Goods Private Limited
39.	118095	M/s. Jagdhatri Vincom Private Limited
40.	103490	M/s. S. S. Vanijya Private Limited
41.	120946	M/s. Zoom Design & Services Private Limited
42.	098280	M/s. Ornate Marketing Private Limited
43.	061895	M/s. G.K.B. Lens (Bangalore) Private Limited
44.	093802	M/s. Salkia Iron Foundry Private Limited
45.	117779	M/s. DDP Trading and Services Private Limited
46.	124193	M/s. Amrit Tracom Private Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Gwalior-474009, the 17th March 2011

No. ROC-GC/u.s. 560(5)/2011/2939—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	001353	M/s. Ramlal Sons Hotels Private Limited
2.	002137	M/s. Shreyans (India) Construction Co. Private Limited
3.	002633	M/s. Super Cements Limited
4.	002652	M/s. S. J. Gin Press Oil Industries Private Limited

1	2	3
5.	003186	M/s. Jaloo Mettix Private Limited
6.	003839	M/s. M. P. Diesel Engineering Private Limited
7.	003973	M/s. Simplex Offset Works Private Limited
8.	004095	M/s. Modern Circuits Private Limited
9.	004443	M/s. Oswal Iron & Steels Private Limited
10.	004544	M/s. Joshi & Joshi Construction Company Private Limited
11.	004547	M/s. Rathi Electronic Appliances Private Limited
12.	004901	M/s. Suyog Hospital Private Limited
13.	005031	M/s. Join Metal Links Private Limited
14.	005263	M/s. Kamdhenu Sales & Marketing Private Limited
15.	005330	M/s. Ashita Techno Management Consultancy & Projects Private
16.	005416	M/s. Biomed Pharmaceuticals Private Limited
17.	006275	M/s. Indola Food Products Private Limited
18.	007387	M/s. Nikkita Leasing & Finance Private Limited
19.	007685	M/s. Naksha Trika Microsoft Limited
20.	007814	M/s. Poddar Coal Limited
21.	008314	M/s. Gayatri Welds Private Limited
22.	008601	M/s. Kridyoga Agro Projects and Investments Private Limited
23.	008838	M/s. BSI Super Markets and Realtors Limited
24.	009283	M/s. Deora Transpower Limited
25.	009679	M/s. Shri Ram Prakashan Private Limited
26.	010102	M/s. Siddhartha Infrastructure Developments Limited
27.	010610	M/s. Vandit Fincom Private Limited
28.	010683	M/s. Bhopal Cryogenics Private Limited
29.	010852	M/s. B. & A. Innovations Limited
30.	010854	M/s. Khaitan Industries Private Limited
31.	017234	M/s. Rising Sun Publishing Company Private Limited
32.	011331	M/s. Austin Digitronics Private Limited

1	2	3	1	2	3
33.	011347	M/s. Minerva Computers (India) Private Limited	62.	016821	M/s. Right Chem Private Limited
34.	011536	M/s. Organics Agritech Private Limited	63.	016848	M/s. Bonus Card Marketing Private Limited
35.	011573	M/s. Shri Sai Shraddha Transformers Private Limited	64.	016891	M/s. OTS Engineering Private Limited
36.	011783	M/s. Itarsi Flours Limited	65.	016988	M/s. Shree Sitaram Metalics Private Limited
37.	011784	M/s. Khandwa Oils Limited	66.	017163	M/s. Mehindi Developers Private Limited
38.	011897	M/s. Reliable Corporate (India) Limited	67.	017221	M/s. Rastogi Refractories Private Limited
39.	012156	M/s. Beekay Cold Storage Private Limited	68.	017235	M/s. SCA Chemicals (Coimbatore) Limited
40.	012298	M/s. Makson Marketing Private Limited	69.	017236	M/s. SCA Chemicals (Bhilai) (India) Limited
41.	012519	M/s. SCA Chemicals (India) Limited	70.	017476	M/s. Prime Concentrates and Feds Private Limited
42.	012543	M/s. Indo German Brass Private Limited	71.	017491	M/s. Kanishk Wire (Indore) Private Limited
43.	012730	M/s. Rishabh Irrigation Private Limited	72.	017518	M/s. Taheri Tools Private Limited
44.	012758	M/s. Makson Diesel Private Limited	73.	017727	M/s. Albright Steel Tubes Private Limited
45.	012945	M/s. Malwa Recreation and Consultancy Private Limited	74.	017786	M/s. Stier Securities Private Limited
46.	012957	M/s. Onkardas Mahadeodas Tobacco Products Private Limited	75.	017808	M/s. Bhopal Cluster of Engineering Organisation Private Limited
47.	013426	M/s. Prem Auto and Management Consultants Private Limited	76.	017947	M/s. Diaspark Private Limited
48.	013686	M/s. Opec Paints & Chemicals Private Limited	77.	018380	M/s. Malwa Tripple-Play Technologies Private Limited
49.	014118	M/s. Yash New Food Packaging Private Limited	78.	018393	M/s. Ahilya Nagari Textile Park Limited
50.	014516	M/s. Karuna Sugar Mills Private Limited	79.	018452	M/s. Supreme Safety Solution Private Limited
51.	014637	M/s. Vakratunda Marketing and Consultancy Private Limited	80.	018499	M/s. Koromandal Refractories (Bhilai) Private Limited
52.	014701	M/s. J. P. Dwellings Private Limited	81.	018525	M/s. Royal Retreat Builders Private Limited
53.	014720	M/s. Nimble Education Private Limited	82.	018598	M/s. Strategia Consultancy Services Private Limited
54.	014809	M/s. Siddhantha Logistics Private Limited	83.	018846	M/s. Avani Agritech Private Limited
55.	014834	M/s. MPH Desai Constructions Private Limited	84.	018847	M/s. Sandhya Prakash Print N. Pack India Limited
56.	015008	M/s. Indore Heart Institute Private Limited	85.	019242	M/s. Solitaire Tele Infratech Private Limited
57.	015118	M/s. Taran Taran Jain Hostels Private Limited	86.	019370	M/s. Standard Buildcon Private Limited
58.	015211	M/s. Kusbenash Marketing Private Limited	87.	019512	M/s. Korn Infrastructure Private Limited
59.	015640	M/s. Mangilal Dudhwala Milk Suppliers and Dairy Private	88.	019735	M/s. Shree Vision-Net Private Limited
60.	015706	M/s. Patel Study Circle Private Limited	89.	020125	M/s. Rastogi Alumina Private Limited
61.	016298	M/s. Sellers Bakery Private Limited	90.	020456	M/s. Rajcon Minerals Private Limited

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
M. P. & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Panaji-403001, the 14th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2011/00164/3352-3461—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	01797	M/s. Multilac Surface Coating India Limited
2.	02431	M/s. Swarg Plantations Limited
3.	05354	M/s. Royal Himalaya Holiday Club Private Limited
4.	02577	M/s. Sai Wineries Private Limited
5.	03392	M/s. Surya Chem Daman India Private Limited
6.	02721	M/s. Om Hi-Tech Private Limited
7.	03425	M/s. Caribbean Ship Management Private Limited
8.	03355	M/s. Biosphere Technology Private Limited
9.	01726	M/s. Blare Moulders Private Limited
10.	04072	M/s. Frog Leap Fashions Trading Private Limited
11.	04476	M/s. New Awakening Healthcare Private Limited
12.	01788	M/s. Beverage Ventures Limited
13.	04613	M/s. Pranavita Medical Services Private Limited
14.	04617	M/s. Datatrains Technical Services (India) Private Limited
15.	01859	M/s. Khope Trading Company Private Limited
16.	05178	M/s. Malabar Coast Property Management Services Private Limited
17.	04948	M/s. Advani Flight Catering Services Private Limited
18.	04207	M/s. Teknorix Solutions Private Limited
19.	04092	M/s. Brolin Hospitality Private Limited
20.	04172	M/s. Ranjamit Health and Fitness Company Private Limited

1	2	3
21.	05351	M/s. Arabian Sea Guest House Private Limited
22.	05511	M/s. Jai Sai Mines and Minerals Private Limited
23.	04355	M/s. Pernem Moulders Private Limited
24.	05156	M/s. Goan Ventures Holiday Villas Private Limited
25.	04825	M/s. Philip and Jane Holiday Homes Private Limited
26.	03799	M/s. Shadow Box Entertainment Private Limited
27.	04385	M/s. Konkan Shipping and Mineral Exports Private Limited
28.	04207	M/s. Teknorix Solutions Private Limited
29.	04912	M/s. Chris Property Management Private Limited
30.	05508	M/s. Alto Mundo Vinhos Impex Private Limited
31.	01999	M/s. Mascarenhas Heavy Fab Private Limited
32.	00689	M/s. Dalian Developers Private Limited
33.	03613	M/s. Aditi Road Carriers Private Limited
34.	04108	M/s. Goa Communication and Consultancy Services Private Limited
35.	01569	M/s. Navelim Iron Private Limited
36.	05001	M/s. Adrian Holiday Homes (Goa) Private Limited
37.	05518	M/s. Blue Skies Leisure Resorts Private Limited
38.	04882	M/s. Excel Minerals and Metals Private Limited
39.	00066	M/s. Konkan Fisheries Private Limited
40.	04520	M/s. Polynesian Restaurants Private Limited
41.	03663	M/s. Nayak and Sons Constructions Private Limited
42.	00275	M/s. PVC Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)
43.	01629	M/s. Menezes Holdings and Services Private Limited
44.	00254	M/s. Parvatibai Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)
45.	02404	M/s. Sector Investments and Trading Private Limited

1	2	3	1	2	3
46.	05302	M/s. Travellers Club Resorts Private Limited	70.	02069	M/s. Aguada Resorts Private Limited
47.	00450	M/s. Hopper Investments and Trading Private Limited	71.	00892	M/s. Augustus Plastics Private Limited
48.	02391	M/s. Zebra Investments and Trading Private Limited	72.	03848	M/s. Flowteck Outsourcing Private Limited
49.	00454	M/s. Light Investments and Trading Private Limited	73.	00459	M/s. Aim Investments and Trading Private Limited
50.	00308	M/s. Colva Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)	74.	00452	M/s. Arrow Investments and Trading Private Limited
51.	00455	M/s. Sparrow Investments and Trading Private Limited	75.	02386	M/s. Oat Investments and Trading Private Limited
52.	03453	M/s. Madal Bal Publishers Private Limited	76.	00302	M/s. Baina Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)
53.	03205	M/s. Dyna Link Private Limited	77.	03707	M/s. Gauri Pai Panandiker Trading and Investment Company Private Limited
54.	02995	M/s. D Souza Marketing Private Limited	78.	03419	M/s. Fibercraft Technologies Private Limited
55.	03725	M/s. Palvinder Developes and Contractors Private Limited	79.	03161	M/s. Marmagoa Mineral Handling Private Limited
56.	02388	M/s. Sonamarg Investment and Trading Private Limited	80.	03227	M/s. Drishti Softtech Private Limited
57.	00299	M/s. Mangor Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)	81.	01935	M/s. Noble Ventures Private Limited
58.	00460	M/s. Bulk Investments and Trading Private Limited	82.	04818	M/s. Hanuman Wood Crafts Private Limited
59.	00461	M/s. Dhalia Investments and Trading Private Limited	83.	03461	M/s. Tinsapati Aquaculture Private Limited
60.	00456	M/s. Cannon Investments and Trading Private Limited	84.	03440	M/s. Mahalaxmi Aquaculture Private Limited
61.	00451	M/s. Grape Investments and Trading Private Limited	85.	00258	M/s. DYC Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)
62.	04452	M/s. Polly Holiday Homes (Goa) Private Limited	86.	04198	M/s. Vision Mold Innovations Private Limited
63.	03576	M/s. Rohan Pai Panandiker Trading and Investment Company Private Limited	87.	03543	M/s. Intercorridor Systems Limited
64.	00272	M/s. ILC Investments Company (A Private Company with Unlimited Liability)	88.	02755	M/s. Shreeya Marketing Private Limited
65.	02438	M/s. Cheshmashahi Investment and Trading Private Limited	<p style="text-align: right;">SANJAY KUMAR GUPTA Registrar of Companies Goa, Daman and Diu</p>		
66.	03230	M/s. Banana Moon Hotel and Tourism Center Private Limited			
67.	02405	M/s. Seashine Investments and Trading Private Limited	<p style="text-align: center;">In the matter of the Companies Act, 1956 and of the M/s. Sri Sharadha Trading Private Limited</p>		
68.	02396	M/s. Rockweed Investments and Trading Private Limited	<p style="text-align: center;">Puducherry-605011, the 10th March 2011</p>		
69.	01103	M/s. Atmaram Panandikar and Sons Holding Private Limited	<p style="text-align: center;">No. 3(155)/S.560(5)/EES/1814/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Sharadha</p>		

Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved :—

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Shillong-793001, the 14th March 2011

No. ROC/SH/560(5)/12085—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	03542	M/s. Nilachal Tea Private Limited
2.	03304	M/s. Pyramid Properties Private Limited
3.	05948	M/s. Gogoi Tea Company Private Limited
4.	02314	M/s. Seconee Tea Private Limited
5.	07098	M/s. Pala Enterprise Private Limited
6.	06711	M/s. Manjusha Stocks Private Limited
7.	05393	M/s. Tripura Golden Goods Carrier Co. India Private Limited
8.	06733	M/s. Bahniman Industries Private Limited
9.	03346	M/s. Pragyotish Textile Mills Private Limited
10.	02094	M/s. J. K. Plantations Private Limited
11.	06541	M/s. Baba Instant Laundry Private Limited
12.	02957	M/s. Karbi Anglong Chemicals Limited
13.	05757	M/s. ISM Studio Private Limited
14.	01838	M/s. ISA Bheel Limited
15.	04549	M/s. Anderson Minerals Co. Private Limited
16.	01106	M/s. Tripura Plywood Corporation Private Limited
17.	07991	M/s. Ceekay Traders Private Limited
18.	06799	M/s. Ankur Edutech Private Limited
19.	05972	M/s. Meghalaya Cylinders Limited

1	2	3
20.	02119	M/s. Yanho Timber Industries Private Limited
21.	05736	M/s. Rungta Enterprises Private Limited
22.	06457	M/s. Kanchan Associates Private Limited
23.	06251	M/s. Sumangal Enterprises Private Limited
24.	06942	M/s. Positive Projects & Consultants Private Limited

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Shillong-793001, the 15th March 2011

No. ROC/SH/560(3)/2011/14315—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	005362	M/s. Aay Key Associates Private Limited
2.	007036	M/s. Abhilashaa Merchants Private Limited
3.	004024	M/s. AC and Associates Private Limited
4.	003717	M/s. Achyut Textiles Private Limited
5.	004733	M/s. Aditya Softwares Private Limited
6.	007409	M/s. Agartala Marketing Private Limited
7.	007851	M/s. Alicon Medicine Private Limited
8.	001873	M/s. Amon and Compay Private Limited
9.	004814	M/s. Ankit Entrade Private Limited
10.	006744	M/s. Aqua Networks Private Limited
11.	007457	M/s. Arnob-Anamika Akash Trading Company Private Limited
12.	006288	M/s. Arunachal Builders and Hydro Power Company Private Limited
13.	007386	M/s. Asom Pragati Infrastructure Limited

1	2	3
14.	007109	M/s. Assam Bakes N Cakes Associates Private Limited
15.	002415	M/s. Assam Commercial and Leasing (India) Private Limited
16.	002492	M/s. Assam Hauliers Private Limited
17.	002456	M/s. Assam Manipur Carriers Private Limited
18.	004117	M/s. Assam Methanol Limited
19.	000990	M/s. Assam Sillimanite Private Limited
20.	007911	M/s. Assam Smart Card Priyate Limited
21.	003043	M/s. Assam Valley Travels Private Limited
22.	002820	M/s. Assam Zinkote Limited
23.	005273	M/s. Avinandan Apartments Private Limited
24.	005857	M/s. AVM Tobacco Company Private Limited
25.	007766	M/s. Avoy Real Estates Private Limited
26.	005596	M/s. B. Dibakar and Company Private Limited
27.	003930	M/s. B. R. Industries Limited
28.	004540	M/s. B. R. Fincap Private Limited
29.	004383	M/s. Baba Securities Limited
30.	006813	M/s. Baks Marketing Private Limited
31.	005309	M/s. Banjop Canbam Private Limited
32.	006120	M/s. Bansidham Tea Company Private Limited
33.	004124	M/s. Barail Finance and Investment Private Limited
34.	005021	M/s. BDS Pharma Private Limited
35.	002605	M/s. Bhartiya Scrap Industries Private Limited
36.	004484	M/s. Bhavana Entrade Private Limited
37.	007626	M/s. Bitong Sangtam Builders Private Limited
38.	007625	M/s. Bitong Sangtam Medical Diagnostic Centre Private Limited
39.	004517	M/s. Bohagi Finance and Investment Limited
40.	003074	M/s. Bohra Projects Private Limited
41.	004327	M/s. Brahmaputra Agricultural Machineries Private Limited
42.	003433	M/s. Brahmaputra Consumer Products Private Limited

1	2	3
43.	003798	M/s. Bright Stores and Enterprises Private Limited
44.	003939	M/s. Brightex Finance and Leasing Limited
45.	002618	M/s. Burakia Udyog Private Limited
46.	003011	M/s. Central India Finance and Investment Limited
47.	004700	M/s. Century Properties Private Limited
48.	003456	M/s. Chatrapati Pandey Construction Private Limited
49.	003540	M/s. Chipstone Construction Company Private Limited
50.	004133	M/s. Classic (India) Private Limited
51.	002653	M/s. Comprehensive Care & Medical Research Centre Limited
52.	004126	M/s. D. J. and Associates Private Limited
53.	003831	M/s. D. N. Engineers & Consultants Private Limited
54.	002832	M/s. D. S. K. Private Limited
55.	005105	M/s. Daffodil Infotech Private Limited
56.	003481	M/s. Daisyland Nursing Home & Maternity Centre Private Limited
57.	003564	M/s. Das & Choudhury Traders Private Limited
58.	006605	M/s. Denizen Agro Resorts & Developers (India) Limited
59.	005079	M/s. Devdoot Finance & Investment India Private Limited
60.	008032	M/s. Dewan & Islam Developers Private Limited
61.	007408	M/s. Dhonsiri Commodities & Advisory Services Private Limited
62.	003405	M/s. Dhrubajyoti Finance & Investment Private Limited
63.	003174	M/s. Diamond Industries & Allied Services Private Limited
64.	006640	M/s. Diha Builders Entrade Private Limited
65.	005683	M/s. Dilip Properties Private Limited
66.	005744	M/s. Disha Marketing Private Limited
67.	003880	M/s. Dispo Inject Sales Private Limited
68.	003826	M/s. D-Neherbs Services Private Limited
69.	006697	M/s. Doyang Travels Private Limited
70.	007904	M/s. Drona Tower Private Limited

1	2	3	1	2	3
71.	002442	M/s. East End Hotels & Leasing Co. Private Limited	99.	004197	M/s. Himkopy Housing & Finance Limited
72.	006972	M/s. East Himalayan Medicinal & Aromatic Plants Private Limited	100.	000845	M/s. Hindustan Builders Private Limited
73.	005442	M/s. Eastern Netborne Computers Private Limited	101.	004064	M/s. Hiquet Engineering Private Limited
74.	001433	M/s. Eastern Steel & Alloys Co. Private Limited	102.	004269	M/s. Hive India Manufacturers Private Limited
75.	001552	M/s. Economic Transport Organisation (QTS) Private Limited	103.	002251	M/s. Home Entertainment Electronic Private Limited
76.	003804	M/s. Eeco Pharmaceuticals Private Limited	104.	006462	M/s. Hotel Pramila Private Limited
77.	006431	M/s. Else India Ceramic Private Limited	105.	005759	M/s. Hypertech Communications Private Limited
78.	004519	M/s. Eskimos Marketing & Consultancy Private Limited	106.	006723	M/s. Impex Dispovan Private Limited
79.	001190	M/s. Everest Cycles Limited	107.	004569	M/s. Indo Gulf Apartments Private Limited
80.	005104	M/s. Qzung Enterprises Private Limited	108.	003501	M/s. Innovative Agro Products Private Limited
81.	007700	M/s. Far East Agro-Fruit Products Private Limited	109.	001933	M/s. Integrated Business International Private Limited
82.	004031	M/s. Flotech Properties & Developers Private Limited	110.	004499	M/s. Intek Systems India Private Limited
83.	005378	M/s. Friend Land Enterprises Private Limited	111.	007865	M/s. Intra Vision Electronic Media Services Private Limited
84.	001410	M/s. Frontier Engg. (Prestressed Concrete) Private Limited	112.	003199	M/s. J. C. G. & Company Private Limited
85.	001484	M/s. Frontier Motorcar Company Private Limited	113.	003713	M/s. J. C. Electricals Private Limited
86.	004699	M/s. Gainwell Developers Private Limited	114.	003612	M/s. Jai Laxmi Finance & Hire Purchase Private Limited
87.	008060	M/s. Ganpati-Ail Industries Private Limited	115.	002496	M/s. Jajco India Private Limited
88.	008152	M/s. Geo Meena Cement Private Limited	116.	005274	M/s. Janasuraksha Finance & Investment Private Limited
89.	007918	M/s. Govinda Madhav Property Dealers Private Limited	117.	007998	M/s. Jayshree Mines & Minerals Private Limited
90.	008169	M/s. Green Earth Agri-Horti Private Limited	118.	005545	M/s. Jeevan Resorts Private Limited
91.	007116	M/s. Greenbrew India Private Limited	119.	006648	M/s. Jeeva Shree Marketing Services Private Limited
92.	004158	M/s. Greenfield Apartments Private Limited	120.	006891	M/s. J. G. Agencies Private Limited
93.	003330	M/s. Guwahati Medical & Research Centre Private Limited	121.	005762	M/s. Johnson Eastern Power Minerals & Mines Private Limited
94.	005633	M/s. Guwahati Trading Private Limited	122.	005956	M/s. Jupiter N. E. Marketing Private Limited
95.	007349	M/s. Healchem Pharma Private Limited	123.	003408	M/s. Kailash Saw Mills Private Limited
96.	004726	M/s. Hermitage Finance & Investment India Limited	124.	003725	M/s. Kalicharan Trade & Agencies Private Limited
97.	005285	M/s. Hillmen International Private Limited	125.	002835	M/s. Kamrup Aluminium Udyog Private Limited
98.	006381	M/s. Himalaya Computech (India) Private Limited	126.	005253	M/s. Kamrup Kamakhya Business Private Limited

1	2	3	1	2	3
127.	002134	M/s. Kamrup Steep Industries Private Limited	155.	008418	M/s. Luit Management Services Private Limited
128.	006393	M/s. Kamrup Udyog Private Limited	156.	003590	M/s. Luit Trade & Agencies Private Limited
129.	002407	M/s. Kanch Transport Company Private Limited	157.	003412	M/s. Luminos Gas Private Limited
130.	002993	M/s. Kangkan Commercials & Industries Private Limited	158.	003464	M/s. Lyndans Advertising Private Limited
131.	003228	M/s. Kangleipak Economic & Financial Company Private Limited	159.	003467	M/s. Lyndans Tours & Travels Private Limited
132.	006880	M/s. Kareng Construction Private Limited	160.	006778	M/s. M. S. Tradewings Private Limited
133.	004953	M/s. Kathpal Enterprises Private Limited	161.	007639	M/s. Maa Kali Trading Private Limited
134.	005217	M/s. KDP Business & Finance Limited	162.	005799	M/s. Mahabahu Trades Private Limited
135.	007977	M/s. Kee Relations & Event Management Private Limited	163.	005858	M/s. Maheshwara Cold Storage & Ice Factory Private Limited
136.	007050	M/s. Kewhira Builders Private Limited	164.	006853	M/s. Manas Establishment Private Limited
137.	007591	M/s. Kiran Enclave Private Limited	165.	001662	M/s. Mangaldoi Jute Mills Limited
138.	001012	M/s. Krishna Pada Coomer & Co. Private Limited	166.	005266	M/s. Manipur Construction & Development Private Limited
139.	004093	M/s. Kshitij Enterprises Private Limited	167.	007649	M/s. Manipur Essential Commodities Marketing Services Limited
140.	002667	M/s. Kundil Steel Udyog Private Limited	168.	002656	M/s. Manipur Finance & Investment Limited
141.	004450	M/s. L. J. Minerals & Trading Company Private Limited	169.	008166	M/s. Margang Construction Private Limited
142.	004597	M/s. Labella Commercials Private Limited	170.	005867	M/s. Massa Omnitech Private Limited
143.	007820	M/s. Labu Choice Tea Company Limited	171.	004716	M/s. Maxflow Finance & Trading Private Limited
144.	005036	M/s. Lahdoi Tea Manufacturing Co. Private Limited	172.	006918	Maxweld Fabricators & Engineers Private Limited
145.	001781	M/s. Land & Prime Construction Private Limited	173.	001279	M/s. Meenaxi Wire Industries (Assam) Limited
146.	004826	M/s. Lankeswari Finance & Investment Private Limited	174.	007244	M/s. Meeyamgee Chaokhat Thourang Lup Commercial Company Limited
147.	006665	M/s. Laskars Info Private Limited	175.	002891	M/s. Mega Tech Services Private Limited
148.	004555	M/s. Leopard Mercantiles Private Limited	176.	007010	M/s. Meghalaya Air Products Private Limited
149.	006982	M/s. Liberal Insurance Link Private Limited	177.	004398	M/s. Meghalaya Automobiles & Motors Private Limited
150.	004363	M/s. Life Line East India Medical Research Centre Private Limited	178.	006487	M/s. Meghalaya Bushes Private Limited
151.	005371	M/s. Lifeline Mercantiles & Investment Private Limited	179.	001640	M/s. Meghalaya Pensioner S Leather Works Limited
152.	008272	M/s. Lifeshine Network Marketing Private Limited	180.	006516	M/s. Meghalaya Sheets & Tubes Private Limited
153.	005861	M/s. Lohit Glass Private Limited	181.	005358	M/s. Messra A. T. Private Limited
154.	004374	M/s. Lohit Properties Private Limited	182.	003912	M/s. Metropole Traders Private Limited

1	2	3	1	2	3
183.	005923	M/s. MHA Enterprise Private Limited	211.	007960	M/s. Nezone Drugs & Pharmaceuticals Private Limited
184.	003763	M/s. Middletown Hospital Private Limited	212.	006801	M/s. Nezone Motors Private Limited
185.	005318	M/s. Midland Tea Estate Private Limited	213.	006624	M/s. Nezone Online Business Private Limited
186.	002842	M/s. Mittal Chemicals Private Limited	214.	005880	M/s. Nezone Paints Limited
187.	006593	M/s. Mizoram Grand Hotel Private Limited	215.	007775	M/s. Nezone Water & Energy Resource Private Limited
188.	003186	M/s. Moon Investment & Industrial Finance Limited	216.	007497	M/s. Nilachal Edibles Private Limited
189.	002211	M/s. Moonlight Hotel Private Limited	217.	005002	M/s. Nilachal Fabrics Private Limited
190.	008162	M/s. Moran Trading Company Private Limited	218.	004762	M/s. Nilachal Hills Holding Company Private Limited
191.	007012	M/s. N. E. Hub Solutions Private Limited	219.	004933	M/s. NLB Finance and Investment India Private Limited
192.	003192	M/s. N. E. Metaloid Industries Private Limited	220.	008268	M/s. Norest Logistics Private Limited
193.	002389	M/s. N. P. S. Timbers Private Limited	221.	005492	M/s. North East Abasan Finance and Plantations Private Limited
194.	008085	M/s. N. B. R. Contract Private Limited	222.	006140	M/s. North East Heavy Machinaries ANS Equipment Private Limited
195.	003007	M/s. N. E. Builders Private Limited	223.	005300	M/s. North East Jute Mill Private Limited
196.	008208	M/s. N. N. Realtors & Construction Private Limited	224.	001947	M/s. North East Laboratories Private Limited
197.	007906	M/s. Nagaland Agro Forest Produce Marketing Private Limited	225.	005903	M/s. North East Shahara India Plantation Limited
198.	002392	M/s. Nagaland Bone Mills Company Private Limited	226.	004638	M/s. North Eastern Airways Limited
199.	006545	M/s. Nagaland Iron & Steel Works Private Limited	227.	003103	M/s. North Eastern Mechelect Services Private Limited
200.	006583	M/s. Nagaland Plastic Industries Private Limited	228.	001616	M/s. North Eastern Plywood Industries Private Limited
201.	008337	M/s. Namrata Construction Private Limited	229.	005840	M/s. North Eastern Silk Private Limited
202.	006028	M/s. Nandanban Resorts Private Limited	230.	002186	M/s. North Eastern Transformers Private Limited
203.	007124	M/s. Narayani Stationeries Packaging Private Limited	231.	003121	M/s. Northern Steel Merchants Private Limited
204.	007989	M/s. Narpuh Coke Private Limited	232.	004824	M/s. Obonori Pictures Private Limited
205.	007504	M/s. NE Security Private Limited	233.	006579	M/s. Om (Megha) Food Private Limited
206.	003632	M/s. New Fount Credit and Investments Private Limited	234.	008129	M/s. Om Kareswar Real Estate Private Limited
207.	003177	M/s. New Imperial Finance and Industries Private Limited	235.	004895	M/s. Oriental Impex Private Limited
208.	006872	M/s. New Orient Vision Marketing Private Limited	236.	005469	M/s. Oswin Securitan Private Limited
209.	004989	M/s. New Ranajyoti Finance and Investment Company Private Limited	237.	007540	M/s. Padmalaya Builders Company Private Limited
210.	004251	M/s. Newlook Finance and Investment Private Limited			

1	2	3
238.	002756	M/s. Panchratna Holding Private Limited
239.	006716	M/s. Pankhi Health Establishment Private Limited
240.	004520	M/s. Parabar Finance and Investment India Private Limited
241.	003452	M/s. Paragon Polymers Private Limited
242.	002854	M/s. Paramount Commercial Limited
243.	006376	M/s. Pasupati Creameries Private Limited
244.	002078	M/s. Pathfinder Press Private Limited
245.	002118	M/s. Pauna Wood Industries Private Limited
246.	006016	M/s. Pawan Tours and Agencies Private Limited
247.	007419	M/s. PBSL Paper Processors Limited
248.	003333	M/s. Petrotrade India Private Limited
249.	002221	M/s. Pine Grove Nursing Home Private Limited
250.	004254	M/s. Pinnack India Private Limited
251.	007978	M/s. PNAR Mines and Minerals Private Limited
252.	002639	M/s. Poddar Trade and Industries Private Limited
253.	003423	M/s. Pooja Distributors Private Limited
254.	008335	M/s. PPT Developers Private Limited
255.	003662	M/s. Prag Housing Private Limited
256.	005025	M/s. Prag Tea Warehouse Private Limited
257.	005421	M/s. Pragati Alums Private Limited
258.	002175	M/s. Pragjyoti Cine Enterprise Limited
259.	005961	M/s. Pragjyoti Perfumers Private Limited
260.	007315	M/s. Pratishtha Enterprise Private Limited
261.	004135	M/s. Precede Leasing and Hire Purchase Private Limited
262.	002433	M/s. Premier Structural Concrete Industries Private Limited
263.	004257	M/s. Pride International India Private Limited
264.	006394	M/s. Printel Media Private Limited
265.	005306	M/s. Progressive Advisory Services Private Limited

1	2	3
266.	004281	M/s. Proman India Private Limited
267.	004978	M/s. Purbadesh Finance and Investment Private Limited
268.	006597	M/s. Purbanchal Concrete Private Limited
269.	004506	M/s. Purbanchal Diagnostic Hospital and Research Centre Private Limited
270.	004294	M/s. Purbanchal Housing Developers and Consultancy Services Private Limited
271.	004401	M/s. Q.B. Finance and Investments Private Limited
272.	006448	M/s. Quadrasoft Technologies Private Limited
273.	007915	M/s. Queens Field Marketing Private Limited
274.	003537	M/s. Radiant Vision Private Limited
275.	001390	M/s. Rafiulla Tea & Industries Private Limited
276.	006739	M/s. Raj Fish Company Private Limited
277.	008248	M/s. Ramdia Builders Private Limited
278.	002886	M/s. Rangapani Rubber Estates Private Limited
279.	002837	M/s. Ravi Lime Industries Private Limited
280.	006875	M/s. RDB Real Estates & Developers Private Limited
281.	005632	M/s. Reniassance Institute of Ethic and Management Private Limited
282.	004618	M/s. Rhine Realtors and Trading Company Private Limited
283.	007899	M/s. RJB Marketing Private Limited
284.	008328	M/s. S. & J. Communication Services Private Limited
285.	006956	M/s. S.D. Digicon Solutions Private Limited
286.	003259	M/s. S.D. Publications Private Limited
287.	002100	M/s. Sai Builders Private Limited
288.	006945	M/s. Salado Food Manufacturers Private Limited
289.	004688	M/s. Samannoy Finance and Investment Private Limited
290.	006649	M/s. Sanjeevan (India) Private Limited
291.	004379	M/s. Saptorshi Leasing and Finance India Private Limited

1	2	3
292.	003466	M/s. Sarada Memorial Hospital and Research Centre Private Limited
293.	003536	M/s. Saraha Transport Private Limited
294.	004452	M/s. Saraighat Enterprise Private Limited
295.	007176	M/s. Saraighat Security & Investigation Services Private Limited
296.	006762	M/s. Sarkar Infotec Private Limited
297.	002099	M/s. Sarma Clinic Private Limited
298.	005248	M/s. Saswata Agrofarms India Private Limited
299.	005055	M/s. Sato Hotel Private Limited
300.	007765	M/s. Satyam Paints Private Limited
301.	006574	M/s. Shaktishiva Trade & Manufacturing Company Private Limited
302.	006644	M/s. Shangian Tours & Travels Private Limited
303.	004283	M/s. Shine Tea and Allieds Private Limited
304.	007761	M/s. Shiva Plaza Private Limited
305.	003999	M/s. Shivam Marketing Private Limited
306.	007422	M/s. Shree Pragati Asha Agro Private Limited
307.	007047	M/s. Shreeagro Cattle Poultry Feedings & Research Private Limited
308.	001269	M/s. Shyam Talkies Private Limited
309.	001754	M/s. Sibsagar Forest Products Private Limited
310.	003773	M/s. SKB Packers and Movers Assam Private Limited
311.	004476	M/s. Skylark Commercial Private Limited
312.	005609	M/s. SNGI Aqua Private Limited
313.	006940	M/s. Source Tech Education Private Limited
314.	005061	M/s. Special Green Tea Export Enterprises Limited
315.	005402	M/s. Sree Surya Commercial Private Limited
316.	004139	M/s. Srishti Services Private Limited
317.	003310	M/s. Steel Skills India Private Limited
318.	005821	M/s. Sun Records Private Limited
319.	003381	M/s. Sunflag Jute Trading Private Limited

1	2	3
320.	003459	M/s. Supreme Tea Limited
321.	002952	M/s. Suraj Agro Industries Private Limited
322.	002959	M/s. Surma Valley Plantations Private Limited
323.	003463	M/s. Swadeshi Bricks and Builders Private Limited
324.	004189	M/s. Swagat Auto Agencies Private Limited
325.	005090	M/s. Sweta Steels Private Limited
326.	005892	M/s. Swift Computer Forms Private Limited
327.	006718	M/s. Synergy Composites Private Limited
328.	004543	M/s. Sysa Hire Purchase and Marketing Private Limited
329.	006780	M/s. T.B. Builders Private Limited
330.	004525	M/s. Taurus Capital Limited
331.	008390	M/s. Timeonear Furnitech Private Limited
332.	005112	M/s. Times Cargo Carriers Private Limited
333.	002299	M/s. Tiru Hills Timber Private Limited
334.	007506	M/s. Transcend Pharmaceutical Private Limited
335.	003589	M/s. Trident Textiles Private Limited
336.	005517	M/s. Trimurti India Private Limited
337.	007814	M/s. Tripura Agency Services Private Limited
338.	003625	M/s. Triveni Plastics Private Limited
339.	006992	M/s. Tsar Mining & Trading Private Limited
340.	001599	M/s. Tulsibari Farm Private Limited
341.	004493	M/s. Udaigiri Hire Purchase and Marketing Private Limited
342.	006924	M/s. Udayachal Engineers Private Limited
343.	007992	M/s. Umananda Techno Consultancy Services Private Limited
344.	006727	M/s. United Link (India) Private Limited
345.	006139	M/s. Upahar Hi Upahar Innovation Private Limited
346.	005355	M/s. Upper Assam India Tea Co. Private Limited
347.	004352	M/s. Venus Hospital Private Limited
348.	007044	M/s. Virtual Access Private Limited

1	2	3
349.	006932	M/s. Vivek Communication Private Limited
350.	003144	M/s. Western Financial Corporation Limited
351.	006806	M/s. Wriddhi Business Private Limited
352.	007509	M/s. Xtech Systems Private Limited
353.	007659	M/s. Xubhro Constructions Private Limited
354.	006007	M/s. Yes Boss Hotel Private Limited
355.	004203	M/s. Zircon India Private Limited
356.	007308	M/s. Zircon Plaza Private Limited
357.	005713	M/s. Zoram Agricultural Trading Company Limited
358.	005310	M/s. Zoram Agrofarm Industries Limited

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pan Bio-Tech Private Limited

Cuttack-753001, the 14th March 2011

No. ROC/Sec. 560(5)/EES-2011/6819—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pan Bio-Tech Private Limited have this day been struck off the register of the Registrar of Companies and the said company is dissolved.

B. MOHANTY
Registrar of Companies,
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies

Cuttack-753001, the 17 March 2011

No. ROC/Sec. 560(3)/6829—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-008520	M/s. All Right Marketing Private Limited
2.	15-006947	M/s. Pinnacle Systems and Services Private Limited

1	2	3
3.	15-009153	M/s. Utkal Pharma Consortium Private Limited
4.	15-010003	M/s. Basanti Securities Private Limited
5.	15-003351	M/s. Pyramid Equipments and Constructions Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies,
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies

Coimbatore, the 31st August 2010

No. 560(3)/ROC/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	SRN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	92870856	M/s. Ram K7 Shares and Securities Private Limited
2.	92698257	M/s. Sri Vigneswara Agriculture and Research Private Limited
3.	91940304	M/s. Ridon Rubbers Private Limited
4.	92593342	M/s. PVK Solvent Extractions Private Limited
5.	92855345	M/s. Pragiaqua Minerals Private Limited
6.	91762286	M/s. Attire Fashion India Private Limited
7.	92855584	M/s. Vikram Apparels Private Limited
8.	91941815	M/s. Astron Garments India Private Limited
9.	91946707	M/s. Nagamma Devi Chit Funds Private Limited
10.	92890680	M/s. Randass Technologies Private Limited
11.	92331370	M/s. Nagprakash Constructions Private Limited
12.	91963942	M/s. Bommidi Benefit Fund Limited
13.	92946615	M/s. Pankajam Poly Chem Industries Private Limited

1	2	3	1	2	3
14.	92946821	M/s. Bhavaniamman Spinners Private Limited	43.	92066307	M/s. Smartline Appliance Private Limited
15.	92951292	M/s. G.K.V. Infotech (India) Private Limited	44.	92791680	M/s. Dharmashastaa Huller Machines Private Limited
16.	92598259	M/s. Island Textile (India) Private Limited	45.	92792100	M/s. Minu Strategy Solutions Private Limited
17.	92598341	M/s. Kadiravan Cotton Spinning Mill Private Limited	46.	92143833	M/s. Senthur Trading Private Limited
18.	92598473	M/s. Sri Mookambiga Sugars Private Limited	47.	92145739	M/s. Coir and Allied Composite Products Tamilnadu Limited
19.	92598499	M/s. Orientlake Exim (India) Private Limited	48.	90388372	M/s. R.S.M. Textiles (India) Private Limited
20.	92338151	M/s. A.V.K. Constructions Private Limited	49.	92361963	M/s. Coimbatore Valves Private Limited
21.	92455351	M/s. Real Time Logistics Coimbatore Private Limited	50.	90553249	M/s. Aruljothi Textile Company Private Limited
22.	92024199	M/s. Kongu Granites Private Limited	51.	91428011	M/s. CTK Hospitals Limited
23.	92601350	M/s. Ruth Technology (India) Private Limited	52.	91588863	M/s. Cobla Chits Private Limited
24.	90322801	M/s. K.S.R. Sons Wind Farm Private Limited	53.	89996706	M/s. Kondalamman Impex Private Limited
25.	92342492	M/s. Pearls Placement Services (India) Private Limited	54.	92086834	M/s. Rudhran Medical Transcriptions Private Limited
26.	92969286	M/s. Jeets Spin Private Limited	55.	92724574	M/s. Rowacc Pharma (India) Private Limited
27.	92459791	M/s. Sanguinne Garment Export (India) Private Limited	56.	92725357	M/s. Hotel Vignash Viharr Private Limited
28.	92344423	M/s. Ponmari Investment Private Limited	57.	92478296	M/s. PGC Manpower (India) Private Limited
29.	92777150	M/s. Fabsona Foundation Private Limited	58.	92725647	M/s. Shaik Associates Construction Private Limited
30.	92461177	M/s. Balawin Agroprocessing and Exports Private Limited	59.	92877455	M/s. Gopikrishna Brick Works Private Limited
31.	92461466	M/s. Apex Flat promoters (Kovai) Private Limited	60.	92369743	M/s. Texpo Company Private Limited
32.	88584313	M/s. Selvan Travels Private Limited	61.	92481720	M/s. Balaji Chemical Industries Private Limited
33.	92713437	M/s. Shri Narasimhaa Maruthi Chits Private Limited	62.	92728534	M/s. Kongu Plantaions Limited
34.	92612969	M/s. Bluemount Communications Private Limited	63.	92805217	M/s. Pan Castings and Alloys (India) Private Limited
35.	92035146	M/s. Myla Infotec Private Limited	64.	92200971	M/s. Rajyashree Re-Rolling Mills (India) Private Limited
36.	92035328	M/s. Aanoor Finance and Investments Private Limited	65.	92880632	M/s. Oddanchathiram Benefit Fund Limited
37.	92714070	M/s. Varna Vision Kovai Private Limited	66.	92643097	M/s. SF Flaps Private Limited
38.	92867720	M/s. V Set Impex Tirupur Private Limited	67.	92484427	M/s. Manjunatha Benffit Funds Limited
39.	92787001	M/s. B R Ingots (India) Limited	68.	92808773	M/s. Mehala Damei Technologies Private Limited
40.	92354786	M/s. Three Way Marketing Services (TN) Private Limited	69.	92881846	M/s. PLA Chits Private Limited
41.	92041128	M/s. Coimbatore Narasimha Finance Private Limited	70.	92731595	M/s. Modern Sahaya Nidi Private Limited
42.	92051978	M/s. EFO Technology Solutions (India) Private Limited	71.	92812858	M/s. HMC Fabrics Private Limited
			72.	91450601	M/s. Summer India Suntex Private Limited

1	2	3
73.	91601237	M/s. Caswin Consultancy Private Limited
74.	92885680	M/s. Alps Kamakshi Marketing Private Limited
75.	92886712	M/s. Techspire Solutions (India) Private Limited
76.	92736925	M/s. Ideal Stores Private Limited
77.	92816248	M/s. Akash Marketing Private Limited
78.	92737253	M/s. Pyramid Building Products Private Limited
79.	92737394	M/s. Parekh Amusements Limited
80.	92737584	M/s. Akshaydeep Chit Funds Private Limited
81.	92656156	M/s. Sri V.K. Textiles (India) Private Limited
82.	92888130	M/s. Ramsal Motors Private Limited
83.	92737923	M/s. Royal Caledonian Clubs and Resorts Private Limited
84.	92817964	M/s. Soorya Wealth Creators Private Limited
85.	92818566	M/s. Pear Infotech Private Limited
86.	92660190	M/s. Girison Appliances Private Limited
87.	92228741	M/s. Kaa Vee Equipment Private Limited
88.	92740646	M/s. Three Star Auto (India) Private Limited
89.	92499433	M/s. Thangamani Chit Funds Private Limited
90.	89052989	M/s. Vengat Ganga Finance and Investments Private Limited
91.	92501717	M/s. Nova Exports Private Limited
92.	92895416	M/s. Adeshwar Chit Funds Private Limited
93.	92743277	M/s. R. Balakrishnan Associates Engineering Private Limited
94.	92503481	M/s. Venugopal Construction Company Private Limited
95.	92896489	M/s. Wisdom Wizards Private Limited
96.	92504307	M/s. Muthusamy Holdings Private Limited
97.	91253468	M/s. KPS Textile Mills Private Limited
98.	92667617	M/s. Sree Devi Sowdamman Spinners (India) Private Limited
99.	92897115	M/s. Veydant Solutions Private Limited
100.	92897651	M/s. Udumalpet Benefit Fund Limited
101.	92825660	M/s. Insequensys Consultant (India) Private Limited
102.	92746965	M/s. Rishyashringa Finance Private Limited
103.	92827567	M/s. Somu Portals Private Limited

1	2	3
104.	92408509	M/s. Shini Impex Private Limited
105.	92748466	M/s. Padmagiri Benefit Fund Limited
106.	92828870	M/s. Abay Chakra Consultancy Services (India) Private Limited
107.	92511492	M/s. Hydro Filter Private Limited
108.	92412048	M/s. A.S.D. Textiles Private Limited
109.	92901545	M/s. Tenax Dental Implant (India) Private Limited
110.	92116649	M/s. Ransy Fittings Private Limited
111.	92514173	M/s. Calpp Technologies (India) Private Limited
112.	92118595	M/s. K.R.C. Housing and Infrastructure Company Private Limited
113.	92831916	M/s. Srinidhi Textiles (India) Private Limited
114.	92833508	M/s. Hydromagx Engineering (India) Private Limited
115.	92677293	M/s. M.P. Creation Private Limited
116.	92248749	M/s. Vijayavani Textiles Private Limited
117.	92834142	M/s. S6teen Technologies (India) Private Limited
118.	92121763	M/s. Femco Enterprises (India) Private Limited
119.	92678036	M/s. Vihaan Creations Private Limited
120.	92175702	M/s. Vijay Radha Cits Private Limited
121.	92678283	M/s. Q Tech Engineers (India) Private Limited
122.	92122787	M/s. Hayagriva Management Systems Private Limited
123.	92423458	M/s. Uniquure and Care (India) Private Limited
124.	92122811	M/s. Mafin Consultancy Services (India) Private Limited
125.	90762121	M/s. Josenaro Realtors Private Limited
126.	91817726	M/s. Marudham Investments Private Limited
127.	92123900	M/s. KSD Textiles Private Limited
128.	90572181	M/s. Busy Boy Consultants Private Limited
129.	91622928	M/s. Tex-In Tex Process (India) Private Limited
130.	91623298	M/s. Riverbed Solutions (India) Private Limited
131.	92910421	M/s. Emperor Knitt Exim Private Limited
132.	92528140	M/s. Airlogix Pneumatic Private Limited

1	2	3	1	2	3
133.	92912815	M/s. JED Textiles (India) Private Limited	162.	92211002	M/s. Takito Products India Private Limited
134.	92530401	M/s. Pragi Electronics Private Limited	163.	92281237	M/s. South India Cluster Consultancy Services Private Limited
135.	92914142	M/s. Gold Coast Software Private Limited	164.	92929249	M/s. V. P. N. Exporters Private Limited
136.	92432053	M/s. Namakkal Pandian Chit Funds Private Limited	165.	92929637	M/s. Moon Homes Private Limited
137.	92914753	M/s. Janabhadra Chits Coimbatore Private Limited	166.	91741868	M/s. V. Flextechnologies India Private Limited
138.	92261007	M/s. Seerengammal Benefit Fund Limited	167.	91084566	M/s. Radhakrishna Yarns Private Limited
139.	92845528	M/s. Rosemeadows India Private Limited	168.	92562644	M/s. Jagajothi Spinning Mills Private Limited
140.	92434034	M/s. Namakkal Pandian Finance Private Limited	169.	92564756	M/s. Solo Garments Private Limited
141.	92916766	M/s. Kumar Plantations Private Limited	170.	92935915	M/s. Salem Digitamed Consultancy Services Private Limited
142.	92265602	M/s. V. V. Corrosion Management Solutions Private Limited	171.	92294446	M/s. Longbeach Textile Processors Private Limited
143.	92918275	M/s. Sipcot Hosur Infrastructure Limited	172.	92571652	M/s. Rangachari Cloth Store Private Limited
144.	92849272	M/s. S. S. V. Exports Private Limited	173.	91289793	M/s. Lakshmi Eco Resins India Limited
145.	92436633	M/s. P. R. S. Swetha Finance Limited	174.	92300912	M/s. ATL-Selina Innerwear Private Limited
146.	91367763	M/s. Blue Hill Holiday Resorts Private Limited	175.	92940824	M/s. Rich Texcot India Private Limited
147.	92853068	M/s. Deivam Spinning Mills Private Limited	176.	92301423	M/s. Chinnammal Spinning Mills Private Limited
148.	92920792	M/s. S. I. Ismail Consultancy Services Private Limited	177.	91657155	M/s. Talema Magnetics India Private Limited
149.	92438282	M/s. RKN Cosmetics Private Limited	178.	92575133	M/s. Venkata Subas Textile Mills Private Limited
150.	92693837	M/s. Guru Aqua Farm Private Limited	179.	92942598	M/s. Fortune One Softech Services Private Limited
151.	92200690	M/s. Grace International Private Limited	180.	92943026	M/s. Divyar Rossila Prints India Private Limited
152.	92922830	M/s. Hexagon Steels Private Limited	181.	92943406	M/s. Viswaa Development Benefit Fund Limited
153.	92544998	M/s. Richfield Crop Solutions India Private Limited	182.	91396143	M/s. Inter Bright Appliance Private Limited
154.	91636456	M/s. Laurel Exports Private Limited	183.	92946987	M/s. Galit-Solutions Private Limited
155.	90103359	M/s. E. Flames Software Private Limited	184.	92951003	M/s. Shree Lalithambiga Benefit Funds Limited
156.	92925148	M/s. Siva Carthic Commercial Finance Limited	185.	92315951	M/s. Ingenia Information Technologies Limited
157.	92549203	M/s. Sirvani Hospitals Private Limited	186.	92588326	M/s. Jayashankar and Company Building Promoters Private Limited
158.	92442854	M/s. Sri Venkatabalaji Paper Mills Private Limited	187.	92588698	M/s. Wintech Paper and Boards Private Limited
159.	92208206	M/s. Coimbatore Aviation Training Academy Limited			
160.	92552454	M/s. Sankar Realtors and Properties Private Limited			
161.	92210954	M/s. S. M. P. Aqua Minerals Private Limited			

1	2	3
188.	92954643	M/s. Muthuarun Chits Private Limited
189.	92320225	M/s. B. P. R. Enterprises (India) Private Limited
190.	92959378	M/s. Southern Conlife Consumer Services Private Limited
191.	92961820	M/s. Priya Jewellers Private Limited
192.	91543702	M/s. UMS Electronics Private Limited
193.	91543967	M/s. Rinvestment Private Limited
194.	92963651	M/s. Sri Rama Sundaram Shares and Investments Private Limited
195.	91309617	M/s. Aspiration Computer Form Private Limited
196.	92967066	M/s. Murugavel Finance Private Limited
197.	89522221	M/s. Venkatram General Finance Private Limited
198.	92974856	M/s. Sakthi Murugan Finance Limited
199.	91122663	M/s. Naresh Chandra Textiles Mills Private Limited
200.	91564211	M/s. P. S. V. Infocomsys Private Limited
201.	90234790	M/s. Summer India Iron and Ore Exports Private Limited
202.	89638480	M/s. Poornima Cots and Drives Private Limited
203.	89981369	M/s. P. P. K. Exports Private Limited
204.	89817282	M/s. T. Rajagopala Iyengar Enterprises Private Limited
205.	89475032	M/s. Rajsala Consultancy Private Limited
206.	88565387	M/s. Prasanna Exports Private Limited
207.	88568183	M/s. Apple Clothing Private Limited
208.	89867683	M/s. Youth's Oil Extractions Private Limited
209.	89275804	M/s. Pinaki Systems and Solutions Private Limited
210.	88142096	M/s. Kaiser Textile Machines Private Limited

D. M. MANURIGHICHOLAN
Registrar of Companies,
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Xinta Pharmaceuticals Private Limited
Ernakulam-682021, the 1st March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00417—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Xinta

Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
Company will be dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies :

Kochi-682021, the 14th March 2011

No. Notice u/s. 560(5)/EES-2011/3602/2011—Notice is
hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of
the Companies Act, 1956 that at the names of the following
Companies have this day been struck off the register and
the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Registration No.	Name of the Company
1	2	3
1.	4119	M/s. Vayalakath Investments Private Limited
2.	4316	M/s. Cannanore Steel Industries Private Limited
3.	4886	M/s. Rapsuvic Industries Private Limited
4.	4958	M/s. Tryst India Prints and Process Private Limited
5.	5516	M/s. Chaliar Hospitals Private Limited
6.	6005	M/s. Charisma Chits and Kuries Private Limited
7.	6160	M/s. Cordinate Engineers Private Limited
8.	6392	M/s. Ashoma Trading Company Private Limited
9.	6669	M/s. Intech Control and Uniscalf Systems Private Limited
10.	7980	M/s. Hillarios Institute of Clinical Technology Private Limited
11.	8925	M/s. Indian Ocean Travel Trade and Resorts Private Limited
12.	9370	M/s. Abbey Investments India Private Limited
13.	9869	M/s. A. N. Impex Private Limited
14.	10430	M/s. Sri Rajarajeswari Holdings Private Limited
15.	10836	M/s. Midhunam Kuries Private Limited
16.	11573	M/s. Marc Rubber Components Private Limited
17.	11653	M/s. Powerseal Systems Private Limited
18.	13155	M/s. Threestar Combines Private Limited

1	2	3	1	2	3
19.	13246	M/s. Blackcat Oxides and Paints Private Limited	46.	18411	M/s. Pychem Marketing Private Limited
20.	13366	M/s. Nesso Information Systems Private Limited	47.	18424	M/s. Lee Resorts Private Limited
21.	14081	M/s. Megatrend Sales and Services Private Limited	48.	18440	M/s. Ancheril Bio Tea Private Limited
22.	14536	M/s. Ram N Rom Offset Printers Private Limited	49.	18442	M/s. Kanakadhara Commodities and Derivatives Trading Private Limited
23.	15559	M/s. Elicita Marketing Solutions Private Limited	50.	18614	M/s. Proficient Management Services Private Limited
24.	16113	M/s. Helicon Resorts and Tours Private Limited	51.	18688	M/s. Plards Data Solutions Private Limited
25.	16255	M/s. Ceeyes Information Systems India Private Limited	52.	18705	M/s. Al Habshi Consultants India Private Limited
26.	16267	M/s. Salman Enterprises Private Limited	53.	18731	M/s. E-Valiant Financial Services Private Limited
27.	16314	M/s. Brahmas Holidays and Associated Services Company Private Limited	54.	18830	M/s. Pipo Trading Private Limited
28.	16789	M/s. Saniya Technologies Private Limited	55.	19063	M/s. Acco Bizware Private Limited
29.	16801	M/s. Home Club Supermarket Private Limited	56.	19200	M/s. Sharpfocus Technologies Private Limited
30.	16823	M/s. Kasaragod Automotive Company Private Limited	57.	19377	M/s. Futuro Electrical Equipments Private Limited
31.	16829	M/s. Rajathi Trade Emporium Private Limited	58.	19428	M/s. Kingslynn Bpo Private Limited
32.	16928	M/s. Aalok Information Technology and Systems Private Limited	59.	19472	M/s. Enrich Distributors and Services Private Limited
33.	16955	M/s. Aptvision Computer Marketing Private Limited	60.	19680	M/s. Teamsys Digital Private Limited
34.	16973	M/s. Talapully Herbals Private Limited	61.	20215	M/s. Getz Security & Safety Systems Private Limited
35.	17127	M/s. Regal Princess Jewellers Calicut Private Limited	62.	20679	M/s. Migrate Technologies Private Limited
36.	17139	M/s. Ahammed Steels Private Limited	63.	21012	M/s. Aruvikkara Developers Private Limited
37.	17429	M/s. PBOA Lubes and Spares Private Limited	64.	21043	M/s. Manimuriyil Trading Network Private Limited
38.	17442	M/s. Brahma Infomatics Private Limited	65.	21212	M/s. P K R Freedom Wireless Net Private Limited
39.	17562	M/s. Greatbay Media Publishers Private Limited	66.	21333	M/s. Siam Chandra Seafoods Company Private Limited
40.	17833	M/s. V. Four Builders Private Limited	67.	21417	M/s. Automatrix Infotech Private Limited
41.	18015	M/s. Periyar Lagoons Tours Private Limited	68.	21549	M/s. Kookaburra Manpower Solutions India Private Limited
42.	18100	M/s. Ophyr Technologies Private Limited	69.	21771	M/s. Micro General Trading Company Private Limited
43.	18132	M/s. Opulent Leathers Private Limited			
44.	18207	M/s. Ashtami Laboratories and Pharmaceuticals Private Limited			
45.	18273	M/s. Nava Jeevan Health Care Services Private Limited			

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kochi-682021, the 15th March 2011

No. u/s. 560(5)/EES-2011/3603/2011—Notice is hereby

given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	2834	M/s. Kerala State Industrial Products Trading Corporation Limited
2.	3633	M/s. Westend Tyres Private Limited
3.	5756	M/s. Pet Electro Trades Trichur Private Limited
4.	6724	M/s. M. J. Investment and Capital Services Private Limited
5.	8134	M/s. Kaiparambu Kuries and Loans Private Limited
6.	8956	M/s. Christopher Kuries and Loans Private Limited
7.	9652	M/s. Polaris Properties Private Limited
8.	9769	M/s. Travancore Sales Company Private Limited
9.	12177	M/s. Bus Owners' Enterprises Private Limited
10.	12730	M/s. Sri Balaji Edible Oil Private Limited
11.	12827	M/s. Holy Faith Kuries Private Limited
12.	13145	M/s. Saroja Textile Private Limited
13.	13781	M/s. Ayursakthi Herbals Private Limited
14.	14021	M/s. Joyners Trade Lines Private Limited
15.	14355	M/s. N. I. Services Private Limited
16.	15140	M/s. Excellent Software Solutions Private Limited
17.	16088	M/s. D. Point Life Sciences Private Limited
18.	16104	M/s. Anantha Tours Private Limited
19.	16239	M/s. For Rest Travellers Private Limited
20.	16272	M/s. Manju Jewels and Dye Works Private Limited
21.	16410	M/s. Kochi Air Tours and Travels Private Limited
22.	16718	M/s. Patmark FS Private Limited
23.	16751	M/s. Herbs Valley Private Limited
24.	16788	M/s. Royal Curry Powder and Food Stuff Private Limited
25.	16869	M/s. Krissware Designer Homes Private Limited

1	2	3
26.	16954	M/s. Sun Education and Management Consultancy Private Limited
27.	17208	M/s. United 4 IT Solutions Private Limited
28.	17241	M/s. Dheedi Digital Designing and Printers Private Limited
29.	17321	M/s. Theckumvelil Consultancy Services Private Limited
30.	17416	M/s. Swam Innovative Net Marketing Concepts Private Limited
31.	17644	M/s. AM Light Academic Private Limited
32.	17822	M/s. Kab Ventures Private Limited
33.	17998	M/s. I MTZ Technologies Private Limited
34.	18359	M/s. Candg Exports Private Limited
35.	18538	M/s. Ownland Projects Private Limited
36.	18946	M/s. Top Star Construction and Maintenance Company Private Limited
37.	19024	M/s. Mukkattukara Gold Manufacturers Consortium Private Limited
38.	19110	M/s. Planwell Impex Private Limited
39.	19111	M/s. Ain Technologies Private Limited
40.	19478	M/s. Jem Gold Manufacturers Consortium Private Limited
41.	20324	M/s. Technium Solutions Private Limited
42.	20349	M/s. Arshadhara Herbals (India) Private Limited
43.	20799	M/s. Panthalookaran Traders Private Limited

K. G JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kochi-682021, the 11th March 2011

No. u/s.560(5)/EES-2010/3604/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	4847	M/s. Master Marine Foods Private Limited
2.	4885	M/s. Tantri Tubes Private Limited

1	2	3	1	2	3
3.	5427	M/s. Perfect Servo Lines Private Limited	29.	12511	M/s. Crono Appliances Private Limited
4.	5885	M/s. Mekel Engineers Private Limited	30.	12985	M/s. Salient Securities Private Limited
5.	5936	M/s. Vellani Farm Products Private Limited	31.	13243	M/s. Festival Films Private Limited
6.	5976	M/s. Hera Computer Development Private Limited	32.	13950	M/s. Resmi Lockers Private Limited
7.	6015	M/s. Unigroup Rubber and Allied Products Private Limited	33.	13976	M/s. Sunnyshine Contractors Private Limited
8.	6286	M/s. Alathur Maternity and Childrens Hospital Private Limited	34.	13986	M/s. Dira-Mikhali Technologies Private Limited
9.	6296	M/s. Penta Pack Private Limited	35.	14219	M/s. Athreya Research Centre of Immunity Private Limited
10.	6313	M/s. Efficient Marketing Private Limited	36.	14669	M/s. Green Park Tea Private Limited
11.	7664	M/s. Kunnamkulam Paper Mills Limited	37.	14763	M/s. IBL Technologies Private Limited
12.	8485	M/s. Vasudha Ayurvedics Private Limited	38.	14863	M/s. Neo Career Academy Private Limited
13.	8971	M/s. Thattakunnel Nets Private Limited	39.	16262	M/s. Wealthy Trade Links Limited
14.	9004	M/s. Four Square Estates Private Limited	40.	16824	M/s. Glolinx Cellphone Technologies and Services Private Limited
15.	9546	M/s. Welmen Travelinks Private Limited	41.	17452	M/s. Arys Software Consulting Private Limited
16.	9904	M/s. Idukki Finance and Trades Private Limited	42.	18000	M/s. Win Worth Trade Links Private Limited
17.	9925	M/s. Mamatha Aqua Foods Private Limited	43.	18421	M/s. Airport Planning and Design Engineers Private Limited
18.	10116	M/s. Master Wheels India Private Limited	44.	18489	M/s. Tomjo Agencies Private Limited
19.	10153	M/s. Kalpa Resources Private Limited	45.	19633	M/s. Nonagon Developers Private Limited
20.	10238	M/s. Pankaj Variety Hall Private Limited	46.	19695	M/s. Igen Franchisee Services Private Limited
21.	10590	M/s. Shababna Trading Private Limited	47.	20265	M/s. Mashmika Designs Private Limited
22.	10680	M/s. Superub Private Limited	48.	16625	M/s. ETL Technologies India Private Limited
23.	10774	M/s. Signet Logistix Private Limited			
24.	11044	M/s. Manas Foundation Private Limited			
25.	11056	M/s. Dhanavardhani Kuries and Traders Private Limited			
26.	11318	M/s. Gurupavana Films Private Limited			
27.	12118	M/s. Jetees Securities Private Limited			
28.	12429	M/s. Studio Quattro Software India Private Limited			

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala